

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2017 (वैशाख 2, 1939)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22—APRIL 28, 2017 (VAISAKHA 2, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 मार्च 2017

सं. डीपीपर्स-12017/126/3/143/2014—श्री शरनजीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दि.वि.पु.स्थापना ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के उपरांत अधिवर्षिता पर, दिनांक 28.02.2017 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ह/- अपठनीय
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 30 मार्च 2017

सं. डीपीपर्स-12017/127/3/147/2014—श्री देश दीपक, पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, दि.वि.पु.स्थापना ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के उपरांत अधिवर्षिता पर, दिनांक 28.02.2017 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ह/- अपठनीय
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद—500052, दिनांक 3 अप्रैल 2017

सं. 15011/10/2017 — स्था.—गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21016/03/2017—भा.पु.से.—III दिनांक 02 मार्च, 2017 के अनुसरण में दिनांक 20 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न से डॉ. के. मधुकर शेट्टी, भा.पु.से. (कर्नाटक—99) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप निदेशक के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल 13ए में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर 5 वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है। अधिकारी समय-समय पर जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उक्त के पद वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

डी. आर. डोली बर्मन
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2017

सं. डी.एक.2/2006.16 —कार्मिक. डी. ए. आठ—गृह मंत्रालय, सि.एफ.3373646/2016 दिनांक 21/12/2016, Cabinet Secretariat, GOI Order No. A-12011/01/2017-SS दिनांक 08/02/2017, SPG HQr Fax Message No. 27/B/SPG-Admn/2017(5)-2495 dated 17/02/2017 के तहत श्री सलेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक कमान्डेन्ट (इरला—7910) 206 कोबरा बटालियन के.रि.पु. बल का एस.पी.जी., में SSO(GD) (जो NSG में प्रतिनियुक्ति पर थे), के SPG में संजमतंस प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्षों (i.e. upto 06th March 2020) के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप इन की सेवाएँ दिनांक 08/03/2017 (FN) से महानिदेशक, SPG के निपटान (DISPOSAL) पर रहेगी।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता - 700016, दिनांक 17 अगस्त 2016

सं. 2540/एसपी/ए-12025/1-भूवै./अधिसूचना/2011/19ए—राष्ट्रपति जी, श्री नवीन रावत (कर्मि पहचान संख्या 122040) को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह 'क' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन रु. 5400/- सहित, रुपये 15,600 - 39,100 में दिनांक 10.12.2015 (पूर्वाह्न) से प्रभावी, आगामी आदेशों तक अस्थायी हैसियत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. के. मण्डल
सहायक निदेशक (का एवं प्र)
कृते महानिदेशक

दिनांक 23 अगस्त 2016

सं. 2553/एसपी/ए-12025/1-भूवै./अधिसूचना/12/19ए—राष्ट्रपति जी, श्रीमती सौम्या रे (कर्मि पहचान संख्या: 121906) को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक के पद पर ग्रेड पे रुपए 5400/- (पूर्व संशोधित) सहित पे बैंड-3 के न्यूनतम, रु. 15,600- 39,100/- में दिनांक 21.08.2015 (पूर्वाह्न) से प्रभावी, आगामी आदेशों तक अस्थायी हैसियत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. के. मण्डल
सहायक निदेशक (का एवं प्र)
कृते महानिदेशक

सं. 2557/एसपी/ए-12025/1-भूवै./अधिसूचना/09/19ए—राष्ट्रपति जी, नीचे वर्णित माननीय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित उम्मीदवारों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह 'क' राजपत्रित) के

पद पर ग्रेड पे रुपए 5400/- (पूर्व संशोधित) सहित पे बैंड - 3 के न्यूनतम, रु. 15,600 - 39,100/- में प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तिथि और अन्य विवरणों से प्रभावी, आगामी आदेशों तक अस्थायी हैसियत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारियों का नाम	माननीय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT)/उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक और ओ.ए. संख्या	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	121103	श्रीमती श्रीजा के.	श्रीमती श्रीजा के. द्वारा दाखिल डब्ल्यू पी. संख्या 3196/2012 पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2012	03.12.2012 (पूर्वाहन)
2.	121556	श्री सैकत रे	श्री सैकत रे द्वारा दाखिल ओ.ए. संख्या 2078/2012 पर माननीय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश दिनांक 18.09.2013	06.03.2014 (पूर्वाहन)
3.	121104	श्री अंजनज्योति डेका	श्री अंजनज्योति डेका द्वारा दाखिल ओ.ए. संख्या 74/2012 पर माननीय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश दिनांक 11.06.2012	03.12.2012 (पूर्वाहन)

ए. के. मण्डल
सहायक निदेशक (का एवं प्र)
कृते महानिदेशक

कोलकाता- 700 016, दिनांक 13 जून 2016

सं. 2556/एसपी/ए-12025/1-भूवै./अधिसूचना/2014/19ए—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर पे बैंड - 3 के न्यूनतम ग्रेड पे रु. 5400/- सहित रु. 15,600 - 39,100/- में, अस्थायी हैसियत पर प्रत्येक के सामने दर्शाए गए तिथि तथा अन्य ब्यौरे से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	रैंक	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति तिथि
1.	4	122041	श्री वसीम अहमद	09.12.2015
2.	6	122042	श्रीमती श्रेया बसु	10.12.2015
3.	7	122043	श्रीमती माधवी मौडल	09.12.2015
4.	8	122044	श्रीमती तनवीर फातिमा खान	09.12.2015
5.	9	121589	श्री अतिउल्लाह	10.12.2015
6.	10	122045	श्री सुब्रत सुंदरे	09.12.2015
7.	11	122046	श्रीमती रोज एल रोथांगमावी	10.12.2015
8.	14	122047	श्रीमती प्रियंका पॉल	09.12.2015
9.	15	122048	श्रीमती महिमा सिंह	10.12.2015
10.	16	122049	श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह	09.12.2015

क्र. सं.	रैंक	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति तिथि
11.	17	121592	श्रीमती संगीतासरिता नंदा	09.12.2015
12.	18	122050	श्री गौरव मिश्रा	09.12.2015
13.	20	122051	श्रीमती पुष्पिता त्रिपाठी	09.12.2015
14.	22	122052	श्री सयाम कोनार	09.12.2015
15.	23	122053	श्री सयान सिन्हा	09.12.2015
16.	24	122054	श्रीमती वारिशा अख्तरा अहमद	09.12.2015
17.	25	122055	श्रीमती रवीना भट्ट	09.12.2015
18.	26	122056	श्री वेदांत हिमसर झाला	09.12.2015
19.	27	122155	श्री एबी रकीब रैदर	09.12.2015
20.	28	120998	श्री कैलाश चंद	09.12.2015
21.	29	122058	श्री अभिलाश जार्ज	09.12.2015
22.	30	122059	श्रीमती सुरभि गर्ग	09.12.2015
23.	32	122060	श्री मोहम्मद अर्कन	09.12.2015
24.	34	122061	श्रीमती सकुंतला साहू	09.12.2015
25.	35	122062	श्री रबिन्दर कुमार साहू	09.12.2015
26.	37	122063	श्री शिशिर भारद्वाज	09.12.2015
27.	38	122064	श्री सौरव मुखोपाध्याय	09.12.2015
28.	39	122065	श्री विष्णु कुमार सिंह	09.12.2015
29.	40	122066	श्रीमती कुमारी पूजा	09.12.2015
30.	41	122067	श्री राहुल अजाने	09.12.2015
31.	42	121575	श्री सुनिल कुमार शर्मा	09.12.2015
32.	43	122068	श्री श्रीराम सुमन साहु	09.12.2015
33.	44	122069	श्री राजकुमार घोष	09.12.2015
34.	46	122070	श्री दीजु टी.आर.	09.12.2015
35.	48	122071	श्री स्वागतम खान	09.12.2015
36.	51	122072	श्री प्रदीप कुमार	09.12.2015
37.	53	122073	श्रीमती स्नेहा भौमिक	09.12.2015
38.	54	122074	श्रीमती सुप्रणा झा	09.12.2015

क्र. सं.	रैंक	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति तिथि
39.	55	122075	श्री भगत तपन सुनिल	09.12.2015
40.	56	122076	श्रीमती अनामिका चौधरी	10.12.2015
41.	57	122077	श्रीमती सुकन्या चौधरी	10.12.2015
42.	58	122078	श्री हरि ओम सिंह	09.12.2015
43.	59	122169	श्री बारी सत्यानारायणा	07.03.2016
44.	60	122079	श्रीमती संध्या कृष्णन	09.12.2015
45.	61	122080	श्री देबप्रिया चटर्जी	10.12.2015
46.	63	122081	श्रीमती नीथु असोकन	09.12.2015
47.	64	122083	श्री शाहजाद आलम	09.12.2015
48.	65	122084	श्री कुश कांत शुक्ला	09.12.2015
49.	66	122085	श्रीमती शिप्रा नेगी	09.12.2015
50.	67	122086	श्री बिस्वरंजन साहू	09.12.2015
51.	68	122087	श्री शमशीर अहमद	09.12.2015
52.	69	122088	श्री कन्नन जे प्रकाश	09.12.2015
53.	70	122150	श्री व्हातकर सागर विश्वास	23.12.2015
54.	71	122089	श्री विकास	09.12.2015
55.	72	122090	श्री बेदाब्यास साहू	09.12.2015
56.	73	122091	श्री प्राभात कुमार साहु	09.12.2015
57.	75	122092	श्री सतीश एस. आर	09.12.2015
58.	76	122093	श्री कल्लोल सेन	09.12.2015
59.	77	122094	श्री आलोक कुमार	09.12.2015
60.	78	122095	श्री संदीप बरुआह	10.12.2015
61.	80	122096	श्रीमती फरहा नाज	09.12.2015
62.	83	122097	श्रीमती अभिलिप्सा साहू	09.12.2015
63.	84	122098	श्री मैरेंबम अरुणकुमार सिंह	09.12.2015
64.	85	122099	श्रीमती ललिता यादव	09.12.2015
65.	87	122100	श्री लक्ष्मीकांत बारिक	09.12.2015
66.	88	122101	श्री बेजेवाडा एम वी एस सेखर	09.12.2015

क्र. सं.	रैंक	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति तिथि
67.	89	122102	श्री रामऔतार सिंह	09.12.2015
68.	90	122103	श्री सौनव कर्मी	09.12.2015
69.	91	122104	मोहम्मद जुनैद अंसारी	09.12.2015
70.	92	122105	श्री फोजैल अख्तर	09.12.2015
71.	93	122106	श्रीमती शिमला पी	09.12.2015
72.	94	121784	श्रीमती दिपन्विता मल्लिक	09.12.2015
73.	95	122108	श्री मुनेश कुमार साहु	09.12.2015
74.	97	122109	श्री सौभाग्यलक्ष्मी साहू	09.12.2015
75.	98	122110	श्री विकास मिस्त्री	09.12.2015
76.	100	122111	श्रीमती पूनम नागर	09.12.2015
77.	101	122112	श्रीमती अनिता गोराइ	09.12.2015
78.	102	122113	श्री प्रवीन कुमार टेलर	09.12.2015
79.	104	122114	श्रीमती सिबानी कुमारी नायक	09.12.2015
80.	106	122115	श्री नंदा कुमार एन	09.12.2015
81.	107	122116	श्री राउत भालचंद्र होमदेव	09.12.2015
82.	109	121910	श्री बिस्वजित भराली	09.12.2015
83.	110	122156	श्रीमती अलिवा महतो	09.12.2015
84.	111	122118	श्री राकेश कुमार पटेल	09.12.2015
85.	112	122119	श्रीमती सादिया ओर्रोज	09.12.2015
86.	113	122120	श्री नितिन मोहन मीना	10.12.2015
87.	115	122121	श्री उज्जवल कुमार शर्मा	09.12.2015
88.	116	122122	श्री लोटन बाबुलाल सुर्यवंशी	09.12.2015
89.	117	122123	श्री ललित नरायण	09.12.2015
90.	118	122124	श्री मनीश लाल एम	09.12.2015
91.	119	122125	श्रीमती बिंदिया वंदना एक्का	09.12.2015
92.	120	122126	श्री सब्यसाची मंडल	09.12.2015
93. *	121	122127	श्री निलय मजुमदार	09.12.2015

क्र. सं.	रैंक	कर्मि पहचान संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति तिथि
94.	122	122128	श्री सैकत मॉडल	09.12.2015
95.	123	122129	श्री राजु अग्रवाल	09.12.2015
96.	126	122130	श्री इप्सिता	09.12.2015
97.	127	122131	श्री अभिनव कुमार	09.12.2015
98.	128	122132	श्रीमती परमार अर्चना प्रकाश	09.12.2015
99.	129	122133	श्री मिथुन देब	09.12.2015
100.	130	122134	श्री देवानंद पानिका	09.12.2015
101.	131	122167	श्रीमती स्निग्धारानी साहू	11.02.2016
102.	134	122135	श्री सिमरनजीत कुमार नायक	09.12.2015
103.	135	122136	श्रीमती गार्गी शर्मा	09.12.2015
104.	136	122137	श्री प्रशांत	09.12.2015
105.	137	122138	श्री कर् र विलास श्रीहरी	09.12.2015
106.	138	122157	श्री बिस्वरंजन साहू	09.12.2015
107.	139	122139	श्री नेइफरेहु द्जुविचु	09.12.2015
108.	140	122140	श्रीमती श्रुति सिंह	09.12.2015
109.	141	122141	श्री सतेन्दर कुमार	09.12.2015
110.	142	122142	श्रीमती लीना कुमारी पावे	09.12.2015
111.	144	122153	श्रीमती वैष्णवी एस	30.12.2015
112.	145	122143	श्रीमती केहे-उ वेत्साह	09.12.2015
113.	146	122145	श्री मार्शल बोदरा	10.12.2015
114.	147	122146	श्री स्येद मुजिमुद्दीन	09.12.2015
115.	148	122147	श्री प्रदीप कुमार भुयान	09.12.2015
116.	149	122148	श्री अमरेंद्र कुमार	10.12.2015
117.	150	122149	श्री कालानंद भारती	10.12.2015

* क्रम सं. 93 नें दिनांक 29.04.2016 (पूर्वाहन) के प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है ।

एच. एम. मिश्रा
उप निदेशक (का एवं प्र)
कृते महानिदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

(महानिदेशालय नागर विमानन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जनवरी 2017

सं. ए-39012/10/2016-स्था-11—राष्ट्रपति जी, श्री सागर सुरेशकुमार ठक्कर जो महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय में उप निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत हैं, का त्यागपत्र गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/06/57 स्था (ए) तारीख 06.05.1958 के अनुसरण में 13 जनवरी, 2017 (अपराहन) के प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

2. श्री सागर सुरेशकुमार ठक्कर, उप निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण को 13 जनवरी, 2017 अपराहन में उनकी ड्यूटी से भारमुक्त किया जाता है।

पवन मालवीय
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 24 मार्च 2017

सं. ए-32013/04/2015-स्था-11—इस कार्यालय की तारीख 24.02.2016 की समसंख्यक पूर्ववर्ती अधिसूचना के क्रम में एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार वाजपेयी की नियुक्ति 20.01.2016 के पूर्वाहन से और अगले आदेशों के होने तक वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 7600/- के वेतनमान में नागर विमानन महानिदेशालय में नियमित आधार पर उप निदेशक, उड़ानयोग्यता के पद पर करते हैं।

पवन मालवीय
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मार्च 2017

सं. आरओसी दिल्ली/नवम्बर—दिसम्बर/2016/560(5)/पब्लि. एफटीई/19661—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

क्र. सं.	SRN	CIN	कम्पनी नाम
1	G15304405	U72200DL2015PTC277080	6 ब्रिक्स टेक प्राइवेट लिमिटेड
2	G13622188	U74140DL2007PTC170762	ए जयसुख कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
3	G09966458	U36910DL2007PTC167506	ए एंड टी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	G19915917	U51420DL1997PLC089031	ए जी ब्रोस लिमिटेड
5	G30453757	U51101HR2013PTC050670	ए एन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	G17385964	U45400DL2007PTC165972	ए प अग्रवाल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
7	G29109865	U45400HR2008PTC037511	ए. आर. सी. सोलर प्राइवेट लिमिटेड
8	G19968445	U74899DL1995PTC073180	ए ए ए प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
9	G19725282	U65923DL1995PTC072779	ए ए ए क्रेडिट & होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
10	G30598551	U17121DL2007PTC168709	ए. एस. क्लोथेक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
11	G23187057	U45200DL2012PTC246807	ए३जी एस्टेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	G30506711	U55101DL2006PTC147012	ए ए ए रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	G21826656	U63040DL2010PTC203770	आशी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	G14215503	U67120DL1996PTC076101	अभिछाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	G19704287	U29253DL2009PTC193442	अभिषेक ऑटो (एनडी) प्राइवेट लिमिटेड
16	G28640456	U72900DL2002PTC115716	एक्सैट इन्फो-सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	G28306041	U74999DL2011PTC226800	एक्लेम एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
18	G28129922	U74140DL2011PTC225277	एस एर्गोमेटिक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	G29957800	U74140DL2015PTC274874	एचिल्स फूड्स कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	G14061980	U72900DL2002PTC114180	एकमे सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	G28323780	U70102DL2015PTC287988	एकोर्न ट्री रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
22	G21554613	U41000DL2012PTC235469	एडम एक्वा केयर प्राइवेट लिमिटेड
23	C79850202	U01403HR2013PTC049901	आदर्श क्रॉप्स प्राइवेट लिमिटेड
24	G08897076	U51900DL2007PTC167039	अड्डाजिओ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
25	G20666749	U74999DL2012PTC234099	ऐडग्लो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
26	G19991637	U64120DL2001PTC112644	अदिनी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
27	G29498367	U70102DL2009PTC195123	आदिराज कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	G29302965	U74999HR2015PTC054272	अदिति टेकमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
29	G28846046	U15122DL2015PTC286465	आदित्य फ्रूट प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	G13876677	U74999HR2015PTC056362	ऐडीआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	G18816934	U45400DL2007PTC172078	एडवांस्ड डेरी डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
32	G28814630	U72900DL2004PTC124881	आद्य सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
33	G15657737	U40300DL2011PTC225017	एड फोटोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	G21773007	U32109DL2002PTC116576	एओन अक्वामूलेटॉर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	G19334853	U63010DL2012PTC229636	ऐरो बुकर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	G20238028	U74140DL2012PTC232758	अफोर्डेबल आर्ट फेयर प्राइवेट लिमिटेड
37	G28047025	U27107DL2008PTC177324	अग्नि माइंस & मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	G27517622	U74140DL2009PTC193577	अग्निसार रिस्क मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	G19889153	U74140DL2012PTC241777	ऐजीएस इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
40	G28323707	U74140HR2015PTC055026	अहलूवालिया नेचुरल सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
41	G28727469	U63040DL2008PTC173668	एयरबोर्न हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
42	G24298408	U85100DL2013PTC262037	एर्विल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
43	G21109095	U93000DL2009PTC188302	एस सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
44	G29569738	U74999DL1996PTC083742	अजित केबल एंड सेंट्रलाइट प्राइवेट लिमिटेड
45	G30159552	U70109HR2013PTC049107	अजमेर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
46	G29842846	U74140DL2011PTC220609	ऐजेएस प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
47	G21675962	U71300DL2015PTC276645	ऐके रेंट एंड अर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
48	G20117362	U51909DL2005PTC142170	आकाशदीप ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
49	G30344998	U31401DL2013PTC248766	आकाशगामिनी सप्लाइ एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	G17224015	U28999DL2012PTC237271	ऐकेएम मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	G29788205	U67190DL2008PTC173448	अक्षयलाइफ फाइनेंसियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
52	G28528669	U74999DL2013PTC261892	अल राइट इन्वेस्टीगेशन प्राइवेट लिमिटेड
53	G19871359	U29150HR2012PTC045894	अलेट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	G29918869	U70100DL2015PTC277613	आल इन वन रियल एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
55	G29939329	U70100DL2015PTC276801	अलेज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
56	G21705421	U63030HR2012PTC046736	एलियां जपैकर्स & मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
57	G29447547	U74999DL2006PTC151102	अलाइड रिसर्च इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
58	G23087463	U51397DL2002PTC118188	आलविन मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
59	G25326539	U74140DL2010PTC209021	अल्माज इंजीनियरिंग & कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
60	G18963587	U41000DL2009PTC193338	अल्फा इम्पेक्स रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
61	G19160431	U25209DL1998PTC092567	ऐल्प्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	G30794010	U22222DL2009PTC194968	अमर टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
63	G29656535	U70109DL2006PTC150506	अम्बा हाई-टेक डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	G18173963	U74140DL2010PTC210256	अम्बर फिनवेस्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
65	G30290407	U52390DL2013PTC257585	अमेडियस ट्रेडलैक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
66	G16977282	U20299DL1987PLC029531	अमीगो टेक्नोलॉजीज एलटीडी
67	G30699821	U74140DL2015PTC281052	अमइंडिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
68	G28136190	U51101DL2015PTC287107	अमोघ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
69	G20629176	U72900DL2011PTC222073	अमोघ आईटी सोल्यूशन्स एंड सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
70	G27612456	U70101DL2010PTC203010	आमटे इंफ्रा कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	G23217359	U55101DL2012PTC232889	अम्यूज बाउचे प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
72	G23294374	U74999HR1994PTC032450	आना रुफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
73	G28202703	U74994DL2013PTC248842	अनादि काला प्राइवेट लिमिटेड
74	G13650296	U74890DL2005PTC144206	आनंद प्लास्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
75	G30048458	U33111HR2015PTC055021	एंकरेज मेडीसुरजीडेंट प्राइवेट लिमिटेड
76	G23264427	U65992HR2011PTC043658	अन्यू चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
77	G23265796	U64100DL2011PTC212482	अन्यू टेलीकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
78	G29758703	U74999DL2015FTC288134	एंग्लो अमेरिकन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
79	G18838409	U74994DL2007PTC167584	अनिल एसोसिएट्स अपपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
80	G19015981	U45201DL2012PTC245222	अनीश बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
81	G19020775	U45201DL2012PTC244978	अनीश कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
82	G19015288	U74140DL2012PTC245443	अनीश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
83	G28366276	U72200DL2008PTC180975	आंजनेय आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
84	G30434534	U45400DL2012PTC240693	अंजुलता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	G19961911	U70101DL2012PTC231531	अनखीर प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
86	G08283475	U18101HR2006PTC036228	अंकुश टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
87	G21090451	U74900DL2013PTC247662	ऐएनआर ग्लोबल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	G16133670	U51397DL2003PTC120576	अनसुलन मेडी-एक्विप प्राइवेट लिमिटेड
89	G22994164	U80904DL2013PTC249857	एंटीवर्सिटी कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
90	G30666093	U21014DL2008PTC177654	अनुष्का पैक्वेल प्राइवेट लिमिटेड
91	G19773571	U52590DL2010PTC199838	अन्वी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
92	G19518133	U74999HR2013FTC051445	अन्वय सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
93	G27960111	U70102HR2009PTC039689	अन्विता होम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	G28755189	U67120DL2010PTC207941	अन्वेष्टा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
95	G18905075	U74120DL2008PTC177475	एनीवेयर लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
96	G20074282	U74140DL2015PTC286882	एऑन एवर्सस मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
97	G20072500	U74140DL2015PTC286881	एऑन आरपीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
98	G29267507	U18101DL1999PTC100219	अपाची डिज़ाइनर वियर प्राइवेट लिमिटेड
99	G17238544	U15119DL2006PTC154033	अपनीश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
100	G30460794	U74140DL2010PTC208328	अप्लाइडजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
101	G18136135	U72200DL2012PTC232336	एप्सम वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
102	G29273596	U74900DL2013PTC256420	एक्वा इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
103	G28516656	U70200HR2010PTC040753	आर्चर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
104	G21499512	U22219DL2011PTC212327	एरियावाइज पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
105	G29403698	U25208DL2010PTC205572	ऐरेन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
106	G15504665	U15203DL2002PTC115153	अरिहंत मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
107	G29985884	U74140DL1986PTC025463	अरीओना कंसल्टेंसी SERVICES प्राइवेट LTD.
108	G29698933	U93000HR2014PTC053710	अरतेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
109	G24144875	U52590DL2015PTC286597	अर्थ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
110	G17052713	U40106DL2012PTC232610	अर्यमा एनर्जी एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
111	G00452581	U45400DL2007PTC170557	एस ड्रीमलैंड कॉन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
112	G28667053	U74140DL2008PTC176004	असीम ऐज़आर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
113	G20818217	U24119DL1999PLC100917	आशा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
114	G20897898	U24100HR2007PTC036863	अशोका सेम प्राइवेट लिमिटेड
115	G22751028	U15122HR2011PTC044658	अशोका सुंदरम फूड & इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
116	G28156164	U70102DL2014PTC267070	अश्वानि रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
117	G11922747	U72200DL2008PTC184449	अश्वनी ग्रेट वेब सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
118	G28154896	U70102DL2013PTC262097	अश्वनी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
119	G21267182	U72900DL2011PTC225808	एशिया पैसिफिक ग्रुप इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट
120	G28847408	U51494DL2011PTC229058	ऐएसकेके मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
121	G28660934	U63000DL2012PTC229775	अस्वथ लोगिस-टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
122	B89978043	U74120DL2007PTC167679	ऐटीसीएल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
123	G28825693	U74140HR2011PTC043804	अतिवा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
124	G24115248	U51909DL1998PTC096461	ऐटीएस ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
125	G27771260	U72501DL2012PTC237728	अत्तीवो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
126	G22851208	U74140DL2011PTC212459	अउबैड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
127	G20392775	U52590HR2012PTC044967	ओम श्रीम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
128	G18882563	U45204DL2011PTC212282	ओरा इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
129	G22121768	U80301DL2013PTC256680	ओरिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
130	G27754696	U45200DL2011PTC226996	ऑस्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
131	G30112734	U72200DL2013PTC250059	अवाकजा सॉफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
132	G20748273	U35923DL2012PTC231680	अवंत आटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
133	G15760093	U85110DL2010PTC201624	अविघ्ना हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
134	G21483540	U34300HR2012PTC047581	अविनाश ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड
135	G19441708	U70200HR2012PTC045312	अविरल डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
136	G29716875	U51109DL2009PTC186491	ऐवीएम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
137	G29710746	U74999DL2010PTC201307	एवोकैडो सिक्योरिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
138	G29369600	U25190DL2011PTC227728	एवन बिबको क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
139	G17856048	U31908DL2006PTC156241	ऐवीआर पावर प्राइवेट लिमिटेड
140	G21226295	U45204DL2010PTC203915	ऐवीएस सर्विस अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
141	G22435424	U74140DL2014PTC268221	अव्विसा ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
142	G22550420	U74140DL2013PTC254007	ऐवीयाया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
143	G20969267	U74920HR2011PTC044053	अज़्ज़ा कॉर्पोरेट सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
144	G30015341	U80302DL2013PTC252718	बाबा ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
145	G19033646	U29220DL2012PTC236171	बेबसॉ कूलिंग टावर & इन्क्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
146	G28339794	U74999DL2016PTC289868	बैक बैचर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
147	G23630486	U74140DL2014PTC269958	बद्री विशाल प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
148	G21226915	U45400DL2009PTC187770	बहल एंड संस रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
149	G19807239	U74999DL2015PTC282898	बनादिर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
150	G18421933	U74900DL2009PTC195725	बांके बिहारी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
151	G20994307	U92113DL2011PTC226517	बीसीसी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड
152	G19091727	U63040HR2000PTC035543	बीच & वुड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
153	G23421381	U52590DL2015PTC282969	ब्यूटीएटबेस्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
154	G22784318	U60200HR2010PTC040403	बेकन ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
155	G22576342	U74999DL2014PTC268219	बिगिन टू ईट आर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड
156	G17673757	U74140DL2013PTC250454	बंगाल चैनल प्राइवेट लिमिटेड
157	G18904391	U24233HR2013PTC048576	बर्कशायर फॉर्मूलेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
158	G20296596	U70109DL2006PTC152125	भगवंत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
159	G22766471	U32109DL1999PTC102271	भगवती बिज़नेस सेंटर प्रा. लि.
160	G22044655	U72200DL2012PTC244448	भारतीय इंटेलेजेंट टेस्ट सर्विसेज & आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
161	G19826684	U67190DL2011PTC219529	भूमि इन्फोटेड प्राइवेट लिमिटेड
162	G29082427	U72200HR2011PTC043929	बाइनरी मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
163	C73586356	U19201DL2003PTC118458	बिंदल फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
164	G21229273	U72200DL2013PTC248468	बिट एंड बाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
165	G21524913	U72300DL2013PTC259834	बिज़ीअंतरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
166	G28383685	U18101HR2003PTC035046	बीके हाइटेक टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
167	G22139604	U52335DL2013PTC256573	ब्लैकरॉक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
168	G19634997	U55101DL2011PTC228416	ब्लूस्टोन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
169	G29017357	U93000DL2010PTC200494	बीएमजेटी एस्ट्रोलाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
170	G18073619	U20213DL1999PTC099526	बॉम्बे ईजी चेयर प्राइवेट लिमिटेड
171	G18868653	U72200DL2012PTC234507	बोस्टन ऑफिस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	G28891737	U55101HR2010PTC040563	ब्रेनवेव हॉस्पिटैलिटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
173	G13333406	U74140DL2015PTC276161	ब्राइटहेड बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
174	G29341252	U51229DL1997PTC090457	बृन्दा लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
175	G28813624	U70102DL2013PTC257584	ब्रिस्क एवेन्यू रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	G03059508	U74910DL2007PTC166311	ब्रिस्क मूव्स एचआर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
177	G19585884	U72300DL2010PTC204354	बीआरएन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
178	G18965376	U70109DL2013PTC250414	बजट हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
179	G22844567	U80900HR2013PTC048951	बिज़नेस थिंक लर्निंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
180	G24057549	U45200HR2011PTC043224	सी बी एस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
181	G20496691	U74200DL2008PTC183109	सीएएमसी इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
182	G17598004	U51900DL2014PTC264186	कनान वैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
183	G18838961	U52100DL2008PTC172901	कैंको ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
184	G29761889	U51311DL2004PTC131629	कैन्वेस्ट बी.एम. टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
185	G19098441	U70200HR2012PTC047752	कैपिटल कॉलेबोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
186	G21187711	U74140HR2011PTC042668	कैप्रिस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
187	G28283232	U80903HR2011PTC042680	कैप्रिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
188	G28166163	U74140DL2011PTC222775	सीबीडी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
189	G23880735	U01400DL2007PTC170857	चंदेल एग्रीटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
190	G27465947	U52390DL2009PTC195425	चैज लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
191	G21537568	U74140HR2012PTC044880	चीज़ मंकी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
192	G27800440	U14200DL2011PTC227006	चेरी रेड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
193	G19957992	U70101DL2004PTC128615	चेतन प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
194	G29197654	U70100DL2009PTC193092	चित्रभुज डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
195	G24829723	U64202DL2004PTC125162	चित्रोत्पला मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
196	G28829448	U15122DL2011PTC221175	छोटे नवाब फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
197	G19548528	U63040DL2004PTC129664	सिटी हॉलिडे टूरस प्राइवेट लिमिटेड
198	G19445493	U70109DL2006PTC153945	क्लासिक इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
199	G19672039	U65992HR1997PTC033768	क्लासिक स्टार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	G08952202	U72200DL2005PTC132202	क्लासिक्स आईटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
201	G23692197	U74900HR2012PTC047975	क्लीन कॉन्सेप्ट्स कंसल्टिंग इंजीनियरिंग & सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
202	G28224475	U74910DL2016PTC291433	क्लीन इंडिया वैल्युएबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
203	G20890190	U52300HR2012PTC045172	क्लीकनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
204	G14155881	U72900DL2009PTC197398	क्लिप वीव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
205	G29088416	U74999DL2014PTC269812	क्लीके डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
206	G15779804	U74899DL2005PTC142266	सीएम फिनवेस्ट कंसल्टेंट्स पीवीटी एलटीडी
207	G23578917	U74140DL2014PTC273595	कोलोग्ने कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
208	G28559250	U74140HR2014PTC052964	कम्पेटिबल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
209	G28809614	U74140HR2013PTC050861	कम्पीटेंट पेट्रोल एंड एचआर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
210	G21336946	U72200DL2005PTC132551	कम्प्यूटेशनल ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
211	G27601806	U72900DL2009PTC195833	कॉन्कोमितांत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
212	C71877310	U72300DL2008PTC173305	कोनामरा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
213	G28373512	U74899DL1995PTC071091	कंसोर्टियम इन्वेस्ट केयर प्राइवेट लिमिटेड
214	G28613883	U33110DL2009PTC197177	कूपर विज्ञान केयर प्राइवेट लिमिटेड
215	G19528538	U64203DL2007PTC191740	कार्नरस्टील सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
216	G27982529	U92412DL2012PTC243997	कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
217	G28969210	U70109DL2006PTC151241	कॉस्मिक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
218	G29003613	U70109DL2006PTC151015	कॉस्मिक टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
219	G23349251	U52300DL2013PTC252682	कॉटेज कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड
220	G19846153	U74999HR2014PTC052010	क्रिएटिंग स्किल्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
221	G20924205	U24239DL2004PTC123837	क्रिएटिव कार्डियो-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
222	G27649532	U63000DL2013PTC252444	क्रिएटिव इम्पैक्ट डेस्टिनेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
223	G20294997	U62200DL2006PTC152124	क्राउन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
224	G19186782	U93000DL2009PTC194314	सीएस टैलेंट डिस्कवरी विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
225	G18331272	U45201DL2008PTC182702	सीएसडी कॉन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
226	G16291437	U74140DL2007PTC169756	क्यूब एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
227	G17794660	U41000DL2012PTC231033	कम्बरलैंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
228	C78734829	U55101DL2013PTC258805	साइट्स कॉर्पोरेट स्टे प्राइवेट लिमिटेड
229	G24790032	U33110DL2010PTC206902	ज़ार लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
230	G24774382	U74140DL2011PTC213880	ज़ार सर्विसेज एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
231	G28401883	U45400DL2011PTC218944	डीडी इंफोकॉन प्राइवेट लिमिटेड
232	G29361979	U74140DL2009PTC187819	डबराल टैक्स लॉ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
233	G14180137	U18109DL2006PTC156528	डैफोडिल हैंडलूमस & हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
234	G29923174	U74899DL1994PTC063901	डालकॉम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
235	G17208695	U31900DL2012PTC233641	डॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
236	G22249361	U72900DL2016PTC290466	डाटाक्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
237	G21529763	U72900DL2010PTC204888	दक्षम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
238	G15418841	U45201DL2005PTC135403	डेजल डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
239	G14220982	U74900DL2015OPC278180	डीडीडी डिजिटल (ओपसी) प्राइवेट लिमिटेड
240	G29611472	U74140DL2010PTC206741	दी क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड
241	G19037738	U52300DL2012PTC240950	दी इसटोइल क्रिएटिव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
242	G30216477	U55101DL2013PTC251717	डिग्री साउथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
243	G26063602	U17115DL1996PTC078839	डेल्टा फिल्टर फाब्स प्राइवेट लिमिटेड
244	G30821441	U64200DL2007PTC167735	डेलटेल कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
245	G17830332	U63000DL2011PTC214182	डेन ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड
246	G28922771	U92412DL2010PTC200858	देसी बीट इको सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
247	G28166213	U74140DL2011PTC219786	डिटेक्ट रडार सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
248	G30561674	U74140DL2011PTC224723	डिवोइर एडविसर्स प्राइवेट लिमिटेड
249	G19885250	U74900DL2009PTC195969	डिवोयूट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
250	G20516647	U45201DL2013PTC254991	देवरहा डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
251	G17698267	U55204DL2008PTC184967	दिल्लों हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
252	G15490154	U70101DL2011PTC212295	दिदास इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
253	G29182391	U70109DL2006PTC151330	दिगम्बर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
254	G29364759	U72200DL1997PTC088103	डिजिटल आपरेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
255	G30194658	U92490DL2013PTC258424	दिगनाइट केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
256	G29395936	U74899DL1990PTC039615	दिशा कमरसिअल्स प्राइवेट लिमिटेड
257	G17235870	U45204DL2012PTC229592	दिव्या डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
258	G28625820	U74120DL2009PTC191565	दिया लोजिस्टिक्स सोल्यूशन्स & सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
259	G30668362	U74900DL2015PTC279830	डीएलएम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
260	G28484400	U74120DL2008PTC176144	डीएम अर्बन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
261	C68739457	U74990DL2013PTC247652	डॉगवुड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
262	G25223298	U85100DL2012PTC229684	डोमस हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
263	G03086881	U74899DL1987PTC045036	दू इंस्ट्रूमेंट्स प्रोसेसर्स पीवीटी . एलटीडी .
264	G20238663	U52300DL2009PTC191979	ड्रीम शाइन हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड
265	G28787547	U74140DL2011PTC213274	डीएसस्ट्रेटिजिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
266	G20724795	U80904DL2013PTC257123	डीएसएम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
267	G17692427	U28998DL2009PTC193579	डीटीके इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
268	G18930412	U51505DL2013PTC253846	डक्टसॉक्स फैब्रिक एयर डिसपर्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
269	G29016193	U72200DL2008PTC182038	डुक्कर वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
270	G19376201	U74993DL1996PTC075553	दूको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
271	G19017144	U74940DL2012PTC246432	दूलिम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
272	G23044332	U74900DL2013PTC256435	डायग्नोसिस इन्फोसॉल्व प्राइवेट लिमिटेड
273	G16346512	U64203DL2007PTC158839	डायनामिक टेलीकॉम & डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
274	G30089403	U93000HR2014PTC051559	डायनामाइट इवेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
275	G30449540	U32102DL2013PTC251657	दाईनर एलेक्ट्रोडच प्राइवेट लिमिटेड
276	G13197355	U93000DL2015PTC275329	इजी ऐजआर एंड सिक्योरिटी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
277	G28137552	U51909DL2007PLC171168	इजी लिंक बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड
278	G02019628	U51909DL2005PTC133705	ऐछ इएनएन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
279	G21520184	U22100DL2010PTC204128	इको प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
280	G21789631	U45400DL2011PTC213149	एकोन बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
281	G22557862	U74140DL2009PTC197395	इकोस्टूडियो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
282	G29626280	U80903HR2013PTC049943	एडुएंगल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
283	G30005003	U74999DL2013PTC257367	एजुकेशन इन्क्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
284	G18897884	U74140HR2014PTC051806	एडुवैचर्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
285	G23130370	U72300DL2005PTC132254	एलीनटेक कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
286	G03128667	U55101DL2008PTC185823	इ-लैंड होटल्स & रिसॉर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
287	G29088762	U74140DL2010PTC208459	एलिमेंट 5 डिजाईन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
288	G15656432	U74996DL2006PTC153272	एलिमेंट्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
289	G21128764	U33110DL2012FTC230915	एलिक्सिर मेडिकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
290	G20481719	U52397DL2012PTC239516	एम्पायर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
291	G18785428	U18109DL2012PTC234686	एमपीरियान एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
292	G18845198	U74999DL2014PTC270365	इनेरको सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
293	G14327548	U74900HR2008PTC037938	एनिग्मा प्लेसबर्ड प्राइवेट लिमिटेड
294	G27615848	U72200DL2010PTC206803	एओली इंफो कॉम प्राइवेट लिमिटेड
295	G21585401	U70100DL2013PTC247061	इओस इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
296	G23849995	U74140DL2002PTC114929	एप्को एक्सहिबिशनस प्राइवेट लिमिटेड
297	G28179521	U72900DL2013PTC254313	एपिक असिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड
298	G21032834	U74140DL2015PTC279885	एपिडमिस मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
299	G20274098	U72900HR2011PTC044430	इआरपी इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
300	G07446859	U45204DL2010PTC210809	एस्केलेट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
301	G29401684	U70200HR2013PTC049793	ईएसएस एम्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
302	G29732310	U85300DL2013PTC258289	इसके मेडी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
303	G18457028	U31500DL2010PTC204453	इटेक लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड
304	G23780901	U74140DL2011PTC218860	एथिकल ऐडवर्टीजर्स प्राइवेट लिमिटेड
305	G11682606	U92113DL2006PTC144961	ईविज़ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
306	G26657908	U63090DL2007PTC166432	इवोल्यूशन हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
307	G20145256	U72200DL2012PTC238570	इवोल्यूशन टेक्सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
308	G30633333	U51900DL2011PTC215717	एक्सक्ल्यूसिवली लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
309	C82382292	U74999DL2015PTC275218	एक्सपर्ट ग्लोबल ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
310	G28762029	U45300DL2008PTC180189	एक्सपर्ट रियल बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
311	G30054068	U72200DL2012ULT245053	एक्सट्रीम आईटेक प्राइवेट लिमिटेड
312	G14556047	U74900HR2014PTC051949	फाल्क केयर प्राइवेट लिमिटेड
313	G29639911	U80904DL2010PTC208654	फामन इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
314	G30589303	U64201DL2014PTC272461	फारव्यू मोबाइल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
315	G21056304	U17200DL1995PLC073893	फैशन टेक्सटाइल्स एंड स्पिनर्स (इंडिया) लिमिटेड
316	G30046288	U92400DL2011PTC217165	फीथर फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
317	G21732623	U45201DL2001PTC113536	फीडबैक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
318	G22745277	U74200HR2011PTC044343	फेवटेक इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
319	G30229736	U70100DL2012PTC233790	फिल्बर्टस डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
320	G19789114	U24100DL2013PTC250340	फिनो केम प्राइवेट लिमिटेड
321	G27842913	U22219DL2012PTC236097	फिओना फ्रेमवर्क प्राइवेट लिमिटेड
322	G19425842	U72900DL2012PTC244174	फायरहॉर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
323	G28120129	U70200DL2005PTC143918	फर्स्ट सिटी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
324	G30456354	U74120HR2009PTC039664	फ्लोरिश टच नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
325	G20895074	U29220DL2011PTC226178	फ्लो टेक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
326	G29586039	U18101DL2005PTC141094	फ्लाइंग फैशन प्राइवेट लिमिटेड
327	G21148416	U28112DL2012PTC243411	फोकस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
328	G19474014	U55101DL2010PTC202847	फोर्सट्रीज रिसॉर्ट्स & होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
329	G09825209	U51909DL2012PTC239353	फोर्टनॉक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
330	G20313110	U70109DL2012PTC244738	फॉर्च्युनेट रियल्टर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
331	G20627394	U52590DL2011PTC228734	फाउंडर लायन प्राइवेट लिमिटेड
332	G12539672	U51311DL2003PTC118644	फाउंटेन ब्लू एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
333	G28473924	U65100DL2013PTC249853	फोर कॉर्नर्स फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
334	G20147229	U92490DL2010PTC209123	फ्रीको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
335	G29716446	U93000DL2011PTC229104	फ्रेंड्स क्रिकेट अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
336	G29678356	U64100DL2012PTC235740	फ्रोजन यूनिटी कॉल सेंटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
337	G05361340	U34102DL2011PTC216787	फ्यूजन ऑटो मेक इंजिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
338	G27959014	U29253DL2012PTC236803	फ्यूजन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
339	G22489157	U72900HR2010PTC040793	जी & जी वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड
340	G19649516	U25202DL2005PTC138748	जी के फैब्स एंड पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
341	C80766694	U50101DL2004PTC126534	जी एम वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
342	G29838661	U45200DL2010PTC208348	जी.एस.टी. इंफ्राडेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
343	G23113111	U31200DL2008PTC178491	जी.एस.एम. पावर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
344	G28369585	U28999DL2015PTC283802	गाब्रोस पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
345	G27768365	U74140HR2014PTC053127	गैलक्सी बाथ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
346	G25009135	U72200HR2008PTC037564	गैलेक्सी कंप्यूटरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
347	G18101535	U19201DL2000PTC105994	गाँधी रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
348	G18946426	U70200DL2010PTC201423	गंगा परोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
349	C79630844	U74999DL2014PTC265586	गंगेसङ्-एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड
350	G21303219	U80904DL2010PTC199963	गणपति एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
351	G20840674	U65100DL2011PTC214299	गेटवे क्रेडिट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
352	G23253057	U45400DL2014PTC273601	गटकल तनेजा डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
353	G28726594	U74899DL1988PTC034401	गौतम क्रिएशंस प्राइवेट एल टी डी
354	G20368205	U74899DL1982PTC013552	गे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
355	G20259057	U72900DL2010PTC202003	जीडीएल डाटा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
356	G17947201	U18101DL2005PTC137267	जी डिजाईन प्राइवेट लिमिटेड
357	G30481592	U15203DL2006PTC148188	गीलो डेरी एंड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
358	G21940309	U74999DL2012PTC230539	जेन बायो -आईटी सर्व टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
359	G20045340	U52390DL2012PTC240903	गेतारती अपपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
360	G22182398	U31909DL2008PTC181209	गाज़ियाबाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
361	G19983196	U74140DL2013PTC257884	गिब्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
362	G29738077	U34300DL2004PTC127960	जीकेएम ऑटोमोशनस प्राइवेट लिमिटेड
363	G19953835	U72900DL2000PTC103948	जीकेएम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
364	G21339882	U72300DL2016PTC289698	ग्लिण्ड वेब प्राइवेट लिमिटेड
365	G18990473	U70109DL2013PTC256774	ग्लोबल इंफ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड
366	G21388855	U85100DL2013PTC249271	ग्लोबल टेक्नोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
367	G19481274	U74140HR2013PTC049826	ग्लोबल व्यू कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
368	G30728620	U80301DL2012PTC242235	ग्लोबस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
369	G20447660	U74900DL2013PTC251868	जीएनबी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
370	G13305958	U45400DL2008PTC172922	गो ग्रीन डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
371	G22598072	U74210DL1996PTC079842	गोइंडि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
372	G22346316	U55101DL2006PTC153513	गोल्ड रिसॉर्ट्स & होटल (चंडीगढ़) प्राइवेट लिमिटेड.
373	G22392633	U55101DL2006PTC151768	गोल्ड रिसॉर्ट्स एंड होटल (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड
374	G22404123	U55101DL2006PTC151993	गोल्ड रिसॉर्ट्स एंड होटल (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड
375	G29968575	U55209DL2010PTC211711	गोल्डन चेरियट डेली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
376	G28367100	U28910DL2003PTC122504	गोल्डसन कम्युनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
377	G24186009	U74991DL2013PTC258360	गोमुसाफ़िर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
378	G20975603	U55101DL1999PTC098143	गुड टाइम्स होटल प्राइवेट लिमिटेड
379	G07419757	U74999DL2012PTC230498	गोरक्षनाथ एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
380	G31045875	U17120HR2014PTC052557	गौरी होमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
381	G24209942	U51909DL2005PLC133924	ग्रान मिनरल्स लिमिटेड
382	G30347793	U92142HR2013PTC049669	ग्रीन अर्थ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
383	G19764174	U40200HR2009PTC039222	ग्रीन इंडस बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
384	G29866738	U40106DL2012PLC239174	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी क्रिएशन लिमिटेड
385	G30218416	U40300DL2012PLC236035	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड
386	G30218465	U40300DL2012PLC239183	ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड
387	G30598221	U40108DL2011PLC221863	ग्रीन इंफ्रा विंड पावर डेवलपमेंट लिमिटेड
388	G30219018	U40101DL2012PLC236205	ग्रीन इंफ्रा विंड पावर सोल्यूशन्स लिमिटेड
389	G30497275	U40109DL2010PLC211808	ग्रीन इंफ्रा विंड पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड
390	G30219711	U40106DL2011PLC222911	ग्रीन इंफ्रा विंड पावर वैंचर्स लिमिटेड
391	G29396637	U51909DL2011PTC213407	जीआरजी मेरकेनटिल्स प्राइवेट लिमिटेड
392	G20411161	U70101DL2012PTC244533	ग्राउंड जीरो डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
393	G29818556	U51909DL2007PTC159816	ग्रो स्टार इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
394	G30680953	U24100DL2015PTC277225	ग्रोवेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
395	G21007810	U93030DL2009PTC195163	गार्डियन इन्वेस्टमेंट सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
396	G30004022	U74899DL1994PTC058748	गुलाटी कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
397	G16729337	U51909DL2004PTC128850	गुरदेव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
398	G28770923	U74140HR2013PTC050593	गुरु इन्नोवेशन्स एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
399	G20833703	U72900DL2008PTC175656	जी-जोन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
400	G23680978	U72200DL1998PTC093260	एचएस सिस्टम्स एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
401	G19395029	U63090HR2010PTC040555	हार्दिक लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
402	G17360009	U74900DL2009PTC188866	हरित एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
403	G18921270	U40102DL2007PTC169472	हरित एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
404	G19624998	U29253HR2010PTC040446	हेरोल्ड क्रैन्स प्राइवेट लिमिटेड
405	G22983985	U10200HR2015SGC054417	हरूप कोल् कारपोरेशन लिमिटेड
406	G21871090	U74900DL2011PTC223886	एचबीएससी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
407	G16886939	U51399DL2013PTC258503	हीना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
408	G18108274	U25202DL2005PTC132858	हेम पैकेजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
409	G17555830	U24239DL1999PTC099193	हर्बल नेचुरल क्योर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
410	G16690604	U24233DL1993PLC056171	हेर्बोमिन हिमालयाज लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
411	G30653737	U02000DL2012PTC239597	हिमाद्रि बायो प्लांटिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
412	G23948342	U74900HR2013PTC050070	हिरिच इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
413	G19732452	U24100DL2009PTC188192	हिस्ता हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
414	G19392216	U21014DL2006PTC153883	हाई -टेक थ्रिंक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
415	G29016888	U51310DL2008PTC179954	एचएनडी फैशन एक्सट्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड
416	G29017118	U74120DL2008PTC184534	एचएनडी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
417	G29016458	U72900DL2008PTC181891	एचएनडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
418	G20568390	U51900DL2014PTC265865	एचएनपी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
419	G19065044	U22300DL2007PTC163491	एचपीएच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
420	G19619824	U70109DL2013PTC250426	एचएसजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
421	G28445286	U74900DL2011PTC223551	हयोसुंग इंडिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
422	G10085777	U52100DL2014PTC266553	हैट्रेड ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
423	G28871135	U74899DL1989PTC037540	आईएसवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
424	G20482295	U74140DL2005PTC142436	आईब्रिज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
425	G21811997	U72200HR2014PTC053390	आईकैच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
426	G19211259	U72200DL2010PTC209561	आइडियाज टेक्नो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
427	C81606394	U26933DL2007PTC171548	आईडीजी बाथ फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
428	G23173271	U72900DL2013PTC255023	आईलोकस टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
429	G17735754	U11200DL2008PLC177837	इमैक्युलेट आयल ब्लॉक्स लिमिटेड
430	G22907653	U51909DL1996PTC082465	इमपेटस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
431	G18169094	U72900DL2012PTC237624	इमपेटस वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
432	G21152483	U15400DL2011PTC224763	इंकलूसिव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
433	G19929009	U74999DL2013PTC253248	इनक्रेडिबल ड्राई फ्रूट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
434	G31272024	U92490DL2010PTC209875	इनक्रेडिबल पेनिस प्राइवेट लिमिटेड
435	G21920996	U51909DL2012PTC238467	इंडिया लाइटटेक प्राइवेट लिमिटेड
436	G17291899	U74120DL2000PTC225726	इंडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
437	G28650257	U23201DL2011PTC216118	इंडियन डोमेस्टिक फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
438	G27819226	U55101DL2013PTC257388	इंडियन पिज़्जेरिया प्राइवेट लिमिटेड
439	G14201172	U24239DL1999PTC101199	इंडकस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
440	G28533826	U70200HR2010PTC040794	इंडो होम्स प्राइवेट लिमिटेड
441	G27595933	U60200DL2013PTC254288	इंडोकोर्गो लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
442	G29514593	U74140DL2013PTC249744	इंडस डू-क्लीन प्राइवेट लिमिटेड
443	G26966481	U63013DL2005PTC134569	इनफॉरस लोजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
444	G25093915	U18101DL2010PTC204905	इनफिनिट लकज़री डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
445	G30393540	U85100DL2012PTC236181	इनर सोल्यूशन्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
446	G29993730	U74900DL2013PTC254295	इन्स ग्लोबल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
447	G29180288	U51909DL2012PTC231155	आइनॉक्स टेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
448	G19445428	U72200DL2010PTC203199	इन्फ्लोक्स आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
449	G21577101	U74140DL2011PTC220893	इंसकेप डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
450	G11002540	U52100DL2012PTC237698	इनस्पीरिट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
451	G29126711	U80900DL2010PTC209831	इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरेन & टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
452	G30197883	U74900DL2011PTC227749	इनस्टाइल यूनिफार्म सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
453	G16725533	U74140DL2014PTC264977	इंटेल्ली बिज़ इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
454	G28771731	U80901DL2015PTC281712	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ वैलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
455	G17756958	U70200DL2011PTC222663	इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंप्ला वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
456	G26815936	U72909DL2016PTC303782	इनवेटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
457	G29831054	U74140DL2011PTC219877	इश्वरया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
458	G18118034	U51102DL2012PTC243257	इस्पात ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड
459	G18196949	U72900DL2000PTC105264	आई स्क्वायर पोर्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
460	G29983533	U74999DL2013FTC248114	आईटी लगेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
461	G30316921	U15100DL2016FTC304072	इटलीवायाइंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
462	G22429807	U74140DL2011PTC219689	आईटीएन नेटवर्क १२ प्राइवेट लिमिटेड
463	G30333389	U74999DL2014PTC274208	आइजेंसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
464	G18889980	U45400DL2013PTC249590	जे के प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
465	G29773736	U45200DL2013PTC248018	जे.के आर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
466	G21264767	U74899DL1992PTC049533	जेसिस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
467	G18903724	U74999DL2009PTC190824	जय गुरु इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
468	G17210618	U70100DL2011PTC221162	जेनएक्स प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
469	G29534658	U40300DL2013PTC258616	जैसर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
470	G29608957	U92100DL2014PTC263692	जैसर इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
471	G29535986	U45400DL2013PTC258437	जैसर इंप्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
472	G29536315	U72300DL2013PTC258619	जैसर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
473	G20836565	U74140DL2013PTC257205	जन धरा कमोडिटीज & इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
474	G28909760	U01111DL2010PTC206212	जन्नत एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
475	G24703050	U40101DL2005PTC139910	जावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
476	G30211460	U00000DL1988PTC030535	जयमान इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
477	G23436173	U92419DL2013PTC254199	जैज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
478	G26752063	U74940DL2013PTC261541	जेडीके सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
479	G22652515	U85110DL2011PTC213151	जीवन क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
480	G29676210	U74899DL1989PTC038693	जेप्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
481	G21536305	U29253DL2013PTC260120	झलानी हैण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
482	G28371482	U63090HR2007PTC037344	जिया ट्रेवलसोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
483	G23202674	U32202DL2013PTC250655	जेकेएम अकाउंटिस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
484	G22592604	U15494DL2011PLC220442	जेकेएम बेवरेजेज लिमिटेड
485	G16935710	U23109DL2009PTC190889	जेकेएम पेट्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
486	G30758965	U51909DL2004PTC125493	जेएमजे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
487	G17145590	U26940DL2011PTC212335	जेएमआरसी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
488	G22121891	U80301DL2013PTC258514	जॉब्सफन एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
489	G23449580	U74999DL2013PTC252703	जेपैक्स आईटी एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
490	G28882587	U70102DL2014PTC270867	जेएसआरआर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
491	G20851317	U70100DL2013PTC252766	जुगगरनौट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
492	G21793419	U52590HR2012PLC047005	जुक रिटेल लिमिटेड
493	G28028546	U52390HR2012PTC044907	जुक सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
494	G29506011	U63090DL2010PTC206427	जंबो कार्गो मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
495	G28364982	U74120DL2007PTC167365	जम्पवाइर इंसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
496	G20372348	U29306DL2012PTC229779	ज्योति इलेक्ट्रो कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
497	G21742424	U85100DL2012PTC242432	के सी हेल्थ सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
498	G12483343	U45204HR2010PTC041732	के जी इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
499	G15522394	U74899DL1991PTC046764	के आर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
500	C74677998	U65921DL2003PTC119010	के एस गगनप्रीत ऑटो फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
501	G29280070	U70109HR2007PTC036697	के.एम. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
502	G22097596	U52590DL2013PTC254805	कई बिज़ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
503	G28659068	U80301DL2010PTC206887	काइजेन लैंग्वेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
504	G28452373	U80301DL2012PTC238680	काइजेन लर्निंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
505	G29049582	U74999DL2001PTC110166	काइजर स्पैटियल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
506	G24856916	U29253DL2012PTC241163	कालरा आयरन प्राइवेट लिमिटेड
507	G20895165	U72900DL2011PTC223093	कंसो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
508	G28180289	U74300DL2008PTC185023	कर्त्तव्य एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
509	G29067220	U01400DL2014PTC264039	कश्यप एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड
510	G23611502	U74899DL1985PTC021447	कवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
511	G21396551	U85100DL2013PTC248494	काया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
512	G11509254	U70102DL2013PTC259791	काजू बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
513	G30132831	U24200DL2011PTC215463	कैंट ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
514	G17192790	U74899DL1995PLC070152	खैतान फिनवेस्ट लिमिटेड
515	G10231793	U45402DL1996PTC080737	खन्ना इंटीरियर डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
516	G22372569	U19200DL2007PTC168328	कृष्णा फुटवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
517	G03586203	U52390DL2012PTC243594	केएसएफ प्रोटेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
518	G30395792	U93000DL2011PTC228536	केएसआरवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
519	G16608564	U93000HR2014PTC053620	कुक टायक्वॉडो डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
520	G31123235	U25111HR1988PTC030361	कुमार व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
521	G21599196	U74899DL1993PTC051571	कुमिरा फाइनेंस एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
522	G30333512	U74999DL2010PTC208248	खुशद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
523	G28804870	U15122DL2008PTC185437	क्वालिटी आइस क्रीम्स & प्रोसेस्ड फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
524	G16191876	U27101HR2010PTC040327	लाज संस मेटल्स & इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
525	G31037732	U74899DL2004PTC129986	लालसंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
526	G15490709	U45200DL2007PTC159400	लैंडक्राफ्ट एस्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
527	G15712805	U70102DL2007PTC160759	लैंडक्राफ्ट प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
528	G15715568	U55101DL2007PTC161918	लैंडक्राफ्ट रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
529	G23649262	U55101DL2016PTC290433	ले गॉरमेट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
530	G23696859	U50100DL2009PTC194720	लीड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
531	G30263677	U74140DL2014PTC270444	लेमन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
532	G02122901	U93000HR2009PTC039507	लेटईटगो कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
533	G30225080	U93000DL2009PTC194580	लेक्सआया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
534	G20442489	U99999HR2000PLC034590	लिबर्टी गारमेट्स लिमिटेड
535	G19801497	U85100DL2010PTC206015	लाइफलाइन स्क्रीनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
536	G19217561	U74300DL2009PTC196185	लाइट हाउस क्रिएटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
537	G23739766	U93000DL2011PTC227015	लिंक्स सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
538	G29600251	U90000DL2010PTC201690	लायन केएमके फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
539	G29270402	U51909DL2011PTC213932	लिक्विड सं चेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
540	G27943828	U72900DL2012PTC244234	लाइवडॉट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
541	G29905791	U18101DL2002PTC114115	एलएनसी अपपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
542	G30431563	U72300DL2009PTC191426	लोगिमिन्डज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
543	G30040661	U67120DL2010PTC207947	लोमासा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
544	G18882688	U70101DL2012PTC243297	लोरश बिल्डर्स & डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
545	G16443715	U70109DL2011PTC226869	लकी लैंडकॉन प्राइवेट लिमिटेड
546	G19257930	U72900DL2012PTC233977	लुमिनरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
547	G10218543	U45400HR2011PTC042413	लुकज़ूरिअम टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
548	G19051721	U74140DL2010PTC204602	एम स्क्वायर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
549	G21761689	U72900DL2009PTC196438	माक्रोसेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
550	G29396132	U74899DL1989PTC035040	मडाड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
551	G19160001	U24232DL2011PTC224095	मधु हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
552	G28903037	U70100DL2012PTC231689	माहा माया बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
553	G29016235	U74900HR2013PTC048209	महाकल्प पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
554	G15869779	U80200HR2011PTC043066	महेन्द्रगढ़ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
555	G23177710	U74899DL1991PTC045506	महेश जिंदल सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
556	G15808595	U74999DL2012PTC246620	माझी इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
557	G21578299	U72200DL2009PTC188069	मकलाइट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
558	G29128261	U67120HR1996PTC035555	मंगला जयंती इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
559	G30166128	U22190DL2000PTC107838	मंत्रा वर्चुअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
560	G30252381	U72900DL2016PTC292349	मैपएक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
561	G18927293	U70100DL2012PTC245251	मारुती बिल्होम्ज प्राइवेट लिमिटेड
562	G28910404	U74900DL2014PTC268342	मारवेलॉस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
563	G14904890	U45200DL2006PTC156184	मास्टेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
564	G18322099	U72300DL2008PTC178580	मास्टरमाइंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
565	G21618517	U80903DL2009PTC195653	मैट्रिक्स इड्यूट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
566	G18390872	U51504DL2013PTC257265	मैक्स जनरेटर प्राइवेट लिमिटेड
567	C62497748	U22219DL2009PTC195007	मैक्सपोजर कॉर्पोरेट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
568	G27775683	U70102DL2012PTC246172	मैक्ससेड रियल्टार प्राइवेट लिमिटेड
569	G28906352	U70109DL2012PTC231843	माया कशी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
570	G14186910	U51909DL2012PTC236501	मजशा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
571	G19131713	U33110DL2012PTC238559	एमडीडी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
572	G29882164	U74999HR2015PTC057450	मीडिया स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड
573	G20841789	U74900DL2012PTC239343	मेडिसपाएर टेक प्राइवेट लिमिटेड
574	G21115381	U24232HR2011PTC042510	मेडलाइन सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
575	G31137094	U45201DL2006PTC147091	मीट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
576	G22933576	U72100DL2002PTC116780	मेगा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
577	G21907902	U74999DL2015PTC280182	मेगा वैल्यू कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
578	G21050364	U74899DL2000PTC103124	मेहक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड.
579	G19237742	U74900DL2014PTC263148	मेई जिनीरस प्राइवेट लिमिटेड
580	G08896169	U45201DL2005PTC135600	मिलेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
581	G16677700	U45201DL2005PLC134200	मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरएस लिमिटेड
582	G20075404	U93000DL2010PTC209126	मेरिट क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
583	G19444777	U29253DL2012PTC243691	मेस्ट्रो सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
584	G20375762	U33119DL2004PTC127822	मेटा डोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
585	G20345625	U63000DL2012PTC237771	मेटेओर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
586	G30328520	U74999DL2013PTC248988	मिडास ग्लोबल मेड केयर प्राइवेट लिमिटेड
587	G28406825	U74999DL2014PTC272795	मिदोरी हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
588	G19072271	U74140DL2002PTC116744	मिडरीब कॉन्सुलटॉग प्राइवेट लिमिटेड
589	G21187455	U74200DL2010PTC201034	मिकाडो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
590	G28786192	U63013DL2000PTC105574	मिलेनियम इंटरसीस एंड अलाइड प्राइवेट लिमिटेड.
591	G18837500	U72900DL2010PTC200220	माइंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
592	G16142580	U67190DL2011PTC220311	मनी मैक्स वेल्थ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड
593	G13388640	U74899DL1994PLC061112	मोनिका श्रिम्प फार्म्स लिमिटेड
594	G24187122	U63000DL2012PTC235310	मौनवि कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
595	G30263370	U17291HR2008PTC037936	मून टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
596	G17434507	U24100HR2011PTC043571	मूनशाइन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
597	G20502589	U17200DL2013PTC252588	मोरध्वज इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
598	G19879162	U74140DL2013FLC251271	मोरवेस्ट इंडिया लिमिटेड
599	G23625148	U74899DL1993PLC054935	मोज़र बेयर सॉफ्टवेर लिमिटेड
600	G27897321	U85100DL2012PTC242674	मोल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
601	G19476951	U45400DL2007PTC163326	एमआरटीआर प्रो रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
602	G27877711	U22211HR2009PTC041258	एमटी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
603	G08896706	U70101DL2005PTC136819	मुक्ता बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
604	G23695679	U51101DL1996PTC078835	मुकविन ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
605	G22250898	U22211HR2010PTC040300	मुरलीवाला प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड
606	G18942086	U74140DL2011PTC220534	मुसेसिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
607	G22352322	U24244DL2006PTC144912	मुस्कान परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड
608	G19174978	U74899DL1990PTC039806	मुस्कान इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
609	G29709946	U74999DL2014PTC265489	माय हेल्थी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
610	G30151906	U72900DL2015PTC288197	माय ऑनलाइन मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
611	G23736242	U70200DL2012PTC234475	माय 1 एसटी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
612	G25248626	U80902DL2009PTC190211	एन & जेड इडीयू सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
613	G19921006	U25200DL2011PTC222973	एन.के.एस. पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
614	G19018126	U72900DL2009PTC195195	एन 3 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
615	G25516543	U74120DL2008PTC175147	नागपाल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
616	G21281233	U45204DL2009PTC193064	नालंदा सुपेस्ट्रुक्चर प्राइवेट लिमिटेड
617	G25321944	U70109DL2007PTC160758	नमन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
618	G22463715	U45400DL2007PTC163944	नंदा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
619	G21259718	U15549DL1998PTC094319	नंदादेवी फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
620	G29484326	U22100DL2009PTC193259	नार्वी ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
621	G18407932	U70100DL2012PTC245303	नरवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
622	G21997978	U45309DL2006PTC156221	नौनीध एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
623	G17275017	U23209DL2010PTC205296	नव्यांतरा एनर्जी रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड
624	G20550273	U45204DL2013PTC260244	नयीबुनियाद डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड
625	G19085976	U45201DL2006PTC147627	एनबीएल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
626	G23745136	U45400DL2013PTC259408	एनसीआर हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
627	G28890309	U22220DL2007PTC169343	एनडी मॉडल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
628	G23668130	U74899DL1994PTC060131	एनडीएच इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
629	G17157124	U52390DL2011PTC225713	नेटबेस इन्फोवेस प्राइवेट लिमिटेड
630	G11017373	U73100DL2007PTC169136	नेटसेल्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
631	G19172147	U51909DL2012PTC233181	नेवेरा इ मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
632	G28449601	U72300DL2010PTC198535	निशे आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
633	G03607884	U45200DL2006PTC157183	निकमर्श इलीट रेजिडेंशियल प्राइवेट लिमिटेड
634	G27962505	U51909DL2010PTC210896	निहाल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
635	G20768883	U55101DL2008PTC181638	निपरीत हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
636	G07487366	U74899DL1990PTC040986	निर्भय चिट प्राइवेट लिमिटेड
637	G29683224	U17200DL2011PTC228243	नित्या बजाज डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
638	G28228278	U93000DL2009PTC194532	निवास इंफो टेक प्राइवेट लिमिटेड
639	G12454351	U45200HR2013PTC048565	एनएनएन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
640	G22877229	U22110DL1997PTC088602	नॉएडा बाजार पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
641	G19159755	U51909DL1996PTC081131	नॉवेल मार्केटिंग & कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
642	G13866975	U64203DL2009PTC194537	नोवा टेलीप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
643	G20182382	U74999DL2015OPC287642	नोवेल्टी इंफो सिस्टम्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
644	G24179392	U67120DL2008PTC176134	एनआरजीएल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
645	G29659596	U74991DL2006PTC148366	न्यू-टेक लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड.
646	G20756565	U15412DL2011PTC229146	नुट्रीट्रीट फूड स्पेशल्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड
647	G17941436	U51420DL2008PTC175782	एनवीआर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
648	G28258044	U72900DL2011PTC215229	नेक्सटिट टेक्नो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
649	G14528780	U51909DL2006PTC147851	न्यसा एक्नॉलॉगीज पीवीटी एलटीडी
650	G28287498	U51909HR2011PTC043246	ओबेय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
651	G29715281	U70102DL2006PTC153915	ओसियन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
652	G30262240	U40103DL2016FTC292521	ओसीआई सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
653	G14315006	U72900HR2013PTC049794	ओएडीपस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
654	G22002281	U52590DL2013PTC260947	ऑफरबाबा रिटेलस प्राइवेट लिमिटेड
655	G20355350	U74140DL2012PTC232675	ऑफिस केयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
656	G30042485	U67120DL2010PTC208206	ओजस्वा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
657	G28036358	U35990DL2016PTC292125	ओके प्ले इ व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
658	G27961911	U45201DL2005PTC133011	ॐ ओक्सि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
659	G29967619	U63000DL2015PTC286112	ओमकारा कूरियर एंड कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
660	G24192254	U51109DL1999PTC099922	ओएनएस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
661	G18192880	U93000DL2010PTC205717	ऊड्ल्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
662	G14160980	U74900DL2012PTC246797	ओरा यूनिवर्सल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
663	G27842806	U22100DL2012PTC241054	ऑरेंज सिने नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड
664	G18476150	U55109DL2004PTC127234	ऑरेंज इनफार्मेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
665	G28456267	U51909DL2009PTC189894	ओरायन ओरे प्राइवेट लिमिटेड
666	G30589477	U51397DL2012PTC233746	ओरसस ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
667	G20025318	U33112DL2010PTC210222	ऑर्थोप्लान्ट मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
668	G27915826	U51909DL1986PTC023192	ओस्लो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
669	G04457842	U74899DL1993PTC055628	ओएसपी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
670	G20266318	U72200HR2015OPC055042	ओड रिसर्च टेकनेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
671	G29104213	U55101DL2009PTC194004	पी एंड इ होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
672	G16785305	U29199DL2006PTC144903	पी.डी.ए. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
673	G25320805	U72100DL2014PTC268834	पी३पी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
674	G13853296	U51909DL2004PLC131023	पम्सकी ओवरसीज ट्रेड लिमिटेड
675	G20558136	U74140DL2013PTC250512	पनिका फाइन आर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
676	G05995865	U51505DL1992PTC048988	पैराडाइस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
677	G16627309	U70200DL2012PTC233274	पार्व इन्फ्रासोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
678	G16763575	U51909DL2013PTC256961	पैट्रॉल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
679	G18907584	U74899DL1981PTC011921	पवन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
680	G19941152	U55101DL2011PTC217622	पीसी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
681	G30330286	U72900DL2013PTC250045	पीसी रीसोल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
682	G11038239	U45400DL2008PTC172170	पीसीजी एस्टेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
683	G16598898	U45200DL2010PTC205331	पीडू इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
684	G15761646	U15400DL2011PTC214511	पीकॉक फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
685	G17361635	U51909DL2013PTC254050	परफेक्ट होम लोन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
686	G18959841	U74899DL1988PTC032695	परफेक्ट लैटेक्स पीवीटी एलटीडी
687	G19656230	U80301DL2013PTC252407	परफेक्ट माय इंग्लिश ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
688	G16740540	U22100DL2011PTC216211	परफेक्ट प्रमोशन प्रिंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
689	G29691979	U92111DL1998PTC097458	पर्सपेक्टिव फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
690	G11075793	U24232DL2005PTC133778	पेटल लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
691	G29206687	U74999DL2013PTC252126	पिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
692	G21498738	U55101DL2012PTC233089	पिकाडिली होटल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
693	G30273866	U72900HR2015PTC057416	पीकाडेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
694	G20248712	U24129DL2012PTC236540	पिनाकल एगो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
695	G28102341	U74140DL2011PTC213771	पिनाकल एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
696	G28776136	U74999DL2012PTC241671	पीओलीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
697	G22252712	U51909DL2011PTC219434	पायनियर ग्लोबल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
698	G14137582	U92490DL2013PTC258958	पायनियर मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
699	G10217388	U70101HR2013PTC049953	पायनियर अर्बन टेक होम स्टेड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
700	G10217909	U70101HR2013PTC049971	पायनियर अर्बन टेक हाउसिंग डेवलपमेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
701	G22268494	U18109DL2014PTC264575	पिओसपिक फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
702	G29484763	U22110DL2009PTC193292	पीताम्बरा पेपर & बोर्ड कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
703	G23985039	U63000HR2013PTC056826	प्लेनेटरी वेव ट्रेवल & लिसर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
704	G19684281	U72900DL2012PTC230222	प्लेनेटवे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
705	G21225552	U74920DL2012PTC243790	प्लस९१ सिक्योरिटी सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
706	G23948789	U74140HR2013PTC048841	प्लूटस रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड
707	G19608678	U50500DL2011PTC228209	पूजासी ऍनजी मास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
708	G20541207	U74140DL2013PTC256655	पूजा फॉरगिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
709	G31506579	U51909DL2004PTC128701	पॉपुलर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
710	G29311313	U51101DL2009PTC196672	पावर एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
711	G24587321	U51101DL2005PTC143508	पीपीआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
712	G30527964	U74899DL2005PTC143702	परागों सेक्युरिटी एसपीवीटी . एलटीडी .
713	G21196605	U67120DL2010PTC198370	प्रम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
714	G28624310	U72200DL2012PTC231425	प्रीमिनेन्ट स्मार्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
715	G29318508	U15132DL2010PTC205617	प्रीती मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
716	G21849104	U67120DL2011PTC227107	प्रेमदया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
717	G19963032	U31401DL2013PTC247357	प्राइडमेप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
718	G28528420	U74899DL1994PTC061134	प्राइमा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
719	G30855779	U70100DL2012PTC235245	प्रिंसको स्ट्रक्चरएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
720	G17157306	U74900DL2013PTC258453	प्रिंटकलूज प्राइवेट लिमिटेड
721	G23032261	U70100DL2012PTC245867	प्रिस्टिना प्रोस्पेरेटी इंफ्रास्ट्रक्चरएस प्राइवेट लिमिटेड
722	G19777028	U22100DL2011PTC217451	प्रिस्टिन काउंसिलर्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
723	G19753235	U51909DL2011PTC217426	प्रिस्टिन काउंसिलर्स ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
724	G19765817	U40109DL2011PTC217429	प्रिस्टिन काउंसिलर्स ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
725	G19501014	U72200DL2009PTC191647	प्रो इंफो टेक प्राइवेट लिमिटेड
726	G21740154	U45201DL2012PTC237768	प्रोग्रेसिव इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
727	G29467487	U70102DL2013PTC254175	प्रॉपर्टी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
728	G27786854	U40108DL2012PTC234159	प्रोक्सिमेट एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
729	G28604312	U74999DL2012PTC246012	पीआरएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
730	G30172571	U93000DL2013PTC260839	प्यूपिल्स केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
731	G16735748	U74999DL2009PTC193128	पर्वेसिंग मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
732	G28990091	U01407DL2013PTC248469	प्योर गुआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
733	G19015536	U33111DL1998PTC094207	पुष्पांजलि इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
734	G22521660	U74140DL2008PTC185290	पीडब्ल्यूआर कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
735	G18133967	U72200HR2013PTC048594	पिरामिड टेकनेट प्राइवेट लिमिटेड
736	G20701157	U74899DL1994PTC061275	आर सी एंड संस प्राइवेट लिमिटेड
737	G14147490	U15139DL2010PTC209756	आर आर एस एगो प्राइवेट लिमिटेड
738	G20149969	U45200DL2007PTC159373	आर एस ऐ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
739	G22096697	U74140DL2013PTC259486	आर एस ह्यूमन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
740	C76492883	U74992HR2006PTC036417	आर. सी. एन. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
741	G23712987	U52100DL2013PTC255925	रेकुन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
742	G19705680	U74140DL2013PTC251830	रेडियंट एसेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
743	G15696461	U51505DL2014PTC273529	रेडी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
744	G29255981	U74140DL2008PTC185403	राहत रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
745	G24822991	U45400DL2008PTC184893	रेनफॉरेस्ट डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
746	G19488295	U45400DL2007PTC164596	राज गर्ग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
747	G18933242	U55101DL2010PTC207170	राजस्थान हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
748	G30701148	U85100DL2008PTC179314	राजदरबार विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड
749	G22216642	U18101DL2004PTC131710	राजीव गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
750	G19787761	U51909DL2013PTC257158	राक एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
751	G28927978	U74999DL2012PTC245792	रामानंद कृष्ण देव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
752	G20005427	U72300DL2006PTC146005	रमणी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
753	G20001525	U92199DL2006PTC147267	रमणी विशन्स प्राइवेट लिमिटेड
754	G29257185	U65993DL1995PTC073293	रमित इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
755	G18172460	U67190DL2011PTC223891	रामेश्वरम चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
756	G21934765	U45300DL2012PTC236067	रामेश्वरम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
757	G29939964	U55101DL2015PTC277542	रेंज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
758	G29842671	U74999HR2011PTC042683	रास रिसोर्सिज एक्सेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
759	G22275069	U72200DL2010PTC201697	आरडी सॉफ्टवेर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
760	G23389182	U63040DL2010PTC210426	रीगल एक्सपेडीशनस प्राइवेट लिमिटेड
761	G28755700	U36911DL2010PTC204962	रीगलब्रिलियंस ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
762	G18913657	U50400HR2012PTC045981	रिइंकार्नेशन ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
763	G30361604	U72200DL2013PTC255601	रिकमेंड मोबिलिटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
764	G29110905	U32109HR2008PTC037566	रिलाएबल एप्लायंसेज मैटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड
765	G29406063	U40101DL2013PTC256090	रेनॉवबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
766	G29693918	U73100DL2012PTC244015	रेसलयसिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
767	G19860352	U72900DL2011PTC215950	रेसिलिएंस सोलुशनज प्राइवेट लिमिटेड
768	G15263668	U52335DL1998PTC096099	रेस्प ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
769	G25324468	U74140DL2013PTC251814	रेया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
770	G19442839	U74999DL2013PTC261288	रेनॉल्ड्स एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
771	G28616332	U63040DL2010PTC197936	रीचे रिच हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
772	G30489306	U45400DL2007PTC163905	रिधि रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड
773	G18933812	U52300DL2011PTC214839	राईट इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
774	G27698265	U74140DL2012PTC238967	राईट कनेक्शन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
775	G23670037	U72200DL2010PTC206340	रिजील कैंट सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
776	G29028321	U36930DL2011PTC229511	रिसाला पोलो प्राइवेट लिमिटेड
777	G20665840	U70102DL2008PTC184911	ऋतवसन्त एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
778	G24839938	U13209DL2013PTC250707	रिवर्सडेल माइंस प्राइवेट लिमिटेड
779	G23554496	U45202DL2006PTC155974	आरएमएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
780	G19185354	U60231DL2010PTC200163	आरएनएल लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
781	G13369434	U22100HR2013PTC051325	रॉबिन्सन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
782	G21335435	U93000DL2013PTC248559	रॉक सिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
783	G29438306	U72300DL2007PTC163844	रॉक डेन्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
784	G28864528	U74999DL1998PTC097246	रोशिका इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
785	G29858354	U72900DL2008PTC185984	रोवहि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
786	G28747624	U74900DL2013PTC247913	आरआरआर बिज़नेस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
787	G22790646	U51101DL2014PTC270044	आरएससी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
788	G19817543	U45400DL2012PTC246383	आरएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
789	G29782539	U74140DL2015PTC275501	आरएसटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
790	G28228062	U24232DL2010PTC198942	आरटीजी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
791	G23132194	U74140DL2012PTC246094	रूबीकॉन मुकेश आर्ट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
792	G20887758	U15419DL2013PTC254414	रून्ज कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
793	G21620760	U70102HR2013PTC048961	एस & जी इंफ्राडेवेलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
794	G29445665	U70100HR2010PTC040901	एस. एस. एनवीरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
795	G31098031	U70200HR2011PTC044671	एस.आर. रियल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
796	G19573716	U70101DL2010PTC200877	एस.एस.एस.वी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
797	G22862031	U67190HR2011PTC043476	साकार वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
798	G15699531	U74910DL2004PTC126686	सब रेकुइर्स् प्राइवेट लिमिटेड.
799	G30646715	U70102DL2012PTC237085	सभ्य इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
800	G13228044	U15311HR1986PTC025020	सचदेवा एगोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
801	G30561591	U74140DL2011PTC224862	संचिका एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
802	G20892642	U74140DL2015PTC278837	सडवा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
803	G30024350	U55101DL2010PTC204210	सफर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
804	G19102631	U74920DL2012PTC242823	सेफ ज़ोन डिटेक्टिव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
805	G23031834	U74899DL1983PTC016365	साहिब चिट्स (डेलही) प्राइवेट लिमिटेड
806	G31158686	U70100DL2012PTC235598	साईकिरपा रिअलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
807	G20326047	U74899DL1983PTC073649	सलूजा केमैट्स प्राइवेट लिमिटेड
808	G20395133	U63000DL2012PTC239240	सालवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
809	G29281763	U15132DL2010PTC203574	संभावना मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
810	G29586864	U51909DL2007PTC163237	संपन्न सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
811	G21010129	U70102DL2013PTC249042	सामग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
812	G17959107	U51909DL2005PTC142711	सेमसन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
813	G20894119	U72200DL2011PTC213202	सैंडरॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
814	G28163723	U74140DL2014PTC271228	सांताकार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
815	G30217558	U45200DL2008PTC176559	सरभ रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
816	G17880055	U40101DL2008PTC180448	सरिता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
817	G16889727	U93000DL2013PTC248298	सार्थक सर्वेडिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
818	G20879342	U70200DL2014PTC263946	सर्वशुद्धि बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
819	G28721504	U74999DL2012PTC235805	सास एसोल्टर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
820	G22791214	U67190DL2015PTC283605	सत प्रकाश जिंदल & संस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
821	G30343933	U70200DL2015OPC281593	सत प्रकाश जिंदल & संस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
822	G19732957	U45400DL2007PTC162428	सतोरी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
823	G27601780	U93000HR2013PTC048769	सात्विका हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
824	G29128832	U51909HR2001PTC035558	सौभाग्य एक्सिम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
825	G29195112	U18101HR2000PTC035554	सौभाग्य हैंडीक्राफ्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
826	G21637681	U51909DL1997PTC085973	सावंत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
827	G14102115	U52590HR2014PTC051769	सवि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
828	G15809742	U74140DL2004PTC125793	स्कान्डिया इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
829	G30506885	U74899DL1951PTC002006	स्क्रीन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
830	G30346571	U72900DL2007PTC171600	एससीएस टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
831	G30235592	U51900DL2012PTC234163	स्क्यूब इरिटेल् प्राइवेट लिमिटेड
832	G20395703	U55101DL2010PTC203904	एसडी गौरमैंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड
833	G20395414	U55101DL2008PTC175218	एसडी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
834	G22158570	U74140DL2012PTC244283	एसडीके वर्थ रेफोर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड
835	G17309873	U72300DL2008PTC172669	सीक्यूएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
836	G27575273	U72900DL2016PTC290236	सेल्फीकार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
837	G20769436	U70109DL2013PTC256228	सर्पेटाइन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
838	G28662377	U72200DL2012PTC246774	सर्वनेट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
839	G29790516	U74999DL2012PTC237357	सेवक मेटेनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
840	G20124673	U85120DL2000PTC105325	शाह डेंटल लैब प्राइवेट लिमिटेड
841	G20376893	U18101DL2012PTC230373	शेल्स रिटेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
842	G22185177	U85195DL2007PTC163968	शाम्भवी डेवेलोपर्स & डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
843	G17999111	U51909DL2012PTC240390	शंकर जेनसेट प्राइवेट लिमिटेड
844	G25372269	U19110DL2012PTC231957	शॉन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
845	G30443048	U72200DL2012PTC239077	शौर्य आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
846	G17003641	U85121DL2006PTC152061	शयोका मेडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.
847	G27912435	U74900DL2011PTC229502	शाज़िया रहमान डिजाइन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
848	G23291826	U15139DL2009PTC196046	शेफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
849	G26092262	U27101DL2011PTC223227	शेर्मन रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
850	G20314761	U63040DL2012PTC240009	शिरडी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
851	G24991283	U70102DL2012PTC232574	शिव राधा पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
852	G24935314	U55101DL2013PTC249697	शिव वाटिका होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
853	G30315063	U74899DL1999PTC101383	शिव कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
854	G24228975	U11101DL2011PTC228673	शिवालिक पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
855	G19963982	U17115HR1992PTC031675	शिवम बुल्तेक्स प्राइवेट लिमिटेड
856	G29800943	U70102DL2014PLC263490	शिवानी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड
857	G29971488	U22219DL2014PTC266075	शिवानी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
858	G17229816	U21011DL1996PTC076820	शौरभ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
859	G27893551	U35990DL2009PTC197476	श्री सोबर ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
860	G29506771	U45200HR2007PTC036877	श्रेयांश प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
861	G19640440	U70200DL2012PTC246709	श्री एकाक्षी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
862	G20736021	U24232DL2011PTC215050	श्री साई आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड
863	G11935038	U74999DL2011PTC219179	श्री साई ट्रेक्सीम प्राइवेट लिमिटेड
864	G24258758	U24211DL2008PTC182300	श्रीसॉन्स क्रॉप सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
865	G21577135	U55101DL2013PTC256281	श्रीकोन्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
866	C77315364	U70200DL2013PTC247155	शुभ आई प्रॉपर्टी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
867	G28308229	U65100DL2009PTC192261	शुमासिक निवेश प्राइवेट लिमिटेड
868	G22328009	U72200DL2008PTC182301	श्याम टेलीकॉम & आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
869	G17058009	U55101HR2010PTC041056	शायला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
870	G30241855	U72200DL2012PTC237284	सिद्धर्ष नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
871	G19261148	U32109HR2012PTC047799	सिद्धि टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
872	G27995695	U80904DL2014PTC263165	सिद्धि विनायक इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
873	G30589378	U22200DL2010PTC200294	सिल्वर ओक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
874	G16643686	U65191DL2015PTC285595	सिंपल अडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
875	G17279209	U93000DL2013PTC247691	सिमरन साई डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
876	G29003860	U15122DL2015PTC278509	सिनामोन प्राइवेट लिमिटेड
877	G17208216	U72200DL2013PTC256223	सिंगल पॉइंट डाटा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
878	G30444251	U41000DL2014PTC271831	सीस हाइड्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
879	G23588809	U72200DL2012PTC238358	सिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
880	G20725685	U80301DL2013PTC257157	सीता देवी मेमोरियल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
881	G19829647	U70101DL2006PTC148712	सिताक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
882	G19257906	U51909DL2012PTC244601	सिवाना मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
883	G29516887	U74999DL2013PTC248930	सिया बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
884	G30588222	U45201DL2005PTC138071	एसकेजी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
885	G14517650	U85100DL2011PTC228646	स्किन प्लस क्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड
886	G20838231	U51225DL2013PTC254625	एसकेएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
887	G29568557	U70101HR2013PTC050089	स्काई रिच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
888	G29886595	U72900DL2012PTC240821	स्काईग्लोबल इंफोसॉफ्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
889	G19308824	U74140DL2011PTC220593	स्कायलैब सिम्योरिटी & सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
890	G20141438	U52341DL2013PTC250166	एसएल डिस्कवरी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
891	G29941994	U70102DL2015PTC276486	स्लाइस रियल एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
892	G22898878	U72900DL2013PTC256395	स्मार्टनिओ सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
893	G30286108	U50102DL2006PTC156442	एसएमडी ऑटो कॉम्पोनेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
894	G20208286	U70109DL2006PTC150828	सॉफ्ट कार्नर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड.
895	G30665996	U72200HR2014PTC052674	सॉफ्ट माइंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
896	G24633414	U45200DL2008PTC176507	सोहम बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
897	G19902535	U80904DL2007PTC159180	सॉइल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
898	G29017399	U70101DL2005PTC140762	सोपान बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
899	G14399893	U70102DL2014PTC273839	स्पेक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
900	G28394690	U74200DL2008PTC177126	स्पेक्ट्रो वेल्ड इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
901	G30196976	U22190DL2011PTC225181	स्पिरिट केबल कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
902	G23112816	U70109HR2012PTC046404	एसपीएलआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
903	G19869890	U74990DL2011PTC218687	स्पोर्ट्स एरीना मीडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
904	G23667579	U15400DL2013PTC247597	एसपीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
905	G26530246	U45200DL2008PTC173515	स्प्रिंग इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
906	G21597331	U24122DL2005PTC137481	एसक्यूएम् एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
907	G20610614	U70101DL2009PTC195214	श्रेयस लुधियाना एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
908	G28650349	U45200DL2009PTC193419	श्री शिवम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
909	G29212339	U29295DL2013PTC251569	एसएस मेटल फॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
910	G27836790	U70200DL2011PTC227741	एसएसआर एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
911	G27838705	U63040DL2013PTC256203	एसएसआर टूर & ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
912	G29320603	U70200DL2013PTC249732	एसटी रियालकोन प्राइवेट लिमिटेड
913	G21214325	U93000DL2009PTC188091	स्टेनफोर्ड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड
914	G20307443	U51909DL2011PTC222159	स्टार फिश मारक प्राइवेट लिमिटेड
915	G16623209	U15430DL2012PTC240022	स्टेलर फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
916	G22803936	U74999DL2009PTC191666	स्टर्लिंग वेल्थ एंड कैपिटल अडवोजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
917	G23760630	U74900DL2016PTC291614	स्टॉर्महार्डवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
918	G29339074	U74140DL2014PTC266930	स्ट्राटमैटिक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
919	G22116404	U72900DL2013PTC255486	स्ट्राटोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
920	G17540063	U74899DL2005PLC141838	सुब्बा पावर लिमिटेड
921	G19652817	U35122DL2007PTC166959	सुकु प्रेस-शॉप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
922	G23756034	U31908DL2013PTC254178	सन फेम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
923	G21033758	U29253DL2009PTC194140	सन ग्रीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
924	G20626214	U28990DL2012PTC233791	सुनम होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
925	G21013933	U63040DL2012PTC230883	सुपर ट्रेवंचर प्राइवेट लिमिटेड
926	G30781470	U72200DL2011PTC214694	सपोर्टएक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
927	G20653887	U24233DL2008PTC173251	श्यूर मेडीफार्म प्राइवेट लिमिटेड
928	G20076568	U74920DL2011PTC216590	सुरमाया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
929	G18160564	U72300DL2014PTC265237	सुरमॉटे इंफोजन प्राइवेट लिमिटेड
930	G30656045	U32204DL2013PTC248109	सूर्य मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
931	G23493018	U01110DL2012PTC242737	ससटिनन्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
932	G29391570	U22100DL2011PTC212752	सिंडिकेट पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
933	G16722217	U85191DL2007PTC163296	तजारो फार्म प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
934	C80977127	U74300DL2010PTC205501	तानजेंट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
935	G27963644	U51909DL2012PTC236719	तापनया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
936	G28065225	U33110DL2013PTC249371	तपन्य फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
937	G20424727	U72900DL2012PTC234264	तथास्तु ऑनलाइन वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
938	G14072169	U74900DL2008PTC185584	टोरस फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
939	G20138319	U15122DL2013PTC260786	टीसता ब्रेव प्राइवेट लिमिटेड
940	G17927963	U74140DL2015PTC283493	टेक्नो सेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
941	G21983135	U32109DL2011PTC226152	टेक्स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
942	G23861040	U64202DL1997PTC086841	टेली कंपिटेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
943	G15567209	U65921DL1991PTC045994	टेम्पो फाइनेंस (नार्थ) प्राइवेट लिमिटेड
944	G12220760	U63040DL2016OPC291664	टेरर इंडिया जोरनेस (ओपिसी) प्राइवेट लिमिटेड
945	G20553533	U72200DL2012PTC240870	टेद्रामाविले टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
946	G28194934	U74999DL2014PTC267885	टीजीटी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
947	G20882718	U29113HR2013PTC051160	ठकुराल पोवेरतेच प्राइवेट लिमिटेड
948	G28381507	U80302DL2005PTC136375	थेम्स वैली टेक्निकल एजुकेशनल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड
949	G28440519	U74130DL2012PTC236877	टैट'स दी स्पिरिट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
950	G30047492	U74900HR2013PTC049414	दी सीरीन स्वान स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
951	G28089019	U72200DL2011PTC227048	थॉटवेवर आई.टी. सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
952	G19926880	U45201DL2005PTC141867	तीरुश्री कॉन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
953	G22158075	U74140DL2015PTC277675	टिसमस्तु इंटीरियर डेकोरेटर & कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
954	G17539214	U52320DL2013PTC246906	तोरबा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
955	G18128207	U29150DL2012PTC243287	टोरेन हाइट एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
956	G30643167	U74140DL2015PTC287296	टीक्यूएस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
957	G23740319	U55101DL2003PTC123505	ट्रांक्विलिटी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
958	G30300487	U92410DL2012PTC237581	ट्रांसफॉर्मेशन जिम & स्पा प्राइवेट लिमिटेड
959	G16247959	U51909HR2002PTC034966	त्रिकोन इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
960	G17332107	U26940DL2013PTC255197	ट्रिडेंट सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
961	G21767983	U74300DL1997PTC084224	ट्रिलिंगस ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
962	G24021479	U51909DL2005PTC143208	त्रिस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
963	G22020770	U74900DL2011PTC214053	ट्रिस तार रिलोकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
964	G31122252	U80302DL1999PTC098653	ट्रिक्स एविएशन इंजीनियरिंग एंड टीक्यूएम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
965	G21365085	U72900DL2012PTC238742	डूजेक टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
966	G28727097	U29253HR2011PTC043591	तुषार वेट पैक प्राइवेट लिमिटेड
967	G20456927	U93000DL2011PTC227243	यू एन मी इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
968	G30155568	U24120HR2012PTC047114	उज्जवल बायोचेम एंड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
969	G29158375	U63030DL2011PTC223360	उल्का एविएशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
970	G22735542	U26941DL2008PTC179569	अल्ट्रा वाइट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
971	G29307428	U15490DL2004PTC130136	उमेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
972	G27962398	U36999DL2011PTC223840	यूनिक एक्सेस फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड
973	G22088884	U51909DL2005PTC138908	यूनिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
974	G16444101	U72200DL2012PTC240915	यूनिसिस टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
975	G29066511	U74950HR2001PTC034771	यूनाइटेड स्पाइरल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
976	G21177373	U74899DL1993PTC051891	यूनीवर्थ फाइनेंसियल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
977	G05089206	U21014HR2010PTC041587	यूनो पैक प्राइवेट लिमिटेड
978	G28536738	U74140DL2008PTC179643	यूएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
979	G19905819	U74999DL2011PTC223283	यूटीएल कार्गो एंड कूरियर प्राइवेट लिमिटेड
980	G29660446	U52300DL2010PTC197677	वि & एस ट्रेड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
981	G28037588	U45400DL2016PTC290887	वि. वि. इंजीनियर्स & कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
982	G19565134	U74999DL2007PTC161371	वि. पि. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
983	G30211536	U67120DL2010PTC207757	वैमित्र शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
984	G06177950	U19115DL2013PTC246991	वैष्णवी डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
985	G28305878	U74899DL1984PTC017903	वैली इंटरनेशनल प्रा. लि.
986	G23457831	U45400DL2007PTC171288	वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
987	G24440653	U74999DL2013PTC256715	वंशराज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
988	G28656320	U70200DL2012PTC243864	वरदान इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
989	G25183054	U70101DL2005PTC142964	वर्धमान भारत टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
990	G14551642	U72200HR1996PTC033178	वरुण इंफोटेक प्रा लि
991	G28534998	U60200DL2012PTC245080	वासुदेव आटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
992	G29600707	U72200HR2010PTC040584	वत्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
993	G30242523	U74899DL1995PTC066826	वेद माता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
994	G28459998	U74900DL2013PTC261276	वैदिक अमृत प्राइवेट लिमिटेड
995	G12696100	U74140DL2015PTC283485	वेलवेट प्रोड्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
996	G09020066	U18109DL2012PLC231519	वीनस नीटफैब लिमिटेड
997	G17864794	U45207DL2008PTC180849	वेरिन पावर प्राइवेट लिमिटेड
998	G21572128	U80302DL1996PTC083484	वेरोनिका कंप्यूटर इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
999	G17867599	U45207DL2008PTC181362	वर्सा पावर प्राइवेट लिमिटेड
1000	G18833491	U70200DL2007PTC167000	वर्टेक्स इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1001	G23518582	U51909DL2010PTC209810	वीजीएस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1002	G30078802	U51909DL2016PTC303127	वाइब्रेंट आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड
1003	G20374419	U52590DL2009PTC190291	विक्टर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड
1004	G21129754	U80221DL2011PTC212135	विदेह लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
1005	G30670129	U80904HR2012PTC047408	विकल्प सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1006	G00555565	U74140DL2006PTC144643	विम्स टेक्नो कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
1007	G20641882	U24211DL2005PTC139494	विनायक अगरिचें प्राइवेट लिमिटेड
1008	G28871259	U45200DL2006PTC155130	विनीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1009	G29459757	U74899DL1992PLC051455	विराट एप्लायंसेज लिमिटेड
1010	G12370714	U45207DL2001PTC110838	विशाल शिवगंगा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1011	G21550009	U52190DL2013PTC247946	विशी एलेजेंस डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
1012	G29619285	U64200DL2005PTC265761	विजुअल मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
1013	G19146604	U72900DL2012PTC246340	विजुअल टेकसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1014	G19907385	U72900DL2007PTC165561	विवा टेक्नीव एड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1015	G29999042	U15122DL2007PTC166319	वीकेजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1016	G30323455	U74140DL2003PTC121337	वीकेजी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1017	G06759633	U51909DL2011PTC220186	वीएमसी ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
1018	G23006182	U72900DL2013PTC254584	विनी इंफोटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1019	G30853097	U74140DL2008PTC177411	वीएनवी लोन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1020	G17872672	U70109DL2012PTC230018	वौड्सप्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
1021	G30456594	U45400DL2010PTC210036	वृक्ष डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1022	G18326983	U55101HR2013PTC048378	वीएसएसएस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1023	G13888839	U55101DL2008PTC183055	विवाई लॉजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1024	G16091415	U74999DL1998PTC095950	वार्विक नेटवर्क डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1025	G29693132	U45200DL2010PTC209776	वेव इंफ्राडेवेलोपर्स (लष्मी गंज) प्राइवेट लिमिटेड
1026	G19442078	U45200DL2010PTC209775	वेव इंफ्राडेवेलोपर्स (नवाबगंज) प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
1027	G19443183	U45200DL2010PTC209777	वेव इंफ्राडेवेलोपर्स (रामकोला) प्राइवेट लिमिटेड
1028	G19444074	U45400DL2010PTC208891	वेव इंफ्राडेवेलोपर्स (रामपुर) प्राइवेट लिमिटेड
1029	G19440882	U45200DL2010PTC208893	वेव इंफ्राडेवेलोपर्स (शाहगंज) प्राइवेट लिमिटेड
1030	G20899142	U18109HR2015PTC056523	वेरसोशल अपपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1031	G28266740	U72200DL2013PTC251685	वेबफॉरे इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1032	B80456486	U52300DL2011PTC217368	वेबमार्ट रेटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1033	G21177449	U92120DL2008PTC183605	वीकेंड फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड
1034	G28400992	U22190DL2012PTC242124	व्हीज़ द्वािगिक प्राइवेट लिमिटेड
1035	G21339957	U74999DL2013PTC251100	विंड एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1036	C76999952	U67120DL2012PTC236865	विशफुल रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड
1037	G18352799	U72501DL2007PTC171366	वंडरस्टिक्स इन्टरनेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1038	G28437093	U36912DL2009PTC196675	वूडपेकर्स डेकॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1039	G30348031	U52390DL2013PTC257915	वर्ल्डवील ट्रेडलिंक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1040	G21724737	U51101DL2007PTC165230	वाओ मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1041	G20089231	U72200DL2012PTC244903	वाओज़र सॉफ्टवेर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1042	G14018907	U24110DL2007PTC159404	जेन्थाइन चेम प्राइवेट लिमिटेड
1043	G30764005	U74999HR2016PTC058393	ज़िसेप्टा साइसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1044	G27831965	U72400DL2008PTC183602	एक्सपर्ट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
1045	G29668845	U74920DL2006PTC144766	स्ट्रीम सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड
1046	G22020267	U74899DL1988PTC030429	वाईएस कपाडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1047	G20522140	U74140HR2011PTC044526	याग्निक मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1048	G19975499	U93000DL2009PTC190424	यक्ष मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1049	G30213763	U67120DL2010PTC208201	यामंगीका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1050	G16440059	U70109DL2014PTC271324	यति इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1051	G18824391	U72200DL2005PTC143783	यंग इंजीनियर्स कॉम्प्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1052	G28921393	U74140DL2013PTC256264	योर केयर नेक्स्ट दूर प्राइवेट लिमिटेड
1053	G30818215	U13203DL2007PTC164764	वाईपि मुलती मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1054	G18822700	U93000HR2010FTC039992	वाई एस आई एनवायर्नमेंटल साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
1055	G28259141	U55101DL2011PTC227788	वाईटी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
1056	G19789379	U52321DL1999PTC100776	युग ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1057	G22481220	U74140DL2015PTC278644	जेड & एन स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	SRN	CIN	कंपनी नाम
1058	G30635791	U93030DL2007PTC164762	जेनिथ कॉपर माइंस प्राइवेट लिमिटेड
1059	G27653641	U15310DL2012PTC235343	जीरो डिग्री हेल्थी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1060	G21577234	U15122DL2008PTC180784	जीउस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1061	G13786199	U51909DL2013PTC250091	ज़कफ़र ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1062	G29644085	U65992DL1985PTC021406	जोडिएक चिट फण्ड प्राइवेट लि.
1063	G23376023	U52300HR2011PTC042351	ज़ेरोक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

प्रहलाद मीना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं हरियाण

सं. आरओसी/धारा 248/2017/123—कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण

प्ररूप सं. एसटीके-5

क

कटक-753014, तारीख 31 मार्च 2017

सार्वजनिक सूचना सं. 01/2017—

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1	राजदीप माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	660	बी सी डगर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड
2	मिट्को स्टील एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	661	क्यूडू कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3	ऑस्टेन एंड हैडफील्ड इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	662	शुभम कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
4	सत्यम पॉवर एंड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड	663	किल-डील प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	बिस्वास प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	664	एम्को कन्स्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	भगवती लेब प्राइवेट लिमिटेड	665	धनवी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
7	ममता एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	666	अजीत मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
8	द वर्ल्ड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	667	ओम आशियाना प्राइवेट लिमिटेड
9	ग्रीनहाउस एंटरप्राइज (इंडिया) लिमिटेड	668	एपी ट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
10	पलक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	669	पॉवरकिंग एस्टेट एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
11	ट्रांस ओशनिक एगोटेक लिमिटेड	670	सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
12	तनेसी नट्री फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	671	हैल्पमेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	श्री कृष्णा मशरूम प्राइवेट लिमिटेड	672	पयूचर हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	श्री साई पौरुसोत्तम फारमटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	673	जेपीआरएस पॉवर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
15	उड़ीसा एग्रो टेक लिमिटेड	674	अल्फा इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	उड़ीसा प्रोमीसिंग हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	675	रेडकों प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
17	श्रीमा एगो प्राइवेट लिमिटेड	676	मेकॉन स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड
18	इनोवेट एग्री एंड इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	677	लैंड इंडिया अससेट्स लिमिटेड
19	रे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	678	हीराकुंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	स्वामिशस एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	679	पी जे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	क्रुशाकज एगोटेक लिमिटेड	680	महावीर ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	681	दीनानाथ एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
23	समृद्धि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	682	इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड
24	ग्रीन ऐज एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	683	अन्नपूर्ण एगो बायो-टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	सनटेक एग्रीकल्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	684	बाबा लोकनाथ वरसा ट्रेडलिनक्स प्राइवेट लिमिटेड
26	रेलीगोड ओडिशा लिमिटेड	685	ओडिशा एक्विजम हाउस प्राइवेट लिमिटेड
27	सुवसत्य एगो इंडिया लिमिटेड	686	कौसत्य माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड
28	यूनिक बर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	687	इलोई (आई) इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	कलिंगा फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	688	वीसा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
30	पंचवटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	689	रॉयल शेयर और सिक्योरिटीज लिमिटेड
31	ईस्टर्न लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड	690	इंटेसिटी फिटनेस प्रो प्राइवेट लिमिटेड
32	निधि बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	691	गुप्ता मल्टीट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	माँ तारिणी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	692	बेरहामपुर इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
34	खुशबु पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	693	फ्यूचर फार्मिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
35	ग्रीनबेरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	694	एम एस बिजनस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
36	यूनिमाक्स ईस्ट फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	695	फीनिक्स फाइनैशियल केअर प्राइवेट लिमिटेड
37	एम एस ग्रोवेर्स प्राइवेट लिमिटेड	696	एचीवर सलूशन एंड बिजनस प्राइवेट लिमिटेड
38	कल्कि अनुग्रह फार्म प्राइवेट लिमिटेड	697	स्विगेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
39	स्वस्तिक एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	698	ए वन मर्कटाइल प्राइवेट लिमिटेड
40	भारती एगो वेंचर्स इंडिया लिमिटेड	699	सिपलोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	किसान शक्ति एगो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	700	सनशाइन एंड इश्योरेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
42	शक्ति इंडिया एगो एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	701	श्री साई होम नीड्स सलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
43	आइलैंड एगोफ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	702	ग्रीन (आई) ट्रेडिंग एंड कन्सलटैन्सी लिमिटेड
44	तृप्ति एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	703	रॉयल फोकस मल्टी प्राइवेट लिमिटेड
45	नंदिनी कलिंगा डेरी लिमिटेड	704	जेएफके कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
46	धन सुरक्षा एगो लिमिटेड	705	संकल्प इनोवेटिव मेगा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
47	चित्रा कृषि निवेश लिमिटेड	706	ब्राइट लाइफ फाइनैशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
48	क्रुतिबिभा बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड	707	सिक्योर लाइफ फाइनैशियल सलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	रियलविजन एगो सर्विसेज लिमिटेड	708	संचय लाइफ मल्टीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	रियल वैल्यू ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड	709	श्री पतिपावन मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
51	कृति विभा इमू फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	710	ऋषिकुल मल्टीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
52	गायत्री रिलाएबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	711	सनशाइन मार्केटप्लस लिमिटेड
53	सक्सेस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	712	नेटस्केप मार्केटिंग लिमिटेड
54	विकास धरा फूड्स इंडिया लिमिटेड	713	कैरियर रिसर्च मल्टिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
55	सद्भावना इंटरनेशनल लिमिटेड	714	न्यू ऐज एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
56	डायनामिक मल्टी-प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	715	कलिंगा ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	प्रगति एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	716	शक्ति इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	रुद्राक्ष एग्रो वेंचर्स इंडिया लिमिटेड	717	पांडा स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
59	श्री हेवे एग्री रीयलकॉन प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	718	एमराल्ड कॉमक्स इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
60	मिडईस्ट एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड	719	स्वाद गोल्ड स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
61	प्रगतिज्ञान गोत एंड एग्रो फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	720	माय टी प्राइवेट लिमिटेड
62	नीलचक्र एग्रीकल्चर एंड स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड	721	कैरेफेसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
63	रक्षक एग्रो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	722	एमोक्स होम एप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड
64	रेलीकेयर एग्री क्रॉप कंपनी लिमिटेड	723	मेकवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
65	इन्डोनियागर डेवलपमेंट्स इंडिया लिमिटेड	724	अपना सलूशन्स मल्टीटाड प्राइवेट लिमिटेड
66	वर्सा सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	725	आरजी कंज्यूमर केअर प्राइवेट लिमिटेड
67	अग्रगामी एग्री प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	726	ईस्टर्न इंडिया होमकेयर प्राइवेट लिमिटेड
68	रियल डिवाइन एग्रो लिमिटेड	727	ओडिशा बाजार प्राइवेट लिमिटेड
69	गायत्री एगर आर्गेनिक लिमिटेड	728	न्यू रे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
70	सप्तऋषि एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	729	ओडिसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
71	शगुन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	730	जावा पॉइंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
72	विश्वास एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	731	आनंद बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड
73	एमोक्स एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	732	अरनोन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
74	शिवशक्ति एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड	733	फ्यूचर सिक्वोर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
75	ग्रीन वृक्ष प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	734	लाइमेड बायोजीनैटिक प्राइवेट लिमिटेड
76	डिवाइन एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	735	इंदु मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
77	भोईराज एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	736	सैमटेक्स ट्रेडर्स लिमिटेड
78	मिशन इंडिया एग्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	737	अस्विंस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
79	प्रकृति एग्रीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड	738	जय जगन्नाथ मल्टिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
80	सरस डेयरी एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	739	बलदेव ट्रांसमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
81	देवशक्ति एग्रीवेट प्राइवेट लिमिटेड	740	बेल माउटेन्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
82	गेट एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड	741	अलायन्स नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
83	स्वयं एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	742	राधा रामन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
84	मैत्री एग्रोप्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड	743	स्वस्तिक क्रोम्स प्राइवेट लिमिटेड
85	आईकॉन एम्पायर एग्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड	744	वेदव्यास एजेंसियां (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
86	डायनामिक एक्वा एंड एग्री प्राइवेट लिमिटेड	745	पी एंड पी मिनरल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
87	डयूस एग्री प्राइवेट लिमिटेड	746	एमवाईएन मेटल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	सिद्धि विनायक एग्री लिमिटेड	747	महाबली मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
89	स्पार्टन कल्टिवा लिमिटेड	748	आर्यन गौतम एंटरप्राइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
90	स्वर्ण भूमि एग्री इंडिया लिमिटेड	749	गौड़ ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
91	एकोर्न एग्रीटेक लिमिटेड	750	स्पेस रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
92	एमास मल्टी एग्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड	751	एसएसआर कमर्शियल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	सेफ इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	752	समृद्धि सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
94	वंडरग्रीन एग्री एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	753	संजय साहनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
95	वर्सा एनटीएफपी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	754	शगुन कॉमर्स एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
96	वैभवी एग्री इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	755	डीयो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
97	एग्री मार्ट इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	756	टेकन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
98	जयशास्वत इंडिया मल्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	757	मनिराज इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
99	ग्रीन ओशन एग्री फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	758	जय कृष्णा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
100	सूर्य-एग्री सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	759	कटक चंडी कोल एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
101	समुद्रम ट्रेडिंग फिशर वुमन कलेक्टिव प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	760	धबलेश्वर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
102	सीलैंड फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड	761	बाबाजी फकीरी ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
103	सी विक्टर प्राइवेट लिमिटेड	762	ओम माँ एजेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
104	गोल्डन एक्वा फर्म प्राइवेट लिमिटेड	763	माँ तारिणी इन्फ्रा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
105	सागर प्रॉन प्राइवेट लिमिटेड	764	जे डी वणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
106	जेनिथ मरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड	765	डिवाइन सुप्रीम टेक्सटाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
107	स्वाद लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड	766	जाजोदिया ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
108	डीडी एक्वाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	767	दुर्ज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
109	नामा मरीन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	768	वेनियर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
110	ओडिशा कोक और कोल सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड	769	सोनू इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
111	नुगान कोयला कंपनी लिमिटेड	770	साईशक्ति इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
112	कलिंगा कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	771	ब्रिलियंट होम एप्लायंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
113	मंदाकिनी-बी कोल कार्पोरेशन लिमिटेड	772	ओरिबॉज डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
114	एस एन ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड	773	केविन सोलर पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
115	स्पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	774	आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड
116	माँ सरला माइंस एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	775	समृद्ध परिवार मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
117	ऑलमाइटी माइनिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	776	मीरा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
118	एमराल्ड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	777	स्टनिंग टेक्नो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
119	आर्क मूवर्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	778	स्पैज इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
120	कुस्तव मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	779	साईप्रभु इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
121	टॉपसन रिम आयरन ऑरिएण्टलीज प्राइवेट लिमिटेड	780	स्मार्ट ड्रीम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
122	क्रैकर्स इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	781	एम कंज्यूमर केअर प्राइवेट लिमिटेड
123	ब्रजबंधू मिनरल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	782	साईश्री रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
124	ऐक्सियम नेचुरल रीसोर्सोज प्राइवेट लिमिटेड	783	श्री विगसंस एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	एजटेक मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	784	ड्रीम ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
126	अभिषेक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	785	कलिंगा कैप्स रिटेल बाजार प्राइवेट लिमिटेड
127	पीएसएस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	786	एसएसएस मेगामार्ट प्राइवेट लिमिटेड
128	जेहान ओर्स प्राइवेट लिमिटेड	787	रियल बिजनेस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
129	अछूत मेटल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	788	रिटेल एन्टरप्राइज डोमेन इंडिया लिमिटेड
130	श्याम कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	789	सिल्वान ट्रेडएक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
131	कोलाब मिनरल रीसोर्सोज प्राइवेट लिमिटेड	790	कोणार्क कैशु एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
132	श्रीचंदना मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	791	स्कॉट इंडिया लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
133	इंडस मिनरल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	792	सुन्दर जीवन ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
134	दिव्या ज्योति मिनरल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	793	एमोशन रिटेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
135	सपास मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	794	मैक्स वैनिजा प्राइवेट लिमिटेड
136	एएमएस इन्फ्राट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	795	ड्रीमबिज एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
137	त्रिअक्ष राज एलुमिना प्राइवेट लिमिटेड	796	क्रिश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
138	माइक्रो इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	797	पिरामिड कम्फर्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
139	श्रीभूमि माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड	798	एमडीएस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
140	अब्दुल सत्तार मिनरल एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	799	रॉयल एरीस्टो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
141	नन्द माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	800	ऐडवेंट डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
142	साउथ वेस्ट उड़ीसा बॉक्साइट माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	801	विब्रश आर्ट वेंचर्स इंडिया लिमिटेड
143	एससीपी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	802	निर्मला कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
144	मैक्रो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	803	दलाई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
145	उत्सव मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	804	फ्रीडम इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
146	टीएस माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	805	एम पॉवर ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
147	अल्ट्रा मिनरल्स एंड फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	806	राजकुमार क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
148	राधा माधव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड	807	ग्रीन इंडिया रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड
149	सय्यद अब्दुल हलिम माइंस प्राइवेट लिमिटेड	808	माँ तारिणी आशीर्वाद होटल प्राइवेट लिमिटेड
150	अभियान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	809	जस गुप्स (रेस्टोरेंट्स) प्राइवेट लिमिटेड
151	खुशी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	810	गणपति
152	बालासोर क्रश स्टोन प्राइवेट लिमिटेड	811	होटल पद्मा प्राइवेट लिमिटेड
153	वसुंधरा कैलसिनेशन प्राइवेट लिमिटेड	812	जिग्मा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
154	पाथापुर माइंस एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	813	होटल तृप्ति प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
155	पर्देस्वारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	814	जसोरिया रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
156	ब्ल्यूबेरीज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	815	मण्डीपा इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
157	एसएसआर जौडा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	816	पंचवटी इन प्राइवेट लिमिटेड
158	समर्स माइनिंग एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	817	स्वागत इन प्राइवेट लिमिटेड
159	केनझार मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	818	कोणार्क इन प्राइवेट लिमिटेड
160	जीओ साइंस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	819	श्रुति इन प्राइवेट लिमिटेड
161	श्री साई माइंस एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	820	कलिंगा इन्फ्राक्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
162	कलिंगा ग्रेफाइट प्राइवेट लिमिटेड	821	रागा रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
163	मेघना आर्गेनिक एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	822	समित बेवरेज एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
164	भट्टर साल्वेंट एक्सट्रैक्शन उद्योग लिमिटेड	823	जेबीसी होटल प्राइवेट लिमिटेड
165	सूर्यमुखी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	824	दुर्गा क्लासिक मल्टीरिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
166	तारिणी रोलर फ्लौरमिल प्राइवेट लिमिटेड	825	आदित्य मोटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
167	माँ खंडूअली एगो प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	826	आर.एम रीजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
168	गृहलक्ष्मी स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड	827	महानंदी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
169	वैभवी राइस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	828	ग्रीन इंडिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
170	धरित्री मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	829	द वर्ल्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
171	केकेडीआईएल एगो फूड्स लिमिटेड	830	माइक्रो होटल प्राइवेट लिमिटेड
172	एचएसबीएन एगो पावर लीमिटेड	831	शगुन इन एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
173	उड़ीसा राइस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	832	केकेडीआईएल होटल एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड
174	तारिणी राइस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	833	श्रीभूमी होटल एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड
175	श्री राइस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	834	एस एंड एस ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	साईबिनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	835	मंग्रूव वाइल्डलाइफ रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
177	पुरुषोत्तम फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	836	इम्पीरियल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड
178	कौशल पैडी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	837	नेक्स्ट वेव होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
179	डौन फूड्स एंड स्पाइसेज लिमिटेड	838	आवास इंटीग्रेटेड लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
180	फीड लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	839	माइक्रो रोडवेज लिमिटेड
181	सन सीड एगो लिमिटेड	840	बिराट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
182	ग्रीन इंडिया बेवरीज एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	841	नोबल ट्रांसपोर्ट कैरियर प्राइवेट लिमिटेड
183	स्वारनिमा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	842	स्वयं ट्रांसट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
184	ला पैटीसर कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड	843	श्री बलदेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
185	आकांशा इंडिया मैनुफैक्चरिंग एंड मल्टीटाइड प्राइवेट लिमिटेड	844	एनवीटी पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
186	बीएलटी ब्रवरीज प्राइवेट लिमिटेड	845	दधिची लोजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
187	एक्वेटिक ब्रीयु प्राइवेट लिमिटेड	846	एमराल्ड लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
188	कांसू बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड	847	पांडा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
189	लाइफ ड्रॉप्स फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	848	माँ तारिणी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
190	लिविवड एंड मिनरल सलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	849	कंधामल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
191	डीपी डाइटरी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	850	स्वस्तिक एग्रीलोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
192	अभ्योस्मिता ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	851	सागरिका कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड
193	एसएलबी ड्रिंक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	852	हरिहर ट्रेवल ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
194	शिमला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	853	सारुनी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
195	ईस्ट इंडिया लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	854	कल्कि सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
196	दिलीप टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	855	कलिंगा कैप्स टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
197	निर्मला कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	856	एक्सप्रेस हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
198	उड़ीसा टिम्बर एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड	857	पैन इंडिया लिजर एंड हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
199	जेनेटिक ग्रीन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	858	ओरीस्पेस टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
200	राजधानी टिम्बर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	859	पलाइंग कलर ट्रेवल सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
201	कैलिबर पेपर प्राइवेट लिमिटेड	860	राज गोडसन टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
202	सेजल पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड	861	बुक एंड मूव ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
203	सोम पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड	862	एस्कर रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
204	शाइन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	863	कैरी माई गुड्स कलिंगा प्राइवेट लिमिटेड
205	एजेआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	864	करिश्मा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
206	एबीसीडी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	865	स्टर्लिंग कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
207	सागरिका मास कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	866	पॉलिगन इंफ्रा-कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
208	आशा प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड	867	ब्लूतेल वायरलेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
209	दैनिक आभा पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	868	साई कार्पोरेट टेक्नो-सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
210	प्रिज्म क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड	869	स्काई टेक विजन प्राइवेट लिमिटेड
211	सिटी ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड	870	जिबदीप हॉउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
212	हेवन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	871	पैसिफिक अलाइड सर्विसेज लिमिटेड
213	कंसु एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	872	एसएलबी माइक्रोफिन कॉरपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
214	शगुन मीडिया एंड पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	873	उन्नति इन्सुरांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
215	एमराल्ड कोक प्लांट प्राइवेट लिमिटेड	874	विवेकानंद हेल्थ फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड
216	इटकोल टेक्नो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	875	टाइम्स सिन्योरिटीज लिमिटेड
217	महंती टार शीफिनेरिज प्राइवेट लिमिटेड	876	वरुण टेक्नो-इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
218	पेटकोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	877	श्री बालीजी फाइनेंस लिमिटेड
219	बीएसएम इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड	878	बीएम वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
220	सी.वी अग्रिप्रांस प्राइवेट लिमिटेड	879	साईनाथ सिन्योरिटीज लिमिटेड
221	विग्नेश कमटेक प्राइवेट लिमिटेड	880	ओडिसा स्टॉकब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
222	गेसन केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	881	ओम श्री रिसोर्सेस लिमिटेड
223	हाइप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	882	श्रुष्टि फाइनेंसियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
224	भूमिका फर्टिलिजर्स प्राइवेट लिमिटेड	883	सैनगीन कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
225	कनक बायोसाइंस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	884	शांति धरित्री सिक्थोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
226	उत्कल रिफायनरीज प्राइवेट लिमिटेड	885	पीएनपी फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
227	एमआरएम पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड	886	विसर्ग फाइनेंसियल प्राइवेट लिमिटेड
228	विग्नेश ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	887	डायनामिक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
229	जाईकॉन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	888	श्रीवालिस सिक्थोरिटीज लिमिटेड
230	साईमेरा लाइफ साइंसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	889	हेलो फ्यूचर फाइनेंसियल एंड इन्सुरांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
231	सिडिल इंडिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	890	जीएस फाइनेंशल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
232	पीआरए ड्रग प्राइवेट लिमिटेड	891	बी एम शेयर ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
233	एडलिब हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड	892	चाँद एजेंसी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
234	नैनो हेर्ब रिसर्च लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	893	निदान सिक्थोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
235	अशोर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	894	एविग्ना डिवा इनवेस्टमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
236	शगुन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड	895	पृथ्वीराज सिक्थोरिटीज लिमिटेड
237	मेग्सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	896	निर्मला लाइफ एसेट्स एंड सिक्थोरिटीज लिमिटेड
238	सेंत-क्वाट फार्मा लिमिटेड	897	सिबल सिक्थोरिटीज लिमिटेड
239	स्माएट लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	898	निलाद्री फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
240	स्वावलंबी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	899	नेक्स्टजेन कैपिटल सलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
241	ऋषिकुल्य आयुर्वेदिक क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड	900	सूर्य निर्माण कैपिटल सलूशन प्राइवेट लिमिटेड
242	नोबल फार्माकेयर लिमिटेड	901	ट्रस्टी सिक्थोरिटीज लिमिटेड
243	हहनेमान हर्बल लिमिटेड	902	गैलेंट इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
244	आईडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	903	श्री वीसा कैपिटल लिमिटेड
245	एसआईएसआईआर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	904	श्रीभूमी कमोडिटीज एंड मर्चन्डाइज लिमिटेड
246	कलिंगा साल्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	905	स्वीकृति मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
247	पृथ्वीराज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	906	ओरिपेक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
248	एडलिब एडवरटाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	907	श्री लक्ष्मी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
249	क्लासिक टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	908	साईश्रद्धा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
250	चिल्का बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	909	शुभश्री होम क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
251	ग्लेन्स पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड	910	ओसियन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
252	शिव शंकर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	911	ऐकम्रा एस्टेट्स एंड हाउसिंग प्रमोशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
253	जिल्लीयन रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड	912	ओ एम. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
254	एसएसएल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	913	माँ तारिणी अबसिका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
255	दुरोकॉन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	914	त्रसेट एस्टेट्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
256	फुल मून प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड	915	शिबानी एस्टेट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
257	टॉक्सीनॉन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	916	श्री श्री साई एस्टेनॉन प्राइवेट लिमिटेड
258	रेनबो पॉलिम्स (भारत) प्राइवेट लिमिटेड	917	सुर्याप्रवाह रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
259	आर.एम. एंड संस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	918	लक्ष्मीनारायण एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
260	मेगा रेफ्रेक्टोरिज प्राइवेट लिमिटेड	919	बिस्वा भारती एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
261	ओएसआईएस रेफ्रेक्टोरिज प्राइवेट लिमिटेड	920	मनीषा एस्टेट्स एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड
262	मैड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	921	रपाज एलायंस बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
263	बिभू ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	922	जेनिथ इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
264	एचएनवी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	923	जोध एंड तेज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
265	तिरुपति सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	924	ड्वेल एस्टेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
266	राजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	925	सुमन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
267	आर वी एंटरप्राइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	926	ब्राइट एरेक्टर्स एंड इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
268	जैन एग्रीगेट प्राइवेट लिमिटेड	927	सारस्वत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
269	बेसाइड ग्लोबल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	928	चंद्रशेखर रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
270	वेदट्रिप प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	929	इंदु रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
271	सांथस मेकेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	930	लुबिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
272	द वर्ल्ड स्टील्स लिमिटेड	931	स्वप्नायिनी प्रॉपर्टीज एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
273	मयोम स्टील्स लिमिटेड	932	21 सेंचुरी मार्केटिंग एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड
274	श्री आदित्य इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	933	शुभलक्ष्मी बिल्डिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
275	रुकमनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	934	मुदित रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
276	संगम ट्यूब एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	935	ड्रीमपॉवर रियलइस्टेट एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
277	शारदा इस्पात एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	936	मणिकेस्वरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
278	केबीसी फैंरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	937	उम्माना होम बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
279	शिवली मिनरल्स एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	938	रियल अलायन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
280	सरला स्टील प्राइवेट लिमिटेड	939	सिद्धांत कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
281	शगुन स्टील एंड माइंस प्राइवेट लिमिटेड	940	ओम श्री जगन्नाथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
282	उत्कल मिनरल प्रोसेसिंग एंड फेर्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	941	यसमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
283	बी.सी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	942	सनशाइन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
284	सारंगधर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	943	लैंड इंडिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
285	पारवती स्टील प्राइवेट लिमिटेड	944	अल्फा सिटीइन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
286	सॉफटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	945	श्री इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
287	दाताराम स्टील प्राइवेट लिमिटेड	946	शाइन इन्फ्रामार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
288	एमआरडी स्टील एंड फेर्रो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	947	श्री कृपा होम्स एंड रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
289	केरोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	948	डीपी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
290	प्राची इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	949	साई शंकर इन्फ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
291	कोणार्क कांकास्त एंड पावर लिमिटेड	950	अनंत दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
292	गौसिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड	951	फ्रेंड्स एस्टेट्स मार्केटिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
293	वर्धमान स्टील प्राइवेट लिमिटेड	952	साई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
294	कैश अलॉयज लिमिटेड	953	बिर्नाम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
295	देब फेर्रो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	954	समल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
296	महानदी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	955	पंचसखा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
297	प्रताप इंटीग्रेटेड स्टील काम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	956	सत्यमरूप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
298	उत्कल मेटालिक्स एंड फेर्रो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	957	स्वयंआशीष बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
299	सिद्धांत एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड	958	संपर्क रियलएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
300	सिल्वेरिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	959	एथिक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
301	महानदी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	960	एमआरडी रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड
302	आस्था एलाय स्टील प्राइवेट लिमिटेड	961	श्री गुडिचा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
303	अभिषेख कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	962	मैक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
304	ऐसोर्य स्टील एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	963	स्वास्तिक इन्फ्रा-प्रॉपर्टीज लिमिटेड
305	एसएमबी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	964	सनशाइन इन्फ्रा-प्रॉपर्टीज लिमिटेड
306	जी-टेक मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	965	रियल विजन इंटरनेशनल लिमिटेड
307	शक्तिफैबटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	966	प्रिंस इंडिया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग लिमिटेड
308	औरो पैकेज एंड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	967	सौभाग्य इन्फ्रामैनेजमेंट (इंडिया) लिमिटेड
309	केजेपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	968	डिवाइन एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
310	ईस्टर्न एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	969	रश्मि प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
311	फ्लूइड मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	970	राज गोडसेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
312	मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्जीक्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	971	श्यामा परिवार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
313	फेडरल एगो कमर्शियल्स लिमिटेड	972	मुक्ति साई रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
314	सिरोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	973	ईशान इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड
315	प्रोटेक्ट पॉवर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	974	ओरिसंस विनडोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
316	इंडोटेक सिस्टम्स लिमिटेड	975	सिक्थोर लाइफ इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
317	कोस्मो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	976	रिचइंडिया एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
318	एस्सके प्योर वोल्ट प्राइवेट लिमिटेड	977	द्वारिका क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
319	ओरिट्रॉन मल्टीटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	978	आस्था इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
320	एक्सीलेंस ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	979	नंदीघोष ज्योति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
321	आशाशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	980	रेडियंस क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
322	एसटीजी चिप्स प्राइवेट लिमिटेड	981	ओम मातृशक्ति एस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड
323	आयुष्मान टेलिसर्विस प्राइवेट लिमिटेड	982	माँ तारा तारिणी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
324	एच.पी.माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	983	ग्रोमैक्स इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
325	आइ.क्यू. फोन प्राइवेट लिमिटेड	984	रेड्रिक कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
326	श्री गणपति फाइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड	985	डी.पी.एस. होम्स प्राइवेट लिमिटेड
327	कोणार्क इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	986	कस्तूरी इंफ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
328	जे.बी.एस. ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड	987	सिस्टमेटिक्स विला एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
329	ऐओन स्पेशल विहीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	988	जे.डी. इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
330	राज प्लाई प्राइवेट लिमिटेड	989	संकल्प इंडिया रियलकॉन लिमिटेड
331	रियल ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	990	हैवेन लाइफ रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड
332	एन.एम. एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	991	फ्यूचर सिक्थोर इंफ्रा लिमिटेड
333	तनिष डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड	992	एस.टी.बी. इंफ्रा इंडिया लिमिटेड
334	बिशनदयाल ज्वैल्स कत्तकवाला प्राइवेट लिमिटेड	993	रियल स्टार इंफ्राटेक लिमिटेड
335	श्री ओम ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड	994	स्नेहा हाई-टेक लिमिटेड
336	सुभ्रा रिसाइक्लिंग एंड रिकवरी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	995	भुवनेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेडओडिशा इंफ्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
337	श्री कृष्णा रिकूप प्राइवेट लिमिटेड	996	कॉनकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
338	आयोलाइट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	997	कालोऑस्थेनिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
339	शिर्डी साई पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	998	बी.2एम डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
340	श्री वेंकटेश्वर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	999	द्वारिका माई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
341	प्रगति लक्ष्मी पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	1000	कैबल्या इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
342	रश्मी पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	1001	ड्रीम्सपॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
343	उड़ीसा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1002	बीबीसी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
344	उड़ीसा नेचुरल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1003	अलिवा क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
345	सुनार्क सोलर प्राइवेट लिमिटेड	1004	वंडरलैंड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
346	पलो टेक हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1005	अश्वोरेंस डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
347	सत्य साई ग्रीन बायो पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	1006	अमाघर रियल एस्टेट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
348	कोणार्क एनर्जी एण्ड इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड	1007	जुवन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
349	जयलक्ष्मी बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1008	स्वोभूमि इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
350	लॉर्गन पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1009	आशु इंडिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
351	मार्क्स इंटरनेशनल लिमिटेड	1010	डायनामिक हैबीटेड प्राइवेट लिमिटेड
352	स्वाधीन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1011	पीटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
353	रथ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	1012	स्पैन असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
354	कृष्णा कॉन्ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1013	एफ.आर. हाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड
355	साई श्री इंफ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1014	ग्रो इंडिया फार्म एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
356	सीडा प्लांटेशन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	1015	महावीर इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
357	अपोलो इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1016	भूमार्क एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
358	ईस्टर्न बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1017	ग्रीन लाइफ रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
359	आधार एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1018	जयगुरु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
360	भागवत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1019	ऐकामरा इंफ्राटेक लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
361	टेक मेन्स क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1020	व्यू पाइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
362	बी.एन.बी. डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1021	ड्रीम्स मल्टिप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
363	सैलाश्री बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	1022	फाल्गुनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
364	स्क्वाइन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1023	मैक्रो ड्रीम प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
365	शांति बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	1024	सूर्यदेव हाउसिंग एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
366	एवी इरेक्टर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1025	ओम साई इंफ्रा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
367	फाल्कन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	1026	सैंडलवुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
368	आवास हाउसिंग डेवेलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1027	एच पी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
369	लीलैक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	1028	जेएम ग्लोबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
370	व्यूज एंड विजन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1029	बिजी बी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
371	रिएल्टी प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1030	प्रोपर्टी एक्वायर ग्यारंटी लिमिटेड
372	मैट्रिक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1031	सिस्टेमेटिक इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड
373	प्रमिला कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1032	ब्राइट फ्यूचर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
374	निर्माण रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1033	मैक्स रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
375	खारवेला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1034	एचएमएसपी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
376	इंडो चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1035	बिनय धनलक्ष्मी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
377	श्री अच्युत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1036	स्वोभूमि रियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
378	श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	1037	इंडो चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
379	रियल डेवेलपर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	1038	श्री अच्युत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
380	सूर्यदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1039	श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
381	ब्राइट अल्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डेवेलपर्स लिमिटेड	1040	रियल डेवेलपर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
382	अक्मे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1041	सूर्यदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
383	बिसाखा एस्टेट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	1042	ब्राइट अल्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डेवेलपर्स लिमिटेड
384	श्री प्रभुकृपा कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1043	अक्मे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
385	चित्राका अर्थमूवर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1044	बिसाखा एस्टेट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
386	कृतिका एस्टेट एंड प्रमोटर्स लिमिटेड	1045	वसुंधरा लैंड एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
387	पीकेबी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1046	तेजस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
388	पी.के. बेहरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1047	रॉयल यूनिफ इंफ्रा प्रॉपर्टीज लिमिटेड
389	एमराल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1048	न्यू लीफ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
390	मनोरमा कंक्रीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	1049	ब्लू लाइट एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
391	देवम एस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1050	ओडिशा निर्माण प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज लिमिटेड
392	सुरनाग एंड रीता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1051	नीलचक्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
393	अरुणिमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1052	नूतन ज्योति डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
394	धनुष कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1053	चंद्रिका मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
395	दीवान प्रमोटर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1054	ओरिफ्लस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
396	प्रीति उषा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1055	अमाडोर कंप्यूटर एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
397	सेमैक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1056	अनुबेल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
398	बर्ड्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1057	कंप्यूटर एक्शन प्राइवेट लिमिटेड
399	सृष्टि हाउजिंग एंड हैरिटेज प्राइवेट लिमिटेड	1058	न्यूऑन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
400	व्हाइटपेपर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1059	स्क्वायरएस. इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
401	कलिंगा नर्मन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड	1060	सम सिस्टम्स एंड सर्विस प्रैक्टेस लिमिटेड
402	तारिणी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	1061	आईबीएफ प्राइवेट लिमिटेड
403	पीकेडीबीके इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1062	ईस्टर्न इंडिया बिजनेस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
404	हरप्रिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1063	फास्ट ट्रैक कंप्यूटर्स एंड इंफोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
405	भित्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1064	एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड
406	मां तारा देवी ऑर्चर्ड्स एंड गार्डन प्राइवेट लिमिटेड	1065	सिस्कॉम इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
407	डिवाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	1066	शाइन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
408	भगवती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1067	एबिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
409	स्ट्रेटलाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1068	एसआरएम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
410	राउरकेला बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1069	स्टाल्को कंसल्टेंसी एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
411	अपर्णा कॉस्मोपोलिटन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1070	स्वातिक इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
412	मेशन मल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1071	यूनिफॉर्म रिलेशनल लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड
413	शताब्दी बालुंक्श्वर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1072	सनम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
414	चौबार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1073	कोस्टल यूटीलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
415	केपिटल गोल्डन रेजिडेंशियल एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1074	स्माइल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
416	श्री बालादेवजी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	1075	वैल्यू स्पेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
417	साउल हाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड	1076	कलिंगा टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
418	सुवसत्य प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1077	माइंडक्रक्स प्राइवेट लिमिटेड
419	पुरुषोत्तम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1078	वेबब्रेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
420	अलिवा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1079	बीएसएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
421	शाकम्भरी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1080	वेव ओपेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
422	लैंडमार्क्स इंफ्रा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1081	आरैस सॉफ्ट्सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
423	श्री सैंड्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	1082	स्टेडफास्ट इंफोटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
424	ट्राइडेंट प्रॉपर्टीज उड़ीसा प्राइवेट लिमिटेड	1083	कर्मा स्ट्रेटेजीस प्राइवेट लिमिटेड
425	शिवशक्ति इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1084	तृष्णा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
426	वैदिक मल्टीप्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड	1085	प्राची सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
427	ट्रेंड अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1086	ए-1 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
428	आरोहन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1087	राकॉन्सिस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
429	क्रिएटिव इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1088	शिरडी प्रशांति एकेडमी ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
430	ऑरिसन इंजीनियर्स उड़ीसा प्राइवेट लिमिटेड	1089	वी. नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
431	क्लोरोफिल इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1090	रीगल इंफोवेज प्राइवेट लिमिटेड
432	महादेव कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1091	जेपीएस टेकवेब प्राइवेट लिमिटेड
433	साई दिवनसिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1092	वेबटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
434	मिडासटच प्रॉपर्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	1093	एडॉक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
435	बाबा अखंडलामणि इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1094	एस. ए. जेनेक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
436	नीलांचल मनोरमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1095	बिनीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
437	ओडिशा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1096	भूमिसुत कम्प्यूटर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
438	स्वीट होम इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1097	एक्यूएस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
439	श्री माँ होम प्राइवेट लिमिटेड	1098	कंवोसॉल्यूशंस इंफ्रासिस प्राइवेट लिमिटेड
440	रुद्राक्ष इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1099	एबिस्को सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
441	जयश्री होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1100	ट्रेजटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
442	ओम साई एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	1101	यूपीबीटी सिस्टम्स सॉल्यूशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
443	माँ कालुआसुनी रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1102	टेक्निका सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
444	ग्रोइंग ग्लो रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड	1103	कनक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
445	उमेश अर्थमूवर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1104	एल्टेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
446	रेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड	1105	सिल्वरडेल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
447	स्पेसीमेंस रियल्टी लिमिटेड	1106	जीएस इंफोकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
448	इनोवेटिव होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	1107	थिंक आइडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
449	सोहो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1108	अम्मा भगवान नेटवर्क सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
450	ऑरिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1109	एलिगेंट इंफो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
451	आर. सी. एस. इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1110	3—डी विजार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
452	ओम आदिदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1111	शीतल टेक्नो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
453	प्रधान रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1112	कोस्टल बेल्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
454	घर बाहर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	1113	कनक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
455	बाबामणि एस्टेट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1114	मार्कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
456	उड़ीसा मल्टीप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1115	एप्लाइड बाइनरी प्राइवेट लिमिटेड
457	जसोधरा इंफ्रासेक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	1116	मास्टरब्रेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
458	सिधेश्वर इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1117	नेकटोन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
459	गणपति ईस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1118	रेडियस टेक्नोसिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
460	डी. एस. इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1119	आइ—सोल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
461	एस. एस. रियलकॉन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1120	शेमेलियन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
462	द्वारिका माई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1121	इनोवेटर्स लैब प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
463	दादरीवाला ईस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1122	वैबपयूजन कन्सल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
464	अरुंदति इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1123	फ्यूचर-जेन इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
465	वैष्णो माता इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1124	कैप्टिवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
466	बिनोदिनी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1125	इटरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
467	उत्कल भारती रियलकॉन लिमिटेड	1126	एडिबास टैक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
468	परिच्छा इंफ्राकॉन लिमिटेड	1127	ब्लूबेरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
469	साई श्रद्धा बिल्ड-टैक इंटरनेशनल लिमिटेड	1128	आइ. डी. डी. सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
470	शाइन इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड	1129	पिपलवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
471	एस. बी. एस. एस. डेवेलपर्स लिमिटेड	1130	पैम वेब इंफोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
472	बसुंधरा इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड	1131	आइडिया इंफो बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
473	वैष्णोदेवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1132	शाइन इंटेलीजेंस प्राइवेट लिमिटेड
474	समलेश्वरी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1133	साहू एजु-कम्प्यूटेक एंड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
475	रेलियंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1134	ए5 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
476	सूर्य निर्माण रेसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड	1135	वोट्रा ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
477	सिल्वन डेवेलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1136	सोलोकॉन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
478	पंचसखा इंफ्राडेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1137	हग्रेसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
479	पी. एस. इंफ्रा क्रिएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1138	फिडलवूड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
480	फाल्गुनी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1139	टेक्मेटिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
481	सिद्धी साई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1140	सॉफ्ट एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
482	मिडलैंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	1141	इरेने डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
483	गुरुस्वामी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1142	चेंजर्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
484	उड़ीसा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1143	टेक ऐड इन्डिया इंफो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
485	सिबाशक्ति ईस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1144	प्रोटोजेनिस्ट इंफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
486	ओम साई श्यामा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1145	एल्बस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
487	ग्रीन पैरडाइज इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1146	इंटेलीजेंस वर्टिकल्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
488	श्री कृष्णा हैबिटेड्स प्राइवेट लिमिटेड	1147	स्विफ्टलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
489	नव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1148	दि वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
490	इवोकॉन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1149	नंदिनी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
491	महिमा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1150	जे. बी. सी. सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
492	पी. जी. इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1151	युबोरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
493	एस. एच. पी. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1152	आइ. वी. वाई. स्क्राइब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड
494	लक्ष्य इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1153	मेमन इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
495	एस. डी. आर. कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	1154	एस. एस. एस. बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
496	श्रीखेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1155	जुआन बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
497	माइक्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1156	गो ग्रीन एनवायरन्मेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
498	ए. एस. एन. इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	1157	कलिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
499	अपना सपना रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	1158	एमेजॉन ट्रांस मार्कॉन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
500	साई किशोर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1159	चौधरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
501	ताराकल्याणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1160	दाद रिसर्च एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
502	प्योर लैंड इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	1161	टी. क्यू. एम. कंसल्टेंसी सर्विसेज (उड़ीसा) प्राइवेट लिमिटेड
503	निर्वाण मल्टी-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1162	यूनाइटेड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
504	प्रीशियस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1163	एस. एम. एस. कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
505	ऑक्टागॉन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	1164	ग्रेसल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
506	सुबर्णा इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1165	टाइमलाइन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
507	माता दी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	1166	इनोवेटिव सलूशन एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
508	बांदुर्गा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	1167	मेकवे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
509	मैलिमो बाणदुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1168	फिनकॉन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
510	ओडिशा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1169	रैम एंड मायैग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
511	प्रभु प्रसाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1170	मिशन इंडिया प्रोफेशनल सर्विसेज लिमिटेड
512	जीटी इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1171	वाइसमैन कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
513	रिच होम्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	1172	एस एम कॉग्लोमेर्ट प्राइवेट लिमिटेड
514	संकर बिल्डलर्स प्राइवेट लिमिटेड	1173	बजरंगी कंसल्टिंग (प्राइवेट) लिमिटेड
515	वंडर इंफ्राप्रोजेक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड	1174	कुमार मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
516	मिरेकल होम्स इंफ्राप्राइवेट लिमिटेड	1175	ओम आईमैक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
517	लक्ष्मी नरसिंहा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1176	एबी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
518	साई नाथ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1177	स्पर्श केयर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
519	लक्ष्मीधर मोहंती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1178	डेकन केयरलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
520	सरला इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1179	प्रीतम कुमारी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
521	जेआर 8 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1180	रॉयल प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड
522	वर्सोआ निर्माण एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड	1181	शास्त्री सिक्थोररिटीज एंड मैनेजमेंट लिमिटेड
523	जीईओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1182	एसआर मल्टीफेसेट्स प्राइवेट लिमिटेड
524	काठोरी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	1183	सुमन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
525	सखी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1184	स्कूप कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
526	जय संतोषी मां इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1185	लिनॉन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
527	साई श्री डिजाइनर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1186	एनएलएफ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
528	भरोसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1187	भुवनेश्वर कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
529	वर्व इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1188	मां सरला फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
530	प्रतीक्षा इंटरप्राइजेज एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड	1189	बिनोदिनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
531	आरोहन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1190	फिनकॉन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
532	बीएन इंफ्रासर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1191	नागेन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
533	क्रोम इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1192	5 एलिमेन्ट्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
534	दिवनसिटी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1193	अभिनव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
535	प्रचुर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1194	जोश इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
536	एसएसएस इंफ्राकॉन लिमिटेड	1195	सुरक्षा बिकाश इंडिया फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड
537	समृद्धि इंफ्रा प्रॉपर्टीज लिमिटेड	1196	एसओएस सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
538	ईएफएल इंफ्रा लिमिटेड	1197	उत्कल फाइनेंशियल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
539	शाहजी उद्योग लिमिटेड	1198	आरती डेवलपमेंट कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
540	कृतिबिभा कॉरपोरेशन लिमिटेड	1199	ग्रीन इंडिया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
541	ऑस्कर इंफ्राडेवलपमेंट लिमिटेड	1200	क्रीडन्स वेल्थ सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
542	शुभज्योति रियलकॉन सर्विसेज लिमिटेड	1201	अभ्युदय कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
543	मिडईस्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1202	एंटायर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
544	सनपलावर वेंचर्स लिमिटेड	1203	निपटी रिसर्च ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
545	सालसर इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	1204	बटरफ्लाई मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
546	स्प्रिंट इंफ्रा लिमिटेड	1205	क्वीरडा टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
547	केकेडीआईएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1206	जेनिथ फेसिलेटर प्राइवेट लिमिटेड
548	रियल विजन कर्मिशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1207	यू-मैक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
549	आर्गेव कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1208	अरबिंदो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
550	एसपी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1209	ब्राइट इंडिया मल्टी सॉल्यूशंस लिमिटेड
551	जयगुरु कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1210	विजन कंट्री वाइडसर्विसेज लिमिटेड
552	पतितपावन रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1211	ग्रीन माउंटन फंडमैनेजमेंट लिमिटेड
553	अविघ्नम देव इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1212	लिवेल मर्चन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड
554	बिराज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	1213	साई अमृत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
555	बारी रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1214	ट्रांसटेक रिसोर्सिज प्राइवेट लिमिटेड
556	पद्मकेशरी एस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1215	टोश कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
557	मार्टिन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1216	गुडविल सर्वैयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
558	दास बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1217	शांति जीवन सेवा प्राइवेट लिमिटेड
559	अरुपमा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1218	प्रीमियम कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
560	साई मेन्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1219	सास्वत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
561	ओडिसिस इंफ्रा-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1220	साईकृष्ण मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
562	भरोसा इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1221	सी नेक्स्ट इंफोमार्टिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
563	इनोवेटिव इंफ्रा-प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	1222	फ्लोरेस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
564	पी क्यूब बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1223	सामंतराय एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
565	ग्रोइंग ग्लोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1224	गोलाइफ कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
566	साई सिमरन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1225	अपेक्स रियलिटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
567	एसआरएस इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1226	जेम्स फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
568	ऑप्लिसिटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1227	न्यूजेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
569	स्मृति होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1228	ऑरिआर्क प्राइवेट लिमिटेड
570	लॉर्ड्स हाऊसिंग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1229	अलाइंस कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
571	कार्टाइन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	1230	एस.बी. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
572	इस्टर्न इंडिया इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1231	ट्राइपावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
573	आदिबिकाश क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड	1232	उत्कल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
574	यूनीकोर रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1233	इंडोकॉन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
575	नवदुर्गा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	1234	जीरोएमएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
576	मुद्रांक इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	1235	मनोरमा एनडीटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
577	सूर्यशुभ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	1236	एडलाइफ इवेंट एंड एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
578	आरडीपीएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1237	एड मेकर्स एंड पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
579	साईश्याम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1238	जी.एस. मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
580	लक्ष्मीनारायण इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1239	141एवेन्यूज एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
581	भित्तिभूमि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1240	साइनेज ऑन स्ट्रीट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
582	एस.एस.पी.एल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	1241	एक्जीजिटेट एडवर्टाइजिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड
583	श्री रघुवीर इंफ्राप्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	1242	विज्ञापन एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
584	इग्लोविन इंफ्राकॉन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1243	शारदा सबुरी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
585	अरुनिका इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1244	ऑफोज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
586	एस्पाकयर इंफ्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1245	मानआर्ट रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड
587	सिन्धूट एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1246	बोन्जाटई टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
588	अल्फा इंफ्रामैटिक प्राइवेट लिमिटेड	1247	करियर क्राफ्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
589	भुवनेश्वररी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1248	हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
590	एडीए कंसल्टेंसी एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1249	मेकफिट (इंडिया) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
591	गैलेक्सी इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड	1250	वरी सिक्योरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
592	गणपि इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1251	उम्फ सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
593	सैज वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1252	साहू एंड साई कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
594	बगलामुखी रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड	1253	सत्य साई कॉरपोरेट एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
595	अचुत्य एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	1254	आशिमा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
596	ग्रीन आर्च कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1255	दिव्याशी सेन्टिल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
597	भुवनेश्वरी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1256	जीनियस कैरियर कॉल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
598	शिक्षा वर्क्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1257	मिडिलईस्ट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
599	श्री इंफ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड	1258	मेगाट्रेंड कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
600	साई किशोर हैबिटेड्स प्राइवेट लिमिटेड	1259	लॉर्ड्स सिक्थोरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
601	अरमान इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1260	निशा सिक्थोरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
602	ग्रिशेश प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1261	ब्रिस्ट कंस्ट्रक्टिंग एंड सिक्थोरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
603	रॉयल हिन्दुस्तान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1262	क्वॉन्टम अलाइड सिक्थोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
604	सम्भावी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1263	डॉग्स एंड डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड
605	मैक यूनीटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	1264	परमवीर इंटेलीजेंस सिक्थोरिटी प्राइवेट लिमिटेड
606	दिवनसिटी सिटी इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1265	रिजॉल्यूट सिक्थोरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
607	शाताब्दी मल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1266	साईश्री इंटेलीजेंस सिक्थोरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
608	रिसव एस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1267	एक्शन इंटेलीजेंस एंड सिक्थोरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
609	जेएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1268	प्रधान डाइविंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
610	एस.एस. रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	1269	स्नशाइन मल्टी सर्विसेज लिमिटेड
611	ओमश्री इंफ्रासॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1270	केजी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
612	आराध्य प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1271	नॉलेज इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड
613	ओम डिजाइनर्स एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	1272	व्हाइट मिशन मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
614	जेएन इंफ्रा-होम प्राइवेट लिमिटेड	1273	लाइफ्टच कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड
615	ग्रीन रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1274	टेक्नो सॉफ्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
616	लॉर्ड जगन्नाथ इंफ्रा-होम प्राइवेट लिमिटेड	1275	एलेन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम्स लिमिटेड
617	बालभद्र कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1276	लर्ननेक्स्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
618	मिडास इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1277	जेबीसी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
619	अक्षरा इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1278	एजैक्स टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
620	लीयर इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	1279	राज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड
621	महिमा लौंडमार्क प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1280	एक्सपर्ट चाइल्ड इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
622	उदयादित्य ईपीसी प्राइवेट लिमिटेड	1281	पॉजिटिव करियर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
623	भूराज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1282	इनोवेटिव नॉलेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
624	गौतम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1283	ए पल्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड
625	माइक्रो हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1284	ग्लोइंग किड्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
626	साई समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड	1285	ईअन हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
627	सम्पर्क प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	1286	बीजीआर मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
628	पूर्णमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1287	राऊरकेला सिटी हॉस्पिटल एंड डाइग्नॉस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
629	आस्था इंटीरियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1288	पांडा नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
630	सौदामिनी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1289	पॉपुलर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
631	शोभन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1290	हेल्थ प्रो मेडिकल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
632	जीएस मेट्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड	1291	पद्मजा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
633	कुबलायम इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	1292	माइक्रो हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
634	मनोरमा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	1293	श्री जगन्नाथ फार्मा एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
635	टेरेस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	1294	डेल्टा स्कैन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
636	एक्सलेंट एस्टकोन प्राइवेट लिमिटेड	1295	गैलेक्सी सेव नेचर प्राइवेट लिमिटेड
637	शुभलाम इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1296	स्टूडियो वॉइस मास्टर प्राइवेट लिमिटेड
638	सैममेन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1297	अनयंत प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
639	संपूर्ण एफ2आर मेट्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड	1298	प्रतीक सिने प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
640	एस.के.डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1299	ड्रीम्स-दारुब्रम्हा एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
641	श्रीकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1300	माइक्रो फिल्म्स एंड एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
642	रेयान कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड	1301	ग्रीन इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
643	जीएस इंफ्राप्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1302	दारुब्रम्हा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
644	सीआरटी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड	1303	बीआर क्रिएटिव आइज प्राइवेट लिमिटेड
645	गोविंदा चौधरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1304	एंजल बी मीडियाज प्राइवेट लिमिटेड
646	जेपी कंस्ट्रक्शंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1305	इनोवेटिक्स टेली एंटरटेनमेन्ट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
647	एचकेपी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	1306	अपूर्व एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
648	प्रीमियर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड	1307	वॉक्स विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड
649	रे इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1308	एसएलबी मीडिया एंड एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
650	एससीएस रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1309	टी. शौरी एंटरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
651	डीके होम्स प्राइवेट लिमिटेड	1310	ओडिशा इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
652	मीटिरियर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	1311	कोर्णाक टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड
653	रघु वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1312	कलिंग गणनाट्य प्राइवेट लिमिटेड
654	शाहजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टीप्रोजेक्ट लिमिटेड	1313	सबारा श्रीक्षेत्र मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
655	सोवामेक इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	1314	सिद्धि मीडिया (प्राइवेट) लिमिटेड
656	मारवाह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1315	गोलप इंफोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
657	मनोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1316	स्मलेश्वरी स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
658	मोहंती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1317	थर्ड आई इंफोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
659	भगवती प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1318	एलिंगेंट इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
		1319	क्लिफोरक्स स्ट्रैजीज प्राइवेट लिमिटेड
		1320	पालिनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
		1321	फिजियोफिट प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	क्र. सं.	कम्पनी का नाम
		1322	मोडेन्ट एन्टीना प्राइवेट लिमिटेड
		1323	होटल नंदीघोष प्राइवेट लिमिटेड
		1324	उमेश होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हो, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कथित कंपनी का विघटन किया जाए।

2. यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

ह/—अपठनीय
कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय—सह—आधिकारिक परिसमापक,
उड़ीसा

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 248 के उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी

(कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना)

[नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

शिलांग-793001, तारीख 7 मार्च 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 248 (1) के तहत मैसर्स निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में।

सार्वजनिक सूचना सं. 01/108, 1. यह नोटिस दिया जाता है की कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि

(i) निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ नहीं किया है,

शून्य

(ii) निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्त वित्त वर्ष में कोई कारोबार या संचालन नहीं किया है और इस अवधि के भीतर धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति पता करने के लिए कोई आवेदन ही किया है।

सूचि संलग्न

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लेखित कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक आशय कारण न हो, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कथित कंपनी का विघटन किया जाए।

(2) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लेखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
1	U51909AS2012PTC011177	ए फ सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	U26941AS2008PTC008773	ए जी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3	U45201AS2008PTC008890	आमरित आभिलास इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	U85110AS2009PTC009023	आश्रय हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
5	U01132AS1980PTC001859	अभोयपुर टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
6	U01403AS2010PLC010334	अबोनारी अग्रोटेक लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
7	U01132AS2010PTC009837	एस प्लानटेसंस प्राइवेट लिमिटेड
8	U22130ML2012PTC008516	अचिक मीडिया पब्लिशिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U51103AS2012PTC011157	एडलरिकों इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
10	U45201AS2011PTC010430	एगापे काँसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
11	U70100TR2011PTC008329	अगरतला प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U45201AS2012PTC011196	आइमी बरुआ मल्टीटाड प्राइवेट लिमिटेड
13	U40109AS2011PTC010688	आइ-सम एनर्जी एंड नचुरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
14	U01400AR2010PTC008291	अजित ट्रेड कॉन प्राइवेट लिमिटेड
15	U01132AS2001PTC006425	आकांश टी प्लानटेसंस एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909AS2007PLC008350	अकोटा कमर्सियल लिमिटेड
17	U24233AS2010PTC010179	एलन जे जी कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
18	U93000AR2010PTC008311	अल्पाइन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909AS2002PTC006988	अम्बिका सप्लाई एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	U55101AS1987PTC002669	अमृत होटल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
21	U40101AS2007PLC008429	अमृत प्रोजेक्ट्स (एन ई) लिमिटेड
22	U31503AS1998PTC005416	अनंता काँसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
23	U24119ML2000PTC006129	एंड्रसन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
24	U15142AS1983PLC002034	असम वेजिटेबल एंड ऑइल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
25	U70100AS2009PTC008932	अविवि रियल टर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
26	U72900AS2011PTC010672	बी. एम. डी. सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
27	U24242ML2003PTC007035	बालजी कैडल्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U52100AS2011PTC010814	बालजी ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U70101AS1986PTC002483	बासदेव होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U20296AS2012PTC011027	बासुएमतारी बेम्बों मेनुफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	U15490AS2012PLC011225	बेस्ट बुओय प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
32	U72200AS2000PTC006230	भाबानी प्रेस एंड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U45209AS2010PTC010230	भगवती इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
34	U45202AS2008PTC008697	वृगु इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U01132AS2006PTC008081	भूरा टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
36	U45201AS2007PTC008544	भुईया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
37	U45209MN2012PTC008308	बीजोय एंड संस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
38	U74140AS2009PTC009496	बीकाश अडवाइसर्स एंड कनसालटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U74140AS1995PTC004602	बीओस्क टेकनालजी मेनेज़एम्ईएनटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
40	U51909AS2010PTC010133	बीसन एन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
41	U70101AS2009PLC009267	बीसन रीयल इस्टेट्स एंड काँसट्रक्शंस लिमिटेड
42	U45201AS2010PTC009819	बीएल इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
43	U93090AS2011PTC010630	ब्लैक कैट फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
44	U60231AS2012PTC011236	ब्लैककैट कार्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U72200AS2011PTC010463	बोधि ट्री सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U45202AS2007PTC008448	बोनश्री प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U40101NL2011PTC008294	बूस्ट पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
48	U01132AS2000PTC006149	बोर्नवीरिया टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
49	U64203AS2011PTC010682	ब्रॉडबैंड नेट्सर्विक्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U70102AS1998PTC005592	बड्स कृएशन प्राइवेट लिमिटेड
51	U70101AS2002PTC006735	बील्डमैक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
52	U51909AS2011PTC010625	चंदा कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
53	U70101AS1989PTC003232	चिंग-लाई काँसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
54	U65929MN1998PTC005544	सिटी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कॉ प्राइवेट लिमिटेड
55	U74900AS2011PTC010703	क्लीयरविन टेकनालीजीस प्राइवेट लिमिटेड
56	U74140AS1986PTC002598	कनटेमप्ररी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U15490TR2008PTC008252	कुक्वेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
58	U72200AS2012PTC011190	कॉरपोरेट कैफे वेनचर्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U51109AS1994PTC004126	डी जे एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U74300AS2011PTC010493	डी मीडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
61	U45201AS2010PTC010031	डी. ब्राह्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
62	U22121AS1988PTC003016	दैनिक असम प्राइवेट लिमिटेड
63	U50102AS2011PTC010409	डार्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U11100AS2012PTC011161	डीडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
65	U13200ML2011PTC008472	देवदूत मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U15137AS2010PTC010201	दे इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
67	U15491AS1993PTC004011	धनश्री एग्री एंड लईभ स्टाक कॉ प्राइवेट लिमिटेड
68	U85100AS2012PTC010984	डॉ. हजारीका एंड गोस्वामीज क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड
69	U01132AS2000PTC006367	दुवारा टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
70	U15137AS2012PTC011029	डुबोरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U70101AS2004PTC007582	ड्यूकडी रियल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
72	U55101AS1997PTC005122	ईस्टर्न बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
73	U10100ML2010PTC008435	ईस्टर्न कार्बन एंड अलाएड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U14200AS2012PTC011040	ईस्टर्न हिल्स ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
75	U22121AS2007PTC008388	इकलेक्ट्रिक मीडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
76	U22110AS2009PTC009038	एलीमेंटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
77	U85110ML2010PTC008401	इमेरेंसिया कि.एम्प पिंगरोप मेमो रियल होस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
78	U85110MN2009PTC008246	एसेण्ट डाइग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U64201AS1988PTC002857	एक्स-सरविसमैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U40109AS2012PTC011199	एक्सिलेन्स ईको रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
81	U63090AS2010PTC010034	एक्सोटिक ट्रिप बुकिंग प्राइवेट लिमिटेड
82	U74910AS2003PTC007105	एक्स-सरविसमैन ट्रेनिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
83	U55101AS2010PTC010219	एफ एंड बी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
84	U45400AS2009PTC009259	फेसीलिटेड इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U85110ML2012PTC008518	फाल्कन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड
86	U01122AS1994PTC004291	फारईस्ट फ्लोरल बैली हर्बेरियम प्राइवेट लिमिटेड
87	U55101TR2010PTC008303	फेलिसीटास हास्पिटालिटी एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
88	U51909AS2012PTC011211	फूजेल मल्टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
89	U74140AS2012PTC011219	जी.आई.एस. जेनुइने इश्योरेंस कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
90	U45201TR2012PLC008360	जी.के.एस. किन्शिप प्रोजेक्ट्स एंड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
91	U15490AS2010PTC009708	जी. टी. फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U70101AS2012PTC011198	जीबीएसए रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
93	U45400AS2009PLC009155	जनरल प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
94	U74210AS1990PTC003393	जियो टेक प्राइवेट लिमिटेड
95	U74210AS2005PTC007739	जिओटेक एंड सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
96	U80301AS2006PTC008276	जीआईटी इंस्टिट्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
97	U51909AS2012PTC011167	ग्लिट्ज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
98	U51909AS2012PTC011049	ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
99	U92140AS2004PTC007580	ग्लोरिया फ़न ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड
100	U01100TR2011PTC008327	गोमती अग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U01132AS1994PTC004149	गूड्रिच टी कॉ प्राइवेट लिमिटेड
102	U72200ML2012PTC008513	गो'स अस-समद आईटी प्राइवेट लिमिटेड
103	U01132AS2000PTC006294	ग्रीन आसाम टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
104	U45201AS2009PTC008994	ग्रीन इंडिया कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
105	U63040AS2012PTC011188	ग्रीन प्लानेट टूर्स और ट्रेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U27107AS2010PTC010076	एचसी कौरो एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
107	U30007NL1998PTC005483	हाई टेक वी प्राइवेट लिमिटेड
108	U65921MN1988PTC003076	हाई टेक ऑटो फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
109	U74999NL2011PTC008301	एचएन बिजनेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
110	U45201AS2009PTC009071	हाँलि स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
111	U70109TR2010PTC008316	होमटाउन प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
112	U52590MZ2010PTC008257	हनीकॉम् एजेंसिज़ और मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
113	U70109AS2009PLC008964	हनीकॉम् इन्फ़ोकॉन लिमिटेड
114	U55101TR2000PTC006334	होटल सिमरन प्राइवेट लिमिटेड
115	U74992AS2012PTC011038	एचआरडी कमर्शियल & इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी फ़ोर्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U45202AS2006PTC008285	इमेज इंजीनियर्स एंड कौंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	U74140AS2012PTC011234	इन्टिग्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
118	U13209ML2010PLC008427	इट्कोल हेड्रोकार्बन लिमिटेड
119	U13209ML2010PLC008423	इट्कोल मिनरल्स लिमिटेड
120	U45201AR2012PTC008370	जे. सोनम कौंसल्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
121	U70101AS2009PLC009217	जनरक्षा रियल एस्टेट लिमिटेड
122	U36912AS2012PTC010992	जनसारोथी बुल्लियान्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U70101AS2010PTC010239	जनसारोथी रियल एस्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
124	U51909AS2010PTC010246	जनसारोथी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U70101AS2011PLC010821	जनशक्ति रियल एस्टेट एंड एग्री फार्म्स लिमिटेड
126	U67190AS2010PTC010322	जसोदा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
127	U01132AS1992PTC003687	जेस्पर टी प्राइवेट लिमिटेड
128	U70101AS2011PTC010515	जयश्रीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U51109AS2002PTC006860	जयश्री एंटेड प्राइवेट लिमिटेड
130	U14200AS2008PLC008752	जीवन धारा जिओमाइन लिमिटेड
131	U51109AS2007PTC008336	जीवन संचय सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
132	U45201AR2010PTC008320	जर्मिन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
133	U45209AR2012PTC008368	जिगॉम हिरी एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
134	U45201AS2010PLC009595	जीवन पारीवर्तन रीयल मार्क लिमिटेड
135	U63000AS2011PTC010435	जस्टयात्रा हालिडेज़ एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
136	U51109AS2000PTC006264	के डी मार्केटिंग्स एंड वेरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
137	U45201AS2010PTC010281	के.के.एस. वेनचर्स प्राइवेट लिमिटेड
138	U55101MN2012PTC008309	काई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
139	U45203AR2012PTC008358	काकुम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U15400AS2012PTC011209	कल्पाद्रुम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U40101NL2010PTC008273	क्रेप कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
142	U45203AS2010PTC010184	कासिंग काँस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
143	U01132AS1986PTC002511	काजीरंगा टी एंड जनरल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
144	U52590AS2011PTC010439	केडीटी ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U14200ML2011PTC008488	ख्वाक़ीला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U45201MN2011PTC008282	कुमैन कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
147	U72200MN2012PTC008299	कोक सैम लाई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
148	U01132AS1992PTC003827	केपीसी प्लांटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
149	U72100ML2006PTC008087	कुबेर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
150	U51101AS2012PTC011186	लाई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
151	U92412ML2010PTC008448	लान्क्वींग स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड
152	U17290AS2008PTC008766	लक्ष्मी टेक्स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
153	U01403TR2010PTC008290	लेगसी एन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
154	U50103AS2010PTC010010	लियोन व्हील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
155	U65921MZ2007PLC008236	लार्सिया फॉर्च्यून फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
156	U70100AS2011PTC010547	लाइफ केयर रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
157	U70101AS2012PLC011165	लाइफ सुरक्षा रीयल्टी इंडिया लिमिटेड
158	U51223AS2003PTC007123	लोहित मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
159	U20296TR2012PTC008341	लॉग्राई हसुक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
160	U51909MN2011PTC008275	लुक ईस्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
161	U85110AS2005PTC007967	लुमिनस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
162	U50102AS2012PTC011222	एम जी टी मोटर्स (ऑटो मोबाइल्स) प्राइवेट लिमिटेड
163	U45202AS2010PTC009961	एम आर इन्फ्रासोर्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U45201AS2009PTC009122	एम. टी. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
165	U52100AS2011PTC010779	माँ कामाख्या कोल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
166	U41000AS2012PTC011226	मेडएशिया एक्का एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
167	U92100AS2010PTC009828	माधुपुर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
168	U55101ML2008PLC008330	माय हांटल्स लिमिटेड
169	U45400AR2012PTC008350	माज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
170	U15500ML2010PTC008400	मखन भोग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
171	U01132AS1996PTC004774	मालाबरी टी कॉ प्राइवेट लिमिटेड
172	U75112MN1995ULL004418	मणिपुर स्टेट बुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
173	U55101ML2008PTC008338	मार्बल आर्च होटल प्राइवेट लिमिटेड
174	U51109AS2007PTC017456	मारुभूमि एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
175	U74900AS2010PTC009914	माजेल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
176	U51909AR2003ULT007236	मीना एंटेड एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
177	U45201AS2010PTC010271	मीरा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
178	U74140AS2010PTC010205	मेघ लेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
179	U01403ML2011PLC008455	मेघा शाइन एग्री कंपनी लिमिटेड
180	U28999ML2005PTC007955	मेघालया पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U14200ML2011PTC008478	मेघालया रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
182	U45202AS2010PTC009860	मेकॉन्ग इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
183	U72200AS2011PTC010535	मेरीलुक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
184	U70101AS2012PTC011031	एमएच एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
185	U51900AS2012PTC011204	माइक्रोवॉल्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
186	U74999AS2012PTC011139	माइण्ड्स आई सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
187	U45209AS2010PLC010200	मॉनिटर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
188	U45201AS2012PTC011173	मून लाइट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
189	U92141AS1994PTC004131	मूनलाइट सर्कस कॉ प्राइवेट लिमिटेड
190	U28930AS2010PLC010204	मूनलाइट यूटेंसिल्स लिमिटेड
191	U70101AS2012PTC010955	एमपीआर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
192	U45201AS2010PTC009875	नवक्रिस्ट कोंसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
193	U70101AS2012PTC011050	नामेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U24233AS2002PTC006877	नैचुरल फर्मा प्राइवेट लिमिटेड
195	U45201AS1993PTC003914	एनईएसी असम प्राइवेट लिमिटेड
196	U60210AS1995PTC004335	एनईएसी असम प्राइवेट लिमिटेड
197	U55101AS2012PTC011200	नेटवर्क लॉजिज़ प्राइवेट लिमिटेड
198	U25209AS2012PTC010909	न्यू एरा पांली-टेक प्राइवेट लिमिटेड
199	U52399AS2012PTC011241	नोमोलीघर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U27100AS2010PTC010241	नॉर्थ बंगाल एलोयस प्राइवेट लिमिटेड
201	U51909AS2011PTC010675	नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेनेरस डेवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
202	U66000TR2009PTC008266	नॉर्थ ईस्ट इन्शुरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
203	U74900NL2011PTC008293	नॉर्थ ईस्ट नागा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U63040AS2011PTC010443	नॉर्थ ईस्ट नेचर ट्यूरिस्म प्राइवेट लिमिटेड
205	U72200AS2012PTC010998	नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
206	U24232AS2010PTC009746	नोवा लाइफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
207	U80903AS2010PTC010109	एनआरडीएस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
208	U85110NL1993PTC003998	ओकिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड
209	U51909AS2011PTC010379	ओक्कस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
210	U80903AS2012PTC011155	ओलंपस एजुकेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
211	U45203AS2012PTC011220	ओमश्री गणेश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
212	U14107ML2001PTC006458	ऑप्टोमॉक्स कैल्शियम कैल्सिनेट प्राइवेट लिमिटेड
213	U01403AR2009PTC008286	पी. एपूम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
214	U45201AS2011PTC010740	पादमानवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
215	U70101AS1986PTC002486	पन्ना प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
216	U74920AS2008PTC008841	पार्क इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
217	U14200AS2012PTC011152	फाइसर नैचुरल रीसौरसेज प्राइवेट लिमिटेड
218	U70101AR2012PTC008372	पाइनलैंड रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
219	U45209AR2011PTC008344	पाइनमाउंट रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U45209AS2012PTC011210	पिंगुश रीयलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
221	U51101ML2012PLC008514	प्लुटस सिसवेस्ट लिमिटेड
222	U24292ML2008PTC008324	पोद्दार एक्सपो-सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
223	U01121AS2007PLC008366	पोलर कृषि-विकास लिमिटेड
224	U01119ML2012PTC008502	पोटेन्शियल एग्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
225	U01132AS2012PTC011081	पीपीएस एस्क्रायर्स टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
226	U45201AS2009PTC009106	प्रभाकर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
227	U92419AS2010PTC010095	प्राग ज्योति एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
228	U55101AS2010PTC010138	प्राज्ञ फीड एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड
229	U51909AS2010PTC009587	प्रसस्ती मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
230	U63090AS2012PTC010925	प्रतीक मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
231	U70101TR2012PTC008355	प्रेरोना अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
232	U52100AS1995PTC004511	प्रिया सप्लायर्स & कांटेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
233	U74900AS2010PTC010227	पूर्णमा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
234	U45201AS2011PTC010614	आर डी एन एम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
235	U75200MN2011PTC008285	आर आर विजिल सिस्टम एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
236	U05004AS2003PTC007216	आर एंड के फिशिंग एंड एग्रो-वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
237	U24100AS2012PTC010973	आर एस ट्रेड एंड कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
238	U01132AS1972PTC001390	राफियूला टी एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
239	U40101AR2010PTC008297	राहुल एनर्जी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
240	U51909AS2012PTC010915	राज टेक एंजेंसिज प्राइवेट लिमिटेड
241	U26959ML2007PLC008283	रटोंग सीमेंट लिमिटेड
242	U70101NL2012PLC008324	रियलिस्म डेवलकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड
243	U70101AS2012PTC010962	रियल्टी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
244	U51103AR2012PTC008369	रियल्लेज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
245	U85100AS2010PTC010174	रेई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U70101AS2012PLC011208	रिवरी रीयलकॉन इंडिया लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
247	U72200AS2005PTC007949	राइनो इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड
248	U51909ML2003PTC007049	री भोई ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
249	U01400TR2010PTC008311	रिगलिया ईको एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
250	U74120AS2010PTC009840	रिस्ता पॉइंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
251	U55101AS2009PTC009426	रिवेरा रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड
252	U70101AS2012PTC011169	रुद्राक्ष प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
253	U51909AS2012PLC011181	रूपोशी मार्केटिंग लिमिटेड
254	U74140AS2012PTC011229	आरबीजी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
255	U45201TR2010PTC008299	एस बी एम इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
256	U15490NL2011PTC008296	एस.डी इफ्रा मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
257	U15541AS2012PTC010995	एस. एन. फूड्स एंड बेवरेज्स प्राइवेट लिमिटेड
258	U50102AS2012PTC011159	एस.आर. लक्ष्मी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
259	U66000AS2011PTC010507	सैफेक्स यूनीक इंड्योरेंस मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
260	U14200ML2012PTC008519	सकियात माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
261	U63023ML2003PTC007138	सालसर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
262	U74900AS2010PTC010172	समृद्धी प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
263	U51395AS1985PTC002459	संगीता मुजिक प्राइवेट लिमिटेड
264	U70101AS2011PTC010470	संजीव डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
265	U01132AS1988PTC003019	सांती टी प्राइवेट लिमिटेड
266	U45209AS2011PTC010372	सारदा रियल-अक्वोमॉडेशन प्राइवेट लिमिटेड
267	U55101AS1986PTC002623	सर्नाज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
268	U15141AS1982PLC001967	सती ऑइल उद्योग लिमिटेड
269	U65991AS2012PLC011244	सी स्टोन म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड
270	U51909AS2008PTC008683	सीमा कोम्मर्सियल्स प्राइवेट लिमिटेड
271	U01403AS2009PTC009150	सेउजी एग्रोप्रोसेसिंग एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
272	U85110AS2003PTC007091	सेवेन सिस्टर्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
273	U72300AS2012PTC011221	शासॉफ्ट सॉल्यूशनस् प्राइवेट लिमिटेड
274	U93090AS2005PTC007718	शंगूला रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
275	U17122AS2011PLC010353	शान्ति सिल्क एंड क्राफ्ट लिमिटेड
276	U51909AS2010PTC009583	शार्प एंड शाइन मर्केन्टील प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
277	U15541AS2012PTC011187	शेली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
278	U70101MN2011PTC008277	शिजा कंसल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U45309AS1997PTC005198	श्री भारत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
280	U27101AS2008PTC008778	श्री पुनरासर फेरी अल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड
281	U01132AS1999PTC005847	श्री साई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
282	U51909AS2007PTC008436	श्री कृष्णा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
283	U74140ML2009PTC008364	शूक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
284	U60231AS2003PTC007143	सीबा एल्लाड कम्मसीयल्स प्राइवेट लिमिटेड
285	U65929AS1996PTC004887	सिंधा स्टील एंड एप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड
286	U63000AS2008PTC008898	स्मार्टवे सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
287	U70200AS1993PTC003896	सोमन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
288	U51101AS2012PTC011054	स्पार्कलिंग इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
289	U66000AS2009PTC009534	स्पीड राइज़ मर्केडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
290	U51900AS2012PTC010899	एसपीएन मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
291	U45201AS2008PTC008851	श्रीस्टी कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
292	U51109AS2002PTC006784	सुवेव सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
293	U45203AS2011PTC010459	सुकाफ़ा कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
294	U55100AS2012PTC011166	सुप्रतीक प्राइवेट लिमिटेड
295	U70101AS1994PTC004284	सुसारिता होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U26942ML2007PLC008264	सून्गा सीमेंट्स लिमिटेड
297	U10100ML2007PLC008254	सून्गा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
298	U72900AS2011PTC010414	तारगं वाईफ़ाई प्राइवेट लिमिटेड
299	U74210NL2011PTC008306	टेक्स विज़न कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
300	U52399AS2012PTC011180	थाउसंड माइल्स बिजनेस वेनचर्स प्राइवेट लिमिटेड
301	U52590AS2010PTC010343	श्री पिक ट्रेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड
302	U72900AS2010PTC010292	टिग्मा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
303	U01132AR1998PTC005619	टिंगखटरा प्लैनेटेशंस प्राइवेट लिमिटेड
304	U14200ML2010PTC008433	तिरुपति मेघा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
305	U70100TR2011PTC008323	तिवारी विज़नस वेनचर्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U63090TR2008PTC008247	तिवारी लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड

SL. NO.	CIN	कम्पनी का नाम
307	U52208AS2012PTC011164	टाउन वाईन्स प्राइवेट लिमिटेड
308	U01409AR2010PTC008306	टौवसिक ट्राडकन प्राइवेट लिमिटेड
309	U13200ML2010PTC008411	ट्रांसवर्ल्ड्स स्टील्स एंड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
310	U13100ML2011PTC008489	ट्रेसरी आयरन माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
311	U15137TR2009PLC008265	त्रिपुरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
312	U20296TR2010PLC008291	त्रिपुरा नैचुरल फाइवर्स एंड बम्बु लिमिटेड
313	U51909TR2010PTC008289	त्रिपुरा प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
314	U70101AS2012PTC011242	उदयाचल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
315	U51909MN2002PLC006831	यूनाइटेड अरोमा कमर्शियल कंपनी लिमिटेड
316	U51909TR2011PTC008334	ऊषा डे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
317	U22210AS2010PTC009836	उशव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
318	U40101ML2008PLC008308	वी एम पावर्स लिमिटेड
319	U15543AS2012PTC010953	वास्तव एक्का प्राइवेट लिमिटेड
320	U64202MZ2008PTC008237	वीस कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
321	U52399AS2010PTC009821	वेरसाटूस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
322	U64100AS2010PTC009937	व्यू इमेज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
323	U24100AS2011PTC010673	विनायक फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड
324	U15122AS2012PTC011160	विनायक हाईजीन प्राइवेट लिमिटेड
325	U70101NL1999PTC005796	वृंदावन विल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
326	U72300AS2012PTC011178	ज़ेबेक इंफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
327	U74140AS2009PTC009037	यक्रीन सर्विसेज लिमिटेड
328	U22300NL2011PTC008307	वाई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
329	U45202AS2011PLC010717	युबाराज डाइनेस्टी काँसट्रक्शंस & माइनिंग लिमिटेड
330	U70109AS2010PTC010269	युबाराज डाइनेस्टी रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
331	U45201AS2008PTC008636	युबाराज रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

ह/—अपठनीय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मेघालय

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 29th March 2017

No. DP/Pers.I/2017/126/03/143/2014—Shri Sharanjit Singh Sandhu has relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, DSPE with effect from the afternoon of 28.02.2017 on attaining the age of retirement on superannuation.

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Director (Pers.)

The 30th March 2017

No. DP/Pers.I/2017/998/03/147/2014—Shri Desh Deepak has relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, DSPE with effect from the afternoon of 28.02.2017 on attaining the age of retirement on superannuation.

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500052, the 3rd April 2017

No. 15011/10/2017-Estt.—In pursuance of MHA letter No. I-21016/03/2017-IPS-III dated 2.3.2017, Dr. K. Madhukar Shetty, IPS (KTK:99) is appointed as Deputy Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in Level-13A in the pay matrix, on deputation basis for a period of five years with effect from 20th March, 2017(FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation. The officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

D. R. DOLEY BARMAN
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 27th March 2017

No. D.I.02/2006-2016-Pers-DA-8—Consequent upon his selection for induction in SPG on lateral shifting from NSG to SPG on deputation basis for the post of SSO (GD) vide Cabinet Secretariat Order No. A-12011/01/2017-SS dated 08/02/2017 and SPG HQr Fax Message No. 27/B/SPG-Admn/2017(5)-2495 dated 17/02/2017, the service of Shri Shailendra Kumar Upadhyay, AC(IRLA-7910) of 206 CoBRA Bn of CRPF, who was on deputation with NSG are placed at the disposal of SPG w.e.f. 08/03/2017(FN) vide SPG HQr letter No. 28/SPG-Estt/2017/(10)/PF/3663 dated 16/03/2017 for the remaining period of three (03) years, i.e. upto 06th March 2020, as the initial deputation term in SPG is six (06) years, as conveyed vide MHA's CF-3373646/2016 dated 21/12/2016.

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG(Pers)

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 17th August 2016

No. 2540/SP/A-12025/1-Geol/Notification/2011/19A—The President is pleased to appoint Shri Navin Rawat (Emp. ID: 122040) to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band – 3, Rs. 15600 – 39100/- with Grade Pay Rs. 5400/- in a temporary capacity with effect from 10/12/2015 (FN) until further orders.

A. K. MONDAL
Asstt. Director (P & A)
for Director General

The 23rd August 2016

No. 2553/SP/A-12025/1-Geol/Notification/12/19A—The President is pleased to appoint Smt. Soumya Ray (Emp. ID: 121906) to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay

Band – 3, Rs. 15600 – 39100/- with Grade Pay Rs. 5400/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from 21.08.2015(FN) until further order.

A. K. MONDAL
Asstt. Director (P & A)
for Director General

No. 2557/SP/A-12025/1- Geol/Notification/09/19A—The President is pleased to appoint the following candidates in compliance of under mentioned Hon'ble CAT/High Court Order to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band – 3, Rs. 15600—39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the date and other details as shown against each until further orders:-

SL. No.	Emp. ID No.	Name of the officers	Hon'ble CAT/High Court Order dated & in O.A. No.	Date of appointment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	121103	Smt. Sreeja K.	Hon'ble High Court Order dated 29.05.2012 in WP. No. 3196/2012 filed by Smt Sreeja K.	03.12.2012(FN)
2.	121556	Shri Saikat Ray	Hon'ble CAT Order dated 18.09.2013 in O.A. 2078/2012 filed by Shri Saikat Ray.	06.03.2014(FN)
3.	121104	Shri Anjanjyoti Deka	Hon'ble CAT Order dated 11.06.2012 in O.A. No. 74/2012 filed by Shri Anjanjyoti Deka.	03.12.2012(FN)

A. K. MONDAL
Asstt. Director (P & A)
for Director General

Kolkata-700016, the 13th June 2016

No. 2556/SP/A-12025/1- Geol/Notification/2014/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band – 3, of Rs. 15600—39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- in a temporary capacity with effect from the date and other details as shown against each until further orders:-

Sl. No.	Rank	EM. ID No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1	2	3	4	5
1.	4	122041	Shri Waseem Ahmed	09.12.2015
2.	6	122042	Smt. Shreya Basu	10.12.2015
3.	7	122043	Smt. Madhavi Mondal	09.12.2015
4.	8	122044	Smt. Tanveer Fatima Khan	09.12.2015
5.	9	121589	Shri Atiullah	10.12.2015
6.	10	122045	Shri Subrat Sundarary	09.12.2015
7.	11	122046	Smt. Rose El Rothangmawi	10.12.2015
8.	14	122047	Smt. Priyanka Paul	09.12.2015
9.	15	122048	Smt. Mahima Singh	10.12.2015
10.	16	122049	Shri Shiwendra Pratap Singh	09.12.2015
11.	17	121592	Smt. Sangitsarita Nanda	09.12.2015
12.	18	122050	Shri Gaurav Mishra	09.12.2015

1	2	3	4	5
13.	20	122051	Smt. Puspita Tripathy	09.12.2015
14.	22	122052	Shri Sayam Konar	09.12.2015
15.	23	122053	Shri Sayan Sinha	09.12.2015
16.	24	122054	Smt. Warisha Akhtara Ahmed	09.12.2015
17.	25	122055	Smt. Raveena Bhatt	09.12.2015
18.	26	122056	Shri Vedant Rhimsar Jhala	09.12.2015
19.	27	122155	Shri AB Raqeeb Rather	09.12.2015
20.	28	120998	Shri Kailash Chand	09.12.2015
21.	29	122058	Shri Abhilash George	09.12.2015
22.	30	122059	Smt. Surabhi Garg	09.12.2015
23.	32	122060	Shri Mohammad Arkan	09.12.2015
24.	34	122061	Smt. Sakuntala Sahoo	09.12.2015
25.	35	122062	Shri Rabindra Kumar Sahoo	09.12.2015
26.	37	122063	Shri Shishir Bhardwaj	09.12.2015
27.	38	122064	Shri Sourav Mukhopadhyay	09.12.2015
28.	39	122065	Shri Vishnu Kumar Singh	09.12.2015
29.	40	122066	Smt. Kumari Pooja	09.12.2015
30.	41	122067	Shri Rahul Ajane	09.12.2015
31.	42	121575	Shri Sunil Kumar Sharma	09.12.2015
32.	43	122068	Shri Shreeram Suman Sahu	09.12.2015
33.	44	122069	Shri Rajkumar Ghosh	09.12.2015
34.	46	122070	Shri Deeju T. R.	09.12.2015
35.	48	122071	Shri Swagatam Khan	09.12.2015
36.	51	122072	Shri Pradeep Kumar	09.12.2015
37.	53	122073	Smt. Sneha Bhaumik	09.12.2015
38.	54	122074	Smt. Suparna Jha	09.12.2015
39.	55	122075	Shri Bhagat Tapan Sunil	09.12.2015
40.	56	122076	Smt. Anamika Choudhary	10.12.2015
41.	57	122077	Smt. Sukanya Chaudhury	10.12.2015
42.	58	122078	Shri Hari Om Singh	09.12.2015
43.	59	122169	Shri Barri Satyannarayana	07.03.2016
44.	60	122079	Smt. Sandhya Krishnan	09.12.2015
45.	61	122080	Shri Debapriya Chatterjee	10.12.2015
46.	63	122081	Smt. Neethu Asokan	09.12.2015
47.	64	122083	Shri Shahzad Alam	09.12.2015
48.	65	122084	Shri Kush Kant Shukla	09.12.2015
49.	66	122085	Smt. Shipra Negi	09.12.2015
50.	67	122086	Shri Biswaranjan Sahoo	09.12.2015

1	2	3	4	5
51.	68	122087	Shri Shamsheer Ahmad	09.12.2015
52.	69	122088	Shri Kannan J Prakash	09.12.2015
53.	70	122150	Shri Vhatkar Sagar Vishwas	23.12.2015
54.	71	122089	Shri Vikas	09.12.2015
55.	72	122090	Shri Bedabyasa Sahoo	09.12.2015
56.	73	122091	Shri Prabhat Kumar Sahu	09.12.2015
57.	75	122092	Shri Satheesh S R	09.12.2015
58.	76	122093	Shri Kallol Sen	09.12.2015
59.	77	122094	Shri Alok Kumar	09.12.2015
60.	78	122095	Shri Sandeep Baruah	10.12.2015
61.	80	122096	Smt. Farha Naaz	09.12.2015
62.	83	122097	Smt. Abhilipsa Sahoo	09.12.2015
63.	84	122098	Shri Mairembam Arunkumar Singh	09.12.2015
64.	85	122099	Smt. Lalita Yadav	09.12.2015
65.	87	122100	Shri Laxmikanta Barik	09.12.2015
66.	88	122101	Shri Bezawada M V S Sekhar	09.12.2015
67.	89	122102	Shri Ramoutar Singh	09.12.2015
68.	90	122103	Shri Sounav Karmi	09.12.2015
69.	91	122104	Mohd. Junaid Ansari	09.12.2015
70.	92	122105	Shri Fozail Akhtar	09.12.2015
71.	93	122106	Smt. Shimla P	09.12.2015
72.	94	121784	Smt. Dipanwita Mallick	09.12.2015
73.	95	122108	Shri Munesh Kumar Sahu	09.12.2015
74.	97	122109	Shri Soubhagyalaxmi Sahoo	09.12.2015
75.	98	122110	Shri Vikas Mistry	09.12.2015
76.	100	122111	Smt. Poonam Nagar	09.12.2015
77.	101	122112	Smt. Anita Gorai	09.12.2015
78.	102	122113	Shri Praveen Kumar Tailor	09.12.2015
79.	104	122114	Smt. Sibani Kumari Nayak	09.12.2015
80.	106	122115	Shri Nanda Kumar N	09.12.2015
81.	107	122116	Shri Raut Bhalchandra Homdeo	09.12.2015
82.	109	121910	Shri Biswajit Bharali	09.12.2015
83.	110	122156	Smt. Aliva Mahato	09.12.2015
84.	111	122118	Shri Rakesh Kumar Patel	09.12.2015
85.	112	122119	Smt. Sadia Orroj	09.12.2015
86.	113	122120	Shri Nitin Mohan Meena	10.12.2015
87.	115	122121	Shri Uzzwal Kumar Sharma	09.12.2015
88.	116	122122	Shri Lotan Babulal Suryawanshi	09.12.2015

1	2	3	4	5
89.	117	122123	Shri Lalit Narayan	09.12.2015
90.	118	122124	Shri Maneesh Lal M	09.12.2015
91.	119	122125	Smt. Bindiya Vandana Ekka	09.12.2015
92.	120	122126	Shri Sabyasachi Mandal	09.12.2015
93.	121	122127	Shri Nilay Mazumdar	09.12.2015
94.	122	122128	Shri Saikat Mondal	09.12.2015
95.	123	122129	Shri Raju Agrawal	09.12.2015
96.	126	122130	Shri Ipsita Ghosh	09.12.2015
97.	127	122131	Shri Abhinav Kumar	09.12.2015
98.	128	122132	Smt. Parmar Archana Prakash	09.12.2015
99.	129	122133	Shri Mithun Deb	09.12.2015
100.	130	122134	Shri Devanand Panika	09.12.2015
101.	131	122167	Smt. Snigdharani Sahoo	11.02.2016
102.	134	122135	Shri Simranjit Kumar Nayak	09.12.2015
103.	135	122136	Smt. Gargi Sharma	09.12.2015
104.	136	122137	Shri Prashant	09.12.2015
105.	137	122138	Shri Karre Vilas Shrihari	09.12.2015
106.	138	122157	Shri Biswaranjan Sahoo	09.12.2015
107.	139	122139	Shri Neiphrehu Dzuvichu	09.12.2015
108.	140	122140	Smt. Shruti Singh	09.12.2015
109.	141	122141	Shri Satender Kumar	09.12.2015
110.	142	122142	Smt. Leena Kumari Pawe	09.12.2015
111.	144	122153	Smt. Vyshnavi S	30.12.2015
112.	145	122143	Smt. Kehe-U Wetsah	09.12.2015
113.	146	122145	Shri Marshal Bodra	10.12.2015
114.	147	122146	Shri Syed Muzimuddin	09.12.2015
115.	148	122147	Shri Pradeep Kumar Bhuyan	09.12.2015
116.	149	122148	Shri Amrendra Kumar	10.12.2015
117.	150	122149	Shri Kalanand Bharati	10.12.2015

* Sl. No. 93 Resigned w.e.f. 29.04.2016(AN)

H. M. MISHRA
Dy. Director (P & A)
for Director General

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi-110003, the 13th January 2017

No. A-39012/10/2016-E-II—The President is pleased to accept the resignation of Shri Sagar Sureshkumar Thakkar, Deputy Director of Flying Training in the Office of the Director General of Civil Aviation with effect from 13th January, 2017 (Afternoon) in terms of MHA's OM No. 39/6/57-Ests. (A) dated 06.05.1958.

2. Shri Sagar Sureshkumar Thakkar, Deputy Director of Flying Training stands relieved of his duties with effect from the afternoon of 13th January, 2017.

PAVAN MALVIYA
Deputy Director of Administration

The 24th March 2017

No. A-32013/04/2015-E.II—In continuation of this office's earlier Notification of even no dated 24.02.2016 and on the basis of recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Bajpai to the post of Deputy Director of Airworthiness in PB-3, Rs. 15600 - 39100 with Grade Pay of Rs.7600/-(pre-revised scale) on regular basis in the office of Director General of Civil Aviation with effect from the forenoon of 20th January, 2016 and until further orders.

PAVAN MALVIYA
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of companies Act, 1956 and of the following companies

New Delhi-110019, the 31st March 2017

No. ROC DELHI/Nov-Dec/2016/560(5)/PUBL.FTE/19661—Notice is hereby given under Sub Section (5) of Section 560 of the companies Act, 1956 that the name of the following company has this day been struck off from the register and the said company is dissolved :—

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
1	G15304405	U72200DL2015PTC277080	6 BRICKS TECH PRIVATE LIMITED
2	G13622188	U74140DL2007PTC170762	A . JAISUKH CONSULTANT PRIVATE LIMITED
3	G09966458	U36910DL2007PTC167506	A AND T JEWELS PRIVATE LIMITED
4	G19915917	U51420DL1997PLC089031	A G BROS LIMITED
5	G30453757	U51101HR2013PTC050670	A N MERCHANTS PRIVATE LIMITED
6	G17385964	U45400DL2007PTC165972	A P AGARWAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
7	G29109865	U45400HR2008PTC037511	A. R. C. SOLAR PRIVATE LIMITED
8	G19968445	U74899DL1995PTC073180	A.A.A PROPERTIES PRIVATE LIMITED
9	G19725282	U65923DL1995PTC072779	A.A.A. CREDIT & HOLDINGS PRIVATE LIMITED
10	G30598551	U17121DL2007PTC168709	A.S. CLOTHES COMPANY PRIVATE LIMITED
11	G23187057	U45200DL2012PTC246807	A3G ESTATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	G30506711	U55101DL2006PTC147012	AAA RESORTS PRIVATE LIMITED
13	G21826656	U63040DL2010PTC203770	AASHI TRAVELS PRIVATE LIMITED
14	G14215503	U67120DL1996PTC076101	ABHICHHAYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
15	G19704287	U29253DL2009PTC193442	ABHISHEK AUTO (ND) PRIVATE LIMITED
16	G28640456	U72900DL2002PTC115716	ACCENT INFO-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	G28306041	U74999DL2011PTC226800	ACCLAIM ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18	G28129922	U74140DL2011PTC225277	ACE ERGMATICS CONSULTING PRIVATE LIMITED
19	G29957800	U74140DL2015PTC274874	ACHILLES FOODS CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED
20	G14061980	U72900DL2002PTC114180	ACME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
21	G28323780	U70102DL2015PTC287988	ACORN TREE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
22	G21554613	U41000DL2012PTC235469	ADAM AQUA CARE PRIVATE LIMITED
23	C79850202	U01403HR2013PTC049901	ADARSH CROPS PRIVATE LIMITED
24	G08897076	U51900DL2007PTC167039	ADDAGIO OVERSEAS PRIVATE LIMITED
25	G20666749	U74999DL2012PTC234099	ADDGLOW COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
26	G19991637	U64120DL2001PTC112644	ADINI EXPRESS PRIVATE LIMITED
27	G29498367	U70102DL2009PTC195123	ADIRAJ CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
28	G29302965	U74999HR2015PTC054272	ADITI TECHMART PRIVATE LIMITED
29	G28846046	U15122DL2015PTC286465	ADITYA FRUIT PROCESSORS PRIVATE LIMITED
30	G13876677	U74999HR2015PTC056362	ADR VENTURES PRIVATE LIMITED
31	G18816934	U45400DL2007PTC172078	ADVANCED DAIRY DEVELOPMENT AND AGRICULTURE MARKETING SYTEMS PRIVATE LIMITED
32	G28814630	U72900DL2004PTC124881	ADYA SYSTEMS AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
33	G15657737	U40300DL2011PTC225017	AE PHOTONICS INDIA PRIVATE LIMITED
34	G21773007	U32109DL2002PTC116576	AEON ACCUMULATORS PRIVATE LIMITED
35	G19334853	U63010DL2012PTC229636	AERO BOOKERS PRIVATE LIMITED
36	G20238028	U74140DL2012PTC232758	AFFORDABLE ART FAIR PRIVATE LIMITED
37	G28047025	U27107DL2008PTC177324	AGNI MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED
38	G27517622	U74140DL2009PTC193577	AGNISAR RISK MANAGERS PRIVATE LIMITED
39	G19889153	U74140DL2012PTC241777	AGS IMAGING PRIVATE LIMITED
40	G28323707	U74140HR2015PTC055026	AHLUWALIA NATURAL SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
41	G28727469	U63040DL2008PTC173668	AIRBORNE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
42	G24298408	U85100DL2013PTC262037	AIRWIL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
43	G21109095	U93000DL2009PTC188302	AIS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
44	G29569738	U74999DL1996PTC083742	AJIT CABLE AND SATELLITE PRIVATE LIMITED
45	G30159552	U70109HR2013PTC049107	AJMER REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
46	G29842846	U74140DL2011PTC220609	AJS PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
47	G21675962	U71300DL2015PTC276645	AK RENT N EARN INDIA PRIVATE LIMITED
48	G20117362	U51909DL2005PTC142170	AKASHDEEP TRADEX PRIVATE LIMITED
49	G30344998	U31401DL2013PTC248766	AKASHGAMINI SUPPLY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
50	G17224015	U28999DL2012PTC237271	AKM METALS PRIVATE LIMITED
51	G29788205	U67190DL2008PTC173448	AKSHAYLIFE FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
52	G28528669	U74999DL2013PTC261892	AL RIGHT INVESTIGATION PRIVATE LIMITED
53	G19871359	U29150HR2012PTC045894	ALATE ENGINEERING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
54	G29918869	U70100DL2015PTC277613	ALL IN ONE REAL ESTATE INDIA PRIVATE LIMITED
55	G29939329	U70100DL2015PTC276801	ALLEGE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
56	G21705421	U63030HR2012PTC046736	ALLIANZ PACKERS & MOVERS PRIVATE LIMITED
57	G29447547	U74999DL2006PTC151102	ALLIED RESEARCH INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED.
58	G23087463	U51397DL2002PTC118188	ALLWIN MEDITECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
59	G25326539	U74140DL2010PTC209021	ALMAZ ENGINEERING & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
60	G18963587	U41000DL2009PTC193338	ALPHAA IMPEX RO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
61	G19160431	U25209DL1998PTC092567	ALPS POLYMERS PRIVATE LIMITED
62	G30794010	U22222DL2009PTC194968	AMAR TECHNOPLAST PRIVATE LIMITED
63	G29656535	U70109DL2006PTC150506	AMBA HI-TECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
64	G18173963	U74140DL2010PTC210256	AMBER FINVEST CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
65	G30290407	U52390DL2013PTC257585	AMEDEUS TRADELINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
66	G16977282	U20299DL1987PLC029531	AMIGO TECHNOLOGIES LTD
67	G30699821	U74140DL2015PTC281052	AMINDIA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
68	G28136190	U51101DL2015PTC287107	AMOGH GLOBAL PRIVATE LIMITED
69	G20629176	U72900DL2011PTC222073	AMOGH IT SOLUTIONS AND SUPPORT PRIVATE LIMITED
70	G27612456	U70101DL2010PTC203010	AMTE INFRA CONCEPTS PRIVATE LIMITED
71	G23217359	U55101DL2012PTC232889	AMUSE BOUCHE PRIVATE LIMITED
72	G23294374	U74999HR1994PTC032450	ANA ROOFINGS PRIVATE LIMITED
73	G28202703	U74994DL2013PTC248842	ANAADI KALA PRIVATE LIMITED
74	G13650296	U74890DL2005PTC144206	ANAND PLASTICIDES PRIVATE LIMITED
75	G30048458	U33111HR2015PTC055021	ANCHORAGE MEDISURGIDENT PRIVATE LIMITED
76	G23264427	U65992HR2011PTC043658	ANEW CHIT FUND PRIVATE LIMITED
77	G23265796	U64100DL2011PTC212482	ANEW TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
78	G29758703	U74999DL2015FTC288134	ANGLO AMERICAN (INDIA) PRIVATE LIMITED
79	G18838409	U74994DL2007PTC167584	ANIL ASSOCIATES APPARELS PRIVATE LIMITED
80	G19015981	U45201DL2012PTC245222	ANISH BUILDTECH PRIVATE LIMITED
81	G19020775	U45201DL2012PTC244978	ANISH COLONIZERS PRIVATE LIMITED
82	G19015288	U74140DL2012PTC245443	ANISH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
83	G28366276	U72200DL2008PTC180975	ANJANEYA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
84	G30434534	U45400DL2012PTC240693	ANJULATA BUILDERS PRIVATE LIMITED
85	G19961911	U70101DL2012PTC231531	ANKHIR PROMOTERS PRIVATE LIMITED
86	G08283475	U18101HR2006PTC036228	ANKUSH TEXTILES PRIVATE LIMITED
87	G21090451	U74900DL2013PTC247662	ANR GLOBAL CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
88	G16133670	U51397DL2003PTC120576	ANSULAN MEDI-EQUIP PRIVATE LIMITED
89	G22994164	U80904DL2013PTC249857	ANTIVERSITY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
90	G30666093	U21014DL2008PTC177654	ANUSHKA PACKWEL PRIVATE LIMITED
91	G19773571	U52590DL2010PTC199838	ANVI NETWORKS PRIVATE LIMITED
92	G19518133	U74999HR2013FTC051445	ANVIA SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
93	G27960111	U70102HR2009PTC039689	ANVITA HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
94	G28755189	U67120DL2010PTC207941	ANWESHA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
95	G18905075	U74120DL2008PTC177475	ANYWHERE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
96	G20074282	U74140DL2015PTC286882	AON ABSENCE MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
97	G20072500	U74140DL2015PTC286881	AON RPO INDIA PRIVATE LIMITED
98	G29267507	U18101DL1999PTC100219	APACHY DESIGNER WEAR PRIVATE LIMITED
99	G17238544	U15119DL2006PTC154033	APNISH FOODS PRIVATE LIMITED
100	G30460794	U74140DL2010PTC208328	APPLYEZEED EDUCATION PRIVATE LIMITED
101	G18136135	U72200DL2012PTC232336	APSAM WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
102	G29273596	U74900DL2013PTC256420	AQUA EVENTS PRIVATE LIMITED
103	G28516656	U70200HR2010PTC040753	ARCHER REALTY PRIVATE LIMITED
104	G21499512	U22219DL2011PTC212327	AREAWISE PUBLISHING PRIVATE LIMITED
105	G29403698	U25208DL2010PTC205572	AREN POLYMERS PRIVATE LIMITED
106	G15504665	U15203DL2002PTC115153	ARIHANT MILK FOODS PRIVATE LIMITED
107	G29985884	U74140DL1986PTC025463	ARIONA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LTD.
108	G29698933	U93000HR2014PTC053710	ARTERA INDIA PRIVATE LIMITED
109	G24144875	U52590DL2015PTC286597	ARTH RETAIL PRIVATE LIMITED
110	G17052713	U40106DL2012PTC232610	ARYAMA ENERGY AND MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
111	G00452581	U45400DL2007PTC170557	AS DREAMLAND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
112	G28667053	U74140DL2008PTC176004	ASEEM HR SERVICES PRIVATE LIMITED
113	G20818217	U24119DL1999PLC100917	ASHA ORGANICS LIMITED
114	G20897898	U24100HR2007PTC036863	ASHOKA CEM PRIVATE LIMITED
115	G22751028	U15122HR2011PTC044658	ASHOKA SUNDRAM FOOD & INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
116	G28156164	U70102DL2014PTC267070	ASHWAANI REALITY
117	G11922747	U72200DL2008PTC184449	ASHWANI GREAT WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
118	G28154896	U70102DL2013PTC262097	ASHWANI REALITY PRIVATE LIMITED
119	G21267182	U72900DL2011PTC225808	ASIA PACIFIC GROUP ENGINEERING SERVICES AND SOLUTIONS PRIVAT
120	G28847408	U51494DL2011PTC229058	ASKK MERCANTILE PRIVATE LIMITED
121	G28660934	U63000DL2012PTC229775	ASWATH LOGIS-TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
122	B89978043	U74120DL2007PTC167679	ATCL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
123	G28825693	U74140HR2011PTC043804	ATIVA AUTO PRIVATE LIMITED
124	G24115248	U51909DL1998PTC096461	ATS TRADING AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
125	G27771260	U72501DL2012PTC237728	ATTIVO LABS PRIVATE LIMITED
126	G22851208	U74140DL2011PTC212459	AUBADE CONSULTING PRIVATE LIMITED
127	G20392775	U52590HR2012PTC044967	AUM SHREEM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
128	G18882563	U45204DL2011PTC212282	AURA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
129	G22121768	U80301DL2013PTC256680	AURIC EDUCATION PRIVATE LIMITED
130	G27754696	U45200DL2011PTC226996	AUSTRA INFRASTRUCTURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
131	G30112734	U72200DL2013PTC250059	AVAKAZA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
132	G20748273	U35923DL2012PTC231680	AVANT AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
133	G15760093	U85110DL2010PTC201624	AVIGHNA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
134	G21483540	U34300HR2012PTC047581	AVINASH AUTOTECH PRIVATE LIMITED
135	G19441708	U70200HR2012PTC045312	AVIRAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
136	G29716875	U51109DL2009PTC186491	AVM OVERSEAS PRIVATE LIMITED
137	G29710746	U74999DL2010PTC201307	AVOCADO SECURITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
138	G29369600	U25190DL2011PTC227728	AVON BIBCO CREATION PRIVATE LIMITED
139	G17856048	U31908DL2006PTC156241	AVR POWER PRIVATE LIMITED
140	G21226295	U45204DL2010PTC203915	AVS SERVICE APARTMENTS PRIVATE LIMITED
141	G22435424	U74140DL2014PTC268221	AVVESA TRENDS PRIVATE LIMITED
142	G22550420	U74140DL2013PTC254007	AVYAYA SERVICES PRIVATE LIMITED
143	G20969267	U74920HR2011PTC044053	AZZA CORPORATE SOLUTION PRIVATE LIMITED
144	G30015341	U80302DL2013PTC252718	BABA TRAINING CENTRE PRIVATE LIMITED
145	G19033646	U29220DL2012PTC236171	BABSON COOLING TOWER & EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
146	G28339794	U74999DL2016PTC289868	BACK BENCHERS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
147	G23630486	U74140DL2014PTC269958	BADRI VISHAL PROTECTION PRIVATE LIMITED
148	G21226915	U45400DL2009PTC187770	BAHL AND SONS REALSTATE PRIVATE LIMITED
149	G19807239	U74999DL2015PTC282898	BANADIR OVERSEAS PRIVATE LIMITED
150	G18421933	U74900DL2009PTC195725	BANKEY BIHARI EXIM PRIVATE LIMITED
151	G20994307	U92113DL2011PTC226517	BCC MOVIES PRIVATE LIMITED
152	G19091727	U63040HR2000PTC035543	BEACH & WOOD TRAVELS PRIVATE LIMITED
153	G23421381	U52590DL2015PTC282969	BEAUTYATBEST RETAIL PRIVATE LIMITED
154	G22784318	U60200HR2010PTC040403	BECKON TRAVELS PRIVATE LIMITED
155	G22576342	U74999DL2014PTC268219	BEGIN TO EAT ORGANIC PRIVATE LIMITED
156	G17673757	U74140DL2013PTC250454	BENGAL CHANNEL PRIVATE LIMITED
157	G18904391	U24233HR2013PTC048576	BERKSHIRE FORMULATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
158	G20296596	U70109DL2006PTC152125	BHAGWANT STRUCTURAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
159	G22766471	U32109DL1999PTC102271	BHAGWATI BUSINESS CENTRE PVT. LTD.
160	G22044655	U72200DL2012PTC244448	BHARTIYA INTELLIGENT TEST SERVICES & IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
161	G19826684	U67190DL2011PTC219529	BHOOMI INFOTRADE PRIVATE LIMITED
162	G29082427	U72200HR2011PTC043929	BINARY MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
163	C73586356	U19201DL2003PTC118458	BINDAL FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
164	G21229273	U72200DL2013PTC248468	BIT AND BYTE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
165	G21524913	U72300DL2013PTC259834	BIZYANTRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
166	G28383685	U18101HR2003PTC035046	BK HITECH TEXTILES PRIVATE LIMITED
167	G22139604	U52335DL2013PTC256573	BLACKROCK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
168	G19634997	U55101DL2011PTC228416	BLUESTONE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
169	G29017357	U93000DL2010PTC200494	BMJT ASTROLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
170	G18073619	U20213DL1999PTC099526	BOMBAY EEZY CHAIR PRIVATE LIMITED
171	G18868653	U72200DL2012PTC234507	BOSTON OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
172	G28891737	U55101HR2010PTC040563	BRAINWAVE HOSPITALITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
173	G13333406	U74140DL2015PTC276161	BRIGHTHEAD BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
174	G29341252	U51229DL1997PTC090457	BRINDA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
175	G28813624	U70102DL2013PTC257584	BRISK AVENUE REALTORS PRIVATE LIMITED
176	G03059508	U74910DL2007PTC166311	BRISK MOVES HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
177	G19585884	U72300DL2010PTC204354	BRN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
178	G18965376	U70109DL2013PTC250414	BUDGET HOUSING AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
179	G22844567	U80900HR2013PTC048951	BUSINESS THINK LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
180	G24057549	U45200HR2011PTC043224	C B S INFRATECH PRIVATE LIMITED
181	G20496691	U74200DL2008PTC183109	CAMC ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED
182	G17598004	U51900DL2014PTC264186	CANAAN VALLEY INDIA PRIVATE LIMITED
183	G18838961	U52100DL2008PTC172901	CANCO TRADERS PRIVATE LIMITED
184	G29761889	U51311DL2004PTC131629	CANWEST B.M.TEXTILES PRIVATE LIMITED
185	G19098441	U70200HR2012PTC047752	CAPITAL COLLABORATORS PRIVATE LIMITED
186	G21187711	U74140HR2011PTC042668	CAPRICE EXPORTS PRIVATE LIMITED
187	G28283232	U80903HR2011PTC042680	CAPRICE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
188	G28166163	U74140DL2011PTC222775	CBD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
189	G23880735	U01400DL2007PTC170857	CHANDEL AGRITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
190	G27465947	U52390DL2009PTC195425	CHANGE LIFESTYLE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
191	G21537568	U74140HR2012PTC044880	CHEESE MONKEY PRODUCTION PRIVATE LIMITED
192	G27800440	U14200DL2011PTC227006	CHERRY RED MINING PRIVATE LIMITED
193	G19957992	U70101DL2004PTC128615	CHETAN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
194	G29197654	U70100DL2009PTC193092	CHITRABHUJ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
195	G24829723	U64202DL2004PTC125162	CHITROTPALA MEDIA AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
196	G28829448	U15122DL2011PTC221175	CHOTE NAWAB FOODS PRIVATE LIMITED
197	G19548528	U63040DL2004PTC129664	CITY HOLIDAY TOURS PRIVATE LIMITED
198	G19445493	U70109DL2006PTC153945	CLASSIC INFRABUILD PRIVATE LIMITED
199	G19672039	U65992HR1997PTC033768	CLASSIC STAR CHITS PRIVATE LIMITED
200	G08952202	U72200DL2005PTC132202	CLASSICS IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
201	G23692197	U74900HR2012PTC047975	CLEAN CONCEPTS CONSULTING ENGINEERING & SERVICES PRIVATE LIMITED
202	G28224475	U74910DL2016PTC291433	CLEAN INDIA VALUABLE SERVICES PRIVATE LIMITED
203	G20890190	U52300HR2012PTC045172	CLICKNET MARKETING PRIVATE LIMITED
204	G14155881	U72900DL2009PTC197398	CLIP WEAVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
205	G29088416	U74999DL2014PTC269812	CLIQUE DESIGN AND PRODUCTION PRIVATE LIMITED
206	G15779804	U74899DL2005PTC142266	CM FINVEST CONSULTANTS PVT LTD
207	G23578917	U74140DL2014PTC273595	COLOGNE CONSULTING PRIVATE LIMITED
208	G28559250	U74140HR2014PTC052964	COMPATIBLE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
209	G28809614	U74140HR2013PTC050861	COMPETENT PAYROLL AND HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
210	G21336946	U72200DL2005PTC132551	COMPUTATIONAL GEOMETRY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
211	G27601806	U72900DL2009PTC195833	CONCOMITANT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
212	C71877310	U72300DL2008PTC173305	CONNAMARA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
213	G28373512	U74899DL1995PTC071091	CONSORTIUM INVEST CARE PRIVATE LIMITED
214	G28613883	U33110DL2009PTC197177	COOPER VISION CARE PRIVATE LIMITED
215	G19528538	U64203DL2007PTC191740	CORNERSTEEL SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED
216	G27982529	U92412DL2012PTC243997	CORPORATE SPORTS PRIVATE LIMITED
217	G28969210	U70109DL2006PTC151241	COSMIC PROMOTERS PRIVATE LIMITED
218	G29003613	U70109DL2006PTC151015	COSMIC TECHNOBUILD PRIVATE LIMITED
219	G23349251	U52300DL2013PTC252682	COTTAGE CARPETS PRIVATE LIMITED
220	G19846153	U74999HR2014PTC052010	CREATING SKILLS CONSULTING PRIVATE LIMITED
221	G20924205	U24239DL2004PTC123837	CREATIVE CARDIO-LABS PRIVATE LIMITED
222	G27649532	U63000DL2013PTC252444	CREATIVE IMPACT DESTINATIONS PRIVATE LIMITED
223	G20294997	U62200DL2006PTC152124	CROWN AVIATION PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
224	G19186782	U93000DL2009PTC194314	CS TALENT DISCOVERY VISION PRIVATE LIMITED
225	G18331272	U45201DL2008PTC182702	CSD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
226	G16291437	U74140DL2007PTC169756	CUBE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
227	G17794660	U41000DL2012PTC231033	CUMBERLAND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
228	C78734829	U55101DL2013PTC258805	CYTRUS CORPORATE STAY PRIVATE LIMITED
229	G24790032	U33110DL2010PTC206902	CZAR LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
230	G24774382	U74140DL2011PTC213880	CZAR SERVICES AND ADVISORY PRIVATE LIMITED
231	G28401883	U45400DL2011PTC218944	D D INFRACON PRIVATE LIMITED
232	G29361979	U74140DL2009PTC187819	DABRAL TAX LAW SERVICES PRIVATE LIMITED
233	G14180137	U18109DL2006PTC156528	DAFFODIL HANDLOOMS & HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
234	G29923174	U74899DL1994PTC063901	DALCOM MARKETING PRIVATE LIMITED
235	G17208695	U31900DL2012PTC233641	DAQS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
236	G22249361	U72900DL2016PTC290466	DATA CUBES PRIVATE LIMITED
237	G21529763	U72900DL2010PTC204888	DAXAM COMPUTERS PRIVATE LIMITED
238	G15418841	U45201DL2005PTC135403	DAZZLE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
239	G14220982	U74900DL2015OPC278180	DDD DIGITAL (OPC) PRIVATE LIMITED
240	G29611472	U74140DL2010PTC206741	DE CRISTAL PRIVATE LIMITED
241	G19037738	U52300DL2012PTC240950	DE ESTOILE CREATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
242	G30216477	U55101DL2013PTC251717	DEGREE SOUTH FOODS PRIVATE LIMITED
243	G26063602	U17115DL1996PTC078839	DELHI FILTER FABRS PRIVATE LIMITED
244	G30821441	U64200DL2007PTC167735	DELTEL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
245	G17830332	U63000DL2011PTC214182	DEN TRIPS PRIVATE LIMITED
246	G28922771	U92412DL2010PTC200858	DESI BEAT ECOSYSTEM PRIVATE LIMITED
247	G28166213	U74140DL2011PTC219786	DETECT RADAR SYSTEM PRIVATE LIMITED
248	G30561674	U74140DL2011PTC224723	DEVOIR ADVISORS PRIVATE LIMITED
249	G19885250	U74900DL2009PTC195969	DEVOUT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
250	G20516647	U45201DL2013PTC254991	DEVRAHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
251	G17698267	U55204DL2008PTC184967	DHILLON HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
252	G15490154	U70101DL2011PTC212295	DIDAS INFRA PRIVATE LIMITED
253	G29182391	U70109DL2006PTC151330	DIGAMBER BUILDWELL PRIVATE LIMITED
254	G29364759	U72200DL1997PTC088103	DIGITAL OPERATION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
255	G30194658	U92490DL2013PTC258424	DIGNITE CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED
256	G29395936	U74899DL1990PTC039615	DISHA COMMERCIALS PRIVATE LIMITED
257	G17235870	U45204DL2012PTC229592	DIVYAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
258	G28625820	U74120DL2009PTC191565	DIYA LOGISTICS SOLUTIONS & SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
259	G30668362	U74900DL2015PTC279830	DLM EXPRESS PRIVATE LIMITED
260	G28484400	U74120DL2008PTC176144	DM URBAN REALTORS PRIVATE LIMITED
261	C68739457	U74990DL2013PTC247652	DOGWOOD AVIATION INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
262	G25223298	U85100DL2012PTC229684	DOMUS HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
263	G03086881	U74899DL1987PTC045036	DOON INSTRUMENTS PROCESSORS PVT. LTD.
264	G20238663	U52300DL2009PTC191979	DREAM SHINE HERBAL CARE PRIVATE LIMITED
265	G28787547	U74140DL2011PTC213274	DS STRATEGIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
266	G20724795	U80904DL2013PTC257123	DSM EDUCATION PRIVATE LIMITED
267	G17692427	U28998DL2009PTC193579	DTK INDUSTRIAL COMPONENT PRIVATE LIMITED
268	G18930412	U51505DL2013PTC253846	DUCTSOX FABRIC AIR DISPERSION INDIA PRIVATE LIMITED
269	G29016193	U72200DL2008PTC182038	DUKKER WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
270	G19376201	U74993DL1996PTC075553	DUKO (INDIA) PRIVATE LIMITED
271	G19017144	U74940DL2012PTC246432	DUNLIM WORKS PRIVATE LIMITED
272	G23044332	U74900DL2013PTC256435	DYGNOSIS INFOSOLVE PRIVATE LIMITED
273	G16346512	U64203DL2007PTC158839	DYNAMIC TELECOM & DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
274	G30089403	U93000HR2014PTC051559	DYNAMITE EVENTS COMPANY PRIVATE LIMITED
275	G30449540	U32102DL2013PTC251657	DYNER ELECTROTECH PRIVATE LIMITED
276	G13197355	U93000DL2015PTC275329	EASY HR AND SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
277	G28137552	U51909DL2007PLC171168	EASY LINK BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
278	G02019628	U51909DL2005PTC133705	ECH ENN IMPEX PRIVATE LIMITED
279	G21520184	U22100DL2010PTC204128	ECO PRINT MEDIA PRIVATE LIMITED
280	G21789631	U45400DL2011PTC213149	ECON BUILDCON INDIA PRIVATE LIMITED
281	G22557862	U74140DL2009PTC197395	ECOSTUDIO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
282	G29626280	U80903HR2013PTC049943	EDUANGLE CONSULTING PRIVATE LIMITED
283	G30005003	U74999DL2013PTC257367	EDUCATION INCUBATION SERVICES PRIVATE LIMITED
284	G18897884	U74140HR2014PTC051806	EDUVENTURES SOFTTECH PRIVATE LIMITED
285	G23130370	U72300DL2005PTC132254	EILEENTECH COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
286	G03128667	U55101DL2008PTC185823	E-LAND HOTELS & RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
287	G29088762	U74140DL2010PTC208459	ELEMENT 5 DESIGN AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
288	G15656432	U74996DL2006PTC153272	ELEMENTS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
289	G21128764	U33110DL2012FTC230915	ELIXIR MEDCORP INDIA PRIVATE LIMITED
290	G20481719	U52397DL2012PTC239516	EMPIRE OVERSEAS PRIVATE LIMITED
291	G18785428	U18109DL2012PTC234686	EMPYREAN EXIM PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
292	G18845198	U74999DL2014PTC270365	ENERCO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
293	G14327548	U74900HR2008PTC037938	ENIGMA PLACEBIRD PRIVATE LIMITED
294	G27615848	U72200DL2010PTC206803	EOLII INFOCOM PRIVATE LIMITED
295	G21585401	U70100DL2013PTC247061	EOS INFRABUILD PRIVATE LIMITED
296	G23849995	U74140DL2002PTC114929	EPCO EXHIBITIONS PRIVATE LIMITED
297	G28179521	U72900DL2013PTC254313	EPIC ASSISTANCE PRIVATE LIMITED
298	G21032834	U74140DL2015PTC279885	EPIDERMIS MARKETING COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
299	G20274098	U72900HR2011PTC044430	ERP IMPLEMENTATION SERVICES PRIVATE LIMITED
300	G07446859	U45204DL2010PTC210809	ESCALATE PROJECTS PRIVATE LIMITED
301	G29401684	U70200HR2013PTC049793	ESS EMM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
302	G29732310	U85300DL2013PTC258289	ESSKAY MEDILIFE PRIVATE LIMITED
303	G18457028	U31500DL2010PTC204453	ETECH LIGHTING PRIVATE LIMITED
304	G23780901	U74140DL2011PTC218860	ETHICAL ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
305	G11682606	U92113DL2006PTC144961	EVIZ MEDIA PRIVATE LIMITED
306	G26657908	U63090DL2007PTC166432	EVOLUTION HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
307	G20145256	U72200DL2012PTC238570	EVOLUTION TECHSERVICES PRIVATE LIMITED
308	G30633333	U51900DL2011PTC215717	EXCLUSIVELY LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
309	C82382292	U74999DL2015PTC275218	EXPERT GLOBAL ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
310	G28762029	U45300DL2008PTC180189	EXPERT REALBUILD PRIVATE LIMITED
311	G30054068	U72200DL2012ULT245053	EXTREME ITECH PRIVATE LIMITED
312	G14556047	U74900HR2014PTC051949	FALCK CARE PRIVATE LIMITED
313	G29639911	U80904DL2010PTC208654	FAMMON INDIA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
314	G30589303	U64201DL2014PTC272461	FAR VIEW MOBILE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
315	G21056304	U17200DL1995PLC073893	FASHION TEXTILES AND SPINNERS (INDIA) LIMITED
316	G30046288	U92400DL2011PTC217165	FEATHER FILMS PRIVATE LIMITED
317	G21732623	U45201DL2001PTC113536	FEEDBACK INTEGRATED INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITE
318	G22745277	U74200HR2011PTC044343	FEVTECH ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
319	G30229736	U70100DL2012PTC233790	FILBERTS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
320	G19789114	U24100DL2013PTC250340	FINO CHEM PRIVATE LIMITED
321	G27842913	U22219DL2012PTC236097	FIONA FRAMEWORK PRIVATE LIMITED
322	G19425842	U72900DL2012PTC244174	FIREHORSE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
323	G28120129	U70200DL2005PTC143918	FIRST CITY MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
324	G30456354	U74120HR2009PTC039664	FLOURISH TOUCH NETWORK PRIVATE LIMITED
325	G20895074	U29220DL2011PTC226178	FLOW TECH HOTELS PRIVATE LIMITED
326	G29586039	U18101DL2005PTC141094	FLYING FASHION PRIVATE LIMITED
327	G21148416	U28112DL2012PTC243411	FOCUS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
328	G19474014	U55101DL2010PTC202847	FORESTRIDGE RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED
329	G09825209	U51909DL2012PTC239353	FORT KNOX TRADERS PRIVATE LIMITED
330	G20313110	U70109DL2012PTC244738	FORTUNATE REALTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
331	G20627394	U52590DL2011PTC228734	FOUNDER LION PRIVATE LIMITED
332	G12539672	U51311DL2003PTC118644	FOUNTAIN BLUE EXIM PRIVATE LIMITED
333	G28473924	U65100DL2013PTC249853	FOUR CORNERS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
334	G20147229	U92490DL2010PTC209123	FREECO MEDIA PRIVATE LIMITED
335	G29716446	U93000DL2011PTC229104	FRIENDS CRICKET ACADEMY PRIVATE LIMITED
336	G29678356	U64100DL2012PTC235740	FROZEN UNITY CALL CENTRE SERVICES PRIVATE LIMITED
337	G05361340	U34102DL2011PTC216787	FUSION AUTO MECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
338	G27959014	U29253DL2012PTC236803	FUSION ELEVATORS PRIVATE LIMITED
339	G22489157	U72900HR2010PTC040793	G & G WEBTECH PRIVATE LIMITED
340	G19649516	U25202DL2005PTC138748	G K FABS AND POLYTECH PRIVATE LIMITED
341	C80766694	U50101DL2004PTC126534	G M WINES PRIVATE LIMITED
342	G29838661	U45200DL2010PTC208348	G. S. T. INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
343	G23113111	U31200DL2008PTC178491	G.S.M. POWER EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
344	G28369585	U28999DL2015PTC283802	GABROS PARTS PRIVATE LIMITED
345	G27768365	U74140HR2014PTC053127	GALAXI BATH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
346	G25009135	U72200HR2008PTC037564	GALAXY COMPUTRONIX PRIVATE LIMITED
347	G18101535	U19201DL2000PTC105994	GANDHI ROADWAYS PRIVATE LIMITED
348	G18946426	U70200DL2010PTC201423	GANGA PROPMART PRIVATE LIMITED
349	C79630844	U74999DL2014PTC265586	GANGES E-ACCESS PRIVATE LIMITED
350	G21303219	U80904DL2010PTC199963	GANPATI EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
351	G20840674	U65100DL2011PTC214299	GATEWAY CREDIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
352	G23253057	U45400DL2014PTC273601	GATKAL TANEJA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
353	G28726594	U74899DL1988PTC034401	GAUTAM CREATIONS PRIVATE LTD
354	G20368205	U74899DL1982PTC013552	GAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED
355	G20259057	U72900DL2010PTC202003	GDL DATA LOGISTIX PRIVATE LIMITED
356	G17947201	U18101DL2005PTC137267	GEE DESIGN PRIVATE LIMITED
357	G30481592	U15203DL2006PTC148188	GEELO DAIRY AND DRINKS PRIVATE LIMITED
358	G21940309	U74999DL2012PTC230539	GEN BIO-IT SERVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
359	G20045340	U52390DL2012PTC240903	GETARTEE APPARELS PRIVATE LIMITED
360	G22182398	U31909DL2008PTC181209	GHAZIABAD ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
361	G19983196	U74140DL2013PTC257884	GIBB CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
362	G29738077	U34300DL2004PTC127960	GKM AUTOMOTIONS PRIVATE LIMITED
363	G19953835	U72900DL2000PTC103948	GKM INFOTECH PRIVATE LIMITED
364	G21339882	U72300DL2016PTC289698	GLIPPED WEB PRIVATE LIMITED
365	G18990473	U70109DL2013PTC256774	GLOBAL INFRAHOMES PRIVATE LIMITED
366	G21388855	U85100DL2013PTC249271	GLOBAL TECHNOPHARMA PRIVATE LIMITED
367	G19481274	U74140HR2013PTC049826	GLOBAL VIEW CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
368	G30728620	U80301DL2012PTC242235	GLOBUS EDUCATION PRIVATE LIMITED
369	G20447660	U74900DL2013PTC251868	GNB ONLINE TRADING PRIVATE LIMITED
370	G13305958	U45400DL2008PTC172922	GO GREEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
371	G22598072	U74210DL1996PTC079842	GOINDI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
372	G22346316	U55101DL2006PTC153513	GOLD RESORTS & HOTEL (CHANDIGARH) PRIVATE LIMITED.
373	G22392633	U55101DL2006PTC151768	GOLD RESORTS AND HOTEL (JAIPUR) PRIVATE LIMITED
374	G22404123	U55101DL2006PTC151993	GOLD RESORTS AND HOTEL(GOA) PRIVATE LIMITED
375	G29968575	U55209DL2010PTC211711	GOLDEN CHARIOT DELHI FOODS PRIVATE LIMITED
376	G28367100	U28910DL2003PTC122504	GOLDSUN COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
377	G24186009	U74991DL2013PTC258360	GOMUSAFIR ONLINE PRIVATE LIMITED
378	G20975603	U55101DL1999PTC098143	GOOD TIMES HOTEL PRIVATE LIMITED
379	G07419757	U74999DL2012PTC230498	GORAKSHNATH EXIM PRIVATE LIMITED
380	G31045875	U17120HR2014PTC052557	GOURI HOMETEX PRIVATE LIMITED
381	G24209942	U51909DL2005PLC133924	GRAN MINERALS LIMITED
382	G30347793	U92142HR2013PTC049669	GREEN EARTH MEDIA PRIVATE LIMITED
383	G19764174	U40200HR2009PTC039222	GREEN INDUS BIO ENERGY PRIVATE LIMITED
384	G29866738	U40106DL2012PLC239174	GREEN INFRA WIND ENERGY CREATION LIMITED
385	G30218416	U40300DL2012PLC236035	GREEN INFRA WIND ENERGY DEVELOPMENT LIMITED
386	G30218465	U40300DL2012PLC239183	GREEN INFRA WIND ENERGY EFFICIENCY LIMITED
387	G30598221	U40108DL2011PLC221863	GREEN INFRA WIND POWER DEVELOPMENT LIMITED
388	G30219018	U40101DL2012PLC236205	GREEN INFRA WIND POWER SOLUTIONS LIMITED
389	G30497275	U40109DL2010PLC211808	GREEN INFRA WIND POWER TECHNOLOGY LIMITED
390	G30219711	U40106DL2011PLC222911	GREEN INFRA WIND POWER VENTURES LIMITED
391	G29396637	U51909DL2011PTC213407	GRG MERCANTILES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
392	G20411161	U70101DL2012PTC244533	GROUND ZERO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
393	G29818556	U51909DL2007PTC159816	GROW STAR IMPEX PRIVATE LIMITED
394	G30680953	U24100DL2015PTC277225	GROWELL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
395	G21007810	U93030DL2009PTC195163	GUARDIAN INVESTMENT SOLUTION PRIVATE LIMITED
396	G30004022	U74899DL1994PTC058748	GULATI CATERERS PRIVATE LIMITED
397	G16729337	U51909DL2004PTC128850	GURDEV SALES PRIVATE LIMITED
398	G28770923	U74140HR2013PTC050593	GURU INNOVATIONS AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
399	G20833703	U72900DL2008PTC175656	G-ZONE INFOTECH PRIVATE LIMITED
400	G23680978	U72200DL1998PTC093260	H S SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
401	G19395029	U63090HR2010PTC040555	HARDIK LOGISTICS PRIVATE LIMITED
402	G17360009	U74900DL2009PTC188866	HARIT AEC INDIA PRIVATE LIMITED
403	G18921270	U40102DL2007PTC169472	HARIT ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
404	G19624998	U29253HR2010PTC040446	HAROLD CRANES PRIVATE LIMITED
405	G22983985	U10200HR2015SGC054417	HARUP COAL CORPORATION LIMITED
406	G21871090	U74900DL2011PTC223886	HBSC EXIM PRIVATE LIMITED
407	G16886939	U51399DL2013PTC258503	HEENA TRADING PRIVATE LIMITED
408	G18108274	U25202DL2005PTC132858	HEM PACKAGING (INDIA) PRIVATE LIMITED
409	G17555830	U24239DL1999PTC099193	HERBAL NATURAL CURE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
410	G16690604	U24233DL1993PLC056171	HERBOMIN HIMALAYAS LIMITED
411	G30653737	U02000DL2012PTC239597	HIMADRI BIO PLANTECH COMPANY PRIVATE LIMITED
412	G23948342	U74900HR2013PTC050070	HIRICH INTERIORS PRIVATE LIMITED
413	G19732452	U24100DL2009PTC188192	HISTA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
414	G19392216	U21014DL2006PTC153883	HI-TECH SHRINK PACKAGING PRIVATE LIMITED
415	G29016888	U51310DL2008PTC179954	HND FASHION XTREMES PRIVATE LIMITED
416	G29017118	U74120DL2008PTC184534	HND GLOBAL PRIVATE LIMITED
417	G29016458	U72900DL2008PTC181891	HND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
418	G20568390	U51900DL2014PTC265865	HNP INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
419	G19065044	U22300DL2007PTC163491	HPH MEDIA PRIVATE LIMITED
420	G19619824	U70109DL2013PTC250426	HSG REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
421	G28445286	U74900DL2011PTC223551	HYOSUNG INDIA TRADING PRIVATE LIMITED
422	G10085777	U52100DL2014PTC266553	HYTREND ONLINE MARKETING PRIVATE LIMITED
423	G28871135	U74899DL1989PTC037540	I S V CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
424	G20482295	U74140DL2005PTC142436	IBRIDGE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
425	G21811997	U72200HR2014PTC053390	ICACHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
426	G19211259	U72200DL2010PTC209561	IDEAS TECHNO SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
427	C81606394	U26933DL2007PTC171548	IDG BATH FITTINGS PRIVATE LIMITED
428	G23173271	U72900DL2013PTC255023	ILOCUS TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
429	G17735754	U11200DL2008PLC177837	IMMACULATE OIL BLOCKS LIMITED
430	G22907653	U51909DL1996PTC082465	IMPETUS TRADERS PRIVATE LIMITED
431	G18169094	U72900DL2012PTC237624	IMPETUS WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
432	G21152483	U15400DL2011PTC224763	INCLUSIVE FOODS PRIVATE LIMITED
433	G19929009	U74999DL2013PTC253248	INCREDIBLE DRY FRUITS INDIA PRIVATE LIMITED
434	G31272024	U92490DL2010PTC209875	INCREDIBLE PENNIES PRIVATE LIMITED
435	G21920996	U51909DL2012PTC238467	INDIA LIGHTTEC PRIVATE LIMITED
436	G17291899	U74120DL2000PTC225726	INDIA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
437	G28650257	U23201DL2011PTC216118	INDIAN DOMESTIC FUEL PRIVATE LIMITED
438	G27819226	U55101DL2013PTC257388	INDIAN PIZZERIA PRIVATE LIMITED
439	G14201172	U24239DL1999PTC101199	INDKUS BIOTECH PRIVATE LIMITED
440	G28533826	U70200HR2010PTC040794	INDO HOMES PRIVATE LIMITED
441	G27595933	U60200DL2013PTC254288	INDOCARGO LOGISTICS PRIVATE LIMITED
442	G29514593	U74140DL2013PTC249744	INDUS TRU-CLEAN PRIVATE LIMITED
443	G26966481	U63013DL2005PTC134569	INFERENCE LOGISTICS SERVICES PRIVATE LIMITED
444	G25093915	U18101DL2010PTC204905	INFINITE LUXURY DESIGN PRIVATE LIMITED
445	G30393540	U85100DL2012PTC236181	INNER SOLUTIONS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
446	G29993730	U74900DL2013PTC254295	INNS GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
447	G29180288	U51909DL2012PTC231155	INOX TECH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
448	G19445428	U72200DL2010PTC203199	INPHLOX IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
449	G21577101	U74140DL2011PTC220893	INSCAPE DESIGN PRIVATE LIMITED
450	G11002540	U52100DL2012PTC237698	INSPIRIT RETAIL PRIVATE LIMITED
451	G29126711	U80900DL2010PTC209831	INSTITUTE OF FOREIGN & TECHNICAL EDUCATION PRIVATE LIMITED
452	G30197883	U74900DL2011PTC227749	INSTYLE UNIFORM SOLUTION PRIVATE LIMITED
453	G16725533	U74140DL2014PTC264977	INTELLII BIZ INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
454	G28771731	U80901DL2015PTC281712	INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELLNESS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
455	G17756958	U70200DL2011PTC222663	INVESTORS CLINIC INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
456	G26815936	U72909DL2016PTC303782	INVETECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
457	G29831054	U74140DL2011PTC219877	ISHWARYA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
458	G18118034	U51102DL2012PTC243257	ISPAT TUBE PRIVATE LIMITED
459	G18196949	U72900DL2000PTC105264	I-SQUARE PORTALS PRIVATE LIMITED
460	G29983533	U74999DL2013FTC248114	IT LUGGAGE INDIA PRIVATE LIMITED
461	G30316921	U15100DL2016FTC304072	ITALYVIAINDIA FOODS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
462	G22429807	U74140DL2011PTC219689	ITN NETWORK 12 PRIVATE LIMITED
463	G30333389	U74999DL2014PTC274208	IZENSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
464	G18889980	U45400DL2013PTC249590	J K PROMOTERS PRIVATE LIMITED
465	G29773736	U45200DL2013PTC248018	J.L.R BUILDCON PRIVATE LIMITED
466	G21264767	U74899DL1992PTC049533	JACYS HOTELS PRIVATE LIMITED
467	G18903724	U74999DL2009PTC190824	JAI GURU ELECTRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
468	G17210618	U70100DL2011PTC221162	JAINEX PROPBUILD PRIVATE LIMITED
469	G29534658	U40300DL2013PTC258616	JAISAR ENERGY PRIVATE LIMITED
470	G29608957	U92100DL2014PTC263692	JAISAR INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
471	G29535986	U45400DL2013PTC258437	JAISAR INFRATECH PRIVATE LIMITED
472	G29536315	U72300DL2013PTC258619	JAISAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
473	G20836565	U74140DL2013PTC257205	JAN DHARA COMMODITIES & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
474	G28909760	U01111DL2010PTC206212	JANNAT AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
475	G24703050	U40101DL2005PTC139910	JAVA ENERGY PRIVATE LIMITED
476	G30211460	U00000DL1988PTC030535	JAYAMAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
477	G23436173	U92419DL2013PTC254199	JAZZ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
478	G26752063	U74940DL2013PTC261541	JDK SERVICES PRIVATE LIMITED
479	G22652515	U85110DL2011PTC213151	JEEWAN CLINIC AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
480	G29676210	U74899DL1989PTC038693	JEPS PHARMA PRIVATE LIMITED
481	G21536305	U29253DL2013PTC260120	JHALANI HAND TOOLS PRIVATE LIMITED
482	G28371482	U63090HR2007PTC037344	JIA TRAVELSOLUTION PRIVATE LIMITED
483	G23202674	U32202DL2013PTC250655	JKM ACOUSTICS PRIVATE LIMITED
484	G22592604	U15494DL2011PLC220442	JKM BEVERAGES LIMITED
485	G16935710	U23109DL2009PTC190889	JKM PETRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
486	G30758965	U51909DL2004PTC125493	JMJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
487	G17145590	U26940DL2011PTC212335	JMRC CEMENT PRIVATE LIMITED
488	G22121891	U80301DL2013PTC258514	JOBSNFUN EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
489	G23449580	U74999DL2013PTC252703	JPAX IT AND SECURITY PRIVATE LIMITED
490	G28882587	U70102DL2014PTC270867	JSRR BUILDERS PRIVATE LIMITED
491	G20851317	U70100DL2013PTC252766	JUGGERNAUT CAPITAL PRIVATE LIMITED
492	G21793419	U52590HR2012PLC047005	JUK RETAIL LIMITED
493	G28028546	U52390HR2012PTC044907	JUK SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
494	G29506011	U63090DL2010PTC206427	JUMBO CARGO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
495	G28364982	U74120DL2007PTC167365	JUMPWIRE ESERVICES PRIVATE LIMITED
496	G20372348	U29306DL2012PTC229779	JYOTI ELECTRO CONTROLS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
497	G21742424	U85100DL2012PTC242432	K C HEALTH SOLUTION PRIVATE LIMITED
498	G12483343	U45204HR2010PTC041732	K G INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
499	G15522394	U74899DL1991PTC046764	K R MARKETING PRIVATE LIMITED
500	C74677998	U65921DL2003PTC119010	K S GAGANPREET AUTO FINLEASE PRIVATE LIMITED
501	G29280070	U70109HR2007PTC036697	K.M. PROJECTS PRIVATE LIMITED
502	G22097596	U52590DL2013PTC254805	KAI BIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
503	G28659068	U80301DL2010PTC206887	KAIZEN LANGUAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
504	G28452373	U80301DL2012PTC238680	KAIZEN LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
505	G29049582	U74999DL2001PTC110166	KAIZER SPATIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
506	G24856916	U29253DL2012PTC241163	KALRA IRON PRIVATE LIMITED
507	G20895165	U72900DL2011PTC223093	KANSO INFRATECH PRIVATE LIMITED
508	G28180289	U74300DL2008PTC185023	KARTAVYA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
509	G29067220	U01400DL2014PTC264039	KASHYAP AGROTECH PRIVATE LIMITED
510	G23611502	U74899DL1985PTC021447	KAVI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
511	G21396551	U85100DL2013PTC248494	KAYA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
512	G11509254	U70102DL2013PTC259791	KAZOO BUILDTECH PRIVATE LIMITED
513	G30132831	U24200DL2011PTC215463	KENT AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED
514	G17192790	U74899DL1995PLC070152	KHAITAN FINVEST LIMITED
515	G10231793	U45402DL1996PTC080737	KHANNA INTERIOR DECORATORS PRIVATE LIMITED
516	G22372569	U19200DL2007PTC168328	KRISHNA FOOTWEARS PRIVATE LIMITED
517	G03586203	U52390DL2012PTC243594	KSF PROTRADERS PRIVATE LIMITED
518	G30395792	U93000DL2011PTC228536	KSRV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
519	G16608564	U93000HR2014PTC053620	KUK TAEKWONDO DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
520	G31123235	U25111HR1988PTC030361	KUMAR VEHICLES PRIVATE LIMITED
521	G21599196	U74899DL1993PTC051571	KUMIRA FINANCE AND CONSULTANT PRIVATE LIMITED
522	G30333512	U74999DL2010PTC208248	KUSHAD SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
523	G28804870	U15122DL2008PTC185437	KWALITY ICE CREAMS & PROCESSED FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
524	G16191876	U27101HR2010PTC040327	LAJ SONS METALS & ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
525	G31037732	U74899DL2004PTC129986	LALSONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
526	G15490709	U45200DL2007PTC159400	LANDCRAFT ESTATE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
527	G15712805	U70102DL2007PTC160759	LANDCRAFT PLAZA PRIVATE LIMITED
528	G15715568	U55101DL2007PTC161918	LANDCRAFT RESORTS PRIVATE LIMITED
529	G23649262	U55101DL2016PTC290433	LE GOURMET HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
530	G23696859	U50100DL2009PTC194720	LEAD WORKS PRIVATE LIMITED
531	G30263677	U74140DL2014PTC270444	LEMON FOREX PRIVATE LIMITED
532	G02122901	U93000HR2009PTC039507	LETITGO CONSULTING PRIVATE LIMITED
533	G30225080	U93000DL2009PTC194580	LEXAYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
534	G20442489	U99999HR2000PLC034590	LIBERTY GARMENTS LIMITED
535	G19801497	U85100DL2010PTC206015	LIFELINE SCREENING INDIA PRIVATE LIMITED
536	G19217561	U74300DL2009PTC196185	LIGHT HOUSE CREATIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
537	G23739766	U93000DL2011PTC227015	LINKS SECURITY FORCE INDIA PRIVATE LIMITED
538	G29600251	U90000DL2010PTC201690	LION KMK FACILITIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
539	G29270402	U51909DL2011PTC213932	LIQUID SUN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
540	G27943828	U72900DL2012PTC244234	LIVEDOT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
541	G29905791	U18101DL2002PTC114115	LNC APPARELS PRIVATE LIMITED
542	G30431563	U72300DL2009PTC191426	LOGIMINDZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
543	G30040661	U67120DL2010PTC207947	LOMASA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
544	G18882688	U70101DL2012PTC243297	LORASH BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
545	G16443715	U70109DL2011PTC226869	LUCKY LANDCON PRIVATE LIMITED
546	G19257930	U72900DL2012PTC233977	LUMINARY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
547	G10218543	U45400HR2011PTC042413	LUXURIUM TOWERS PRIVATE LIMITED
548	G19051721	U74140DL2010PTC204602	M SQUARE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
549	G21761689	U72900DL2009PTC196438	MACROSENSE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
550	G29396132	U74899DL1989PTC035040	MADAD LEASING PRIVATE LIMITED
551	G19160001	U24232DL2011PTC224095	MADHU HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
552	G28903037	U70100DL2012PTC231689	MAHA MAYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED
553	G29016235	U74900HR2013PTC048209	MAHAKALP POWER SERVICES PRIVATE LIMITED
554	G15869779	U80200HR2011PTC043066	MAHENDRAGARH EDUCATION PRIVATE LIMITED
555	G23177710	U74899DL1991PTC045506	MAHESH JINDAL SURVEYORS PRIVATE LIMITED
556	G15808595	U74999DL2012PTC246620	MAJHEE INFO MEDIA PRIVATE LIMITED
557	G21578299	U72200DL2009PTC188069	MAKLITE GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
558	G29128261	U67120HR1996PTC035555	MANGLA JAYANTI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
559	G30166128	U22190DL2000PTC107838	MANTRA VIRTUAL SERVICES PRIVATE LIMITED
560	G30252381	U72900DL2016PTC292349	MAPX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
561	G18927293	U70100DL2012PTC245251	MARUTI BUILDHOMES PRIVATE LIMITED
562	G28910404	U74900DL2014PTC268342	MARVELOUS CREATION PRIVATE LIMITED
563	G14904890	U45200DL2006PTC156184	MASTECH PROJECTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
564	G18322099	U72300DL2008PTC178580	MASTERMIND COMPUTER HARDWARE ENGINEERING COLLEGE PRIVATE LIMITED
565	G21618517	U80903DL2009PTC195653	MATRIX EDUTRAINING PRIVATE LIMITED
566	G18390872	U51504DL2013PTC257265	MAX GENERATOR PRIVATE LIMITED
567	C62497748	U22219DL2009PTC195007	MAXPOSURE CORPORATE MEDIA PRIVATE LIMITED
568	G27775683	U70102DL2012PTC246172	MAXXED REALTOR PRIVATE LIMITED
569	G28906352	U70109DL2012PTC231843	MAYA KASHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
570	G14186910	U51909DL2012PTC236501	MAZSHA TRADING PRIVATE LIMITED
571	G19131713	U33110DL2012PTC238559	MDD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
572	G29882164	U74999HR2015PTC057450	MEDIA STREET PRIVATE LIMITED
573	G20841789	U74900DL2012PTC239343	MEDISPIRE TECH PRIVATE LIMITED
574	G21115381	U24232HR2011PTC042510	MEDLINE SURGICAL PRIVATE LIMITED
575	G31137094	U45201DL2006PTC147091	MEET BUILDERS PRIVATE LIMITED
576	G22933576	U72100DL2002PTC116780	MEGA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
577	G21907902	U74999DL2015PTC280182	MEGA VALUE CONSULTING PRIVATE LIMITED
578	G21050364	U74899DL2000PTC103124	MEHAKK EXIM PRIVATE LIMITED.
579	G19237742	U74900DL2014PTC263148	MEI ENGINEERS PRIVATE LIMITED
580	G08896169	U45201DL2005PTC135600	MELANGE HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
581	G16677700	U45201DL2005PLC134200	MELANGE INFRASTRUCTURES LIMITED
582	G20075404	U93000DL2010PTC209126	MERIT QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED
583	G19444777	U29253DL2012PTC243691	MESTRO SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
584	G20375762	U33119DL2004PTC127822	META DOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
585	G20345625	U63000DL2012PTC237771	METEOR MOBILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
586	G30328520	U74999DL2013PTC248988	MIDAS GLOBAL MED CARE PRIVATE LIMITED
587	G28406825	U74999DL2014PTC272795	MIDORI HEALTH PRIVATE LIMITED
588	G19072271	U74140DL2002PTC116744	MIDRIB CONSULTONG PRIVATE LIMITED
589	G21187455	U74200DL2010PTC201034	MIKADO ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
590	G28786192	U63013DL2000PTC105574	MILLENNIUM INTERSEAS AND ALLIED PRIVATE LIMITED.
591	G18837500	U72900DL2010PTC200220	MIND NETWORK PRIVATE LIMITED
592	G16142580	U67190DL2011PTC220311	MONEY MAX WEALTH ADVISOR PRIVATE LIMITED
593	G13388640	U74899DL1994PLC061112	MONIKAQUA SHRIMP FARMS LIMITED
594	G24187122	U63000DL2012PTC235310	MONVI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
595	G30263370	U17291HR2008PTC037936	MOON TEXTILES PRIVATE LIMITED
596	G17434507	U24100HR2011PTC043571	MOONSHINE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
597	G20502589	U17200DL2013PTC252588	MORDHWAJ IMPEX PRIVATE LIMITED
598	G19879162	U74140DL2013FLC251271	MORVEST INDIA LIMITED
599	G23625148	U74899DL1993PLC054935	MOSER BAER SOFTWARE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
600	G27897321	U85100DL2012PTC242674	MOULD HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
601	G19476951	U45400DL2007PTC163326	MRTR PRO RENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
602	G27877711	U22211HR2009PTC041258	MT PUBLISHING PRIVATE LIMITED
603	G08896706	U70101DL2005PTC136819	MUKTA BUILDWELL PRIVATE LIMITED
604	G23695679	U51101DL1996PTC078835	MUKVIN TRADINGS PRIVATE LIMITED
605	G22250898	U22211HR2010PTC040300	MURLIWALA PRINT AND PACK PRIVATE LIMITED
606	G18942086	U74140DL2011PTC220534	MUSESICK ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
607	G22352322	U24244DL2006PTC144912	MUSKAAN PERFUMERS PRIVATE LIMITED
608	G19174978	U74899DL1990PTC039806	MUSKAN INVESTMENT AND LEASING PRIVATE LIMITED
609	G29709946	U74999DL2014PTC265489	MY HEALTHY INDIA PRIVATE LIMITED
610	G30151906	U72900DL2015PTC288197	MY ONLINE MARKET PRIVATE LIMITED
611	G23736242	U70200DL2012PTC234475	MY1ST REALTY PRIVATE LIMITED
612	G25248626	U80902DL2009PTC190211	N & Z EDU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
613	G19921006	U25200DL2011PTC222973	N.K.S POLYMERS PRIVATE LIMITED
614	G19018126	U72900DL2009PTC195195	N3 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
615	G25516543	U74120DL2008PTC175147	NAGPAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
616	G21281233	U45204DL2009PTC193064	NALANDA SUPERSTRUCTURE PRIVATE LIMITED
617	G25321944	U70109DL2007PTC160758	NAMAN REALTECH PRIVATE LIMITED
618	G22463715	U45400DL2007PTC163944	NANDA REALTORS PRIVATE LIMITED
619	G21259718	U15549DL1998PTC094319	NANDADEVI FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
620	G29484326	U22100DL2009PTC193259	NARVI GLOBAL INFRATECH PRIVATE LIMITED
621	G18407932	U70100DL2012PTC245303	NARWAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
622	G21997978	U45309DL2006PTC156221	NAUNIDH ESTATES PRIVATE LIMITED
623	G17275017	U23209DL2010PTC205296	NAVYANTRA ENERGY RESOURCES PRIVATE LIMITED
624	G20550273	U45204DL2013PTC260244	NAYIBUNIYAAD DEVELOPER PRIVATE LIMITED
625	G19085976	U45201DL2006PTC147627	NBL BUILDCON PRIVATE LIMITED
626	G23745136	U45400DL2013PTC259408	NCR HEIGHTS PRIVATE LIMITED
627	G28890309	U22220DL2007PTC169343	ND MODEL AGENCY PRIVATE LIMITED
628	G23668130	U74899DL1994PTC060131	NDH INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
629	G17157124	U52390DL2011PTC225713	NETBASE INFOWAYS PRIVATE LIMITED
630	G11017373	U73100DL2007PTC169136	NETCELLS BIOTECH PRIVATE LIMITED
631	G19172147	U51909DL2012PTC233181	NEWERA E MART PRIVATE LIMITED
632	G28449601	U72300DL2010PTC198535	NICHE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
633	G03607884	U45200DL2006PTC157183	NICMARSH ELITE RESIDENTIAL PRIVATE LIMITED
634	G27962505	U51909DL2010PTC210896	NIHAL ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
635	G20768883	U55101DL2008PTC181638	NIPRIT HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
636	G07487366	U74899DL1990PTC040986	NIRBHAY CHIT PRIVATE LIMITED
637	G29683224	U17200DL2011PTC228243	NITYA BAJAJ DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED
638	G28228278	U93000DL2009PTC194532	NIWAS INFOTECH PRIVATE LIMITED
639	G12454351	U45200HR2013PTC048565	NNN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
640	G22877229	U22110DL1997PTC088602	NOIDA BAZAR PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
641	G19159755	U51909DL1996PTC081131	NOUVELLE MARKETING & CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
642	G13866975	U64203DL2009PTC194537	NOVA TELEPROJECTS PRIVATE LIMITED
643	G20182382	U74999DL2015OPC287642	NOVELTY INFOSYSTEMS OPC PRIVATE LIMITED
644	G24179392	U67120DL2008PTC176134	NRGL SECURITIES SERVICES PRIVATE LIMITED
645	G29659596	U74991DL2006PTC148366	NU-TECH LAMINATES PRIVATE LIMITED.
646	G20756565	U15412DL2011PTC229146	NUTRITREAT FOOD SPECIALTIES PRIVATE LIMITED
647	G17941436	U51420DL2008PTC175782	NVR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
648	G28258044	U72900DL2011PTC215229	NXTIT TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
649	G14528780	U51909DL2006PTC147851	NYSA TECHNOLOGIES PVT LTD
650	G28287498	U51909HR2011PTC043246	OBEY MARKETING PRIVATE LIMITED
651	G29715281	U70102DL2006PTC153915	OCEAN BUILDWELL PRIVATE LIMITED
652	G30262240	U40103DL2016FTC292521	OCI SOLAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
653	G14315006	U72900HR2013PTC049794	OEDIPUS SERVICES PRIVATE LIMITED
654	G22002281	U52590DL2013PTC260947	OFFERBABA RETAILS PRIVATE LIMITED
655	G20355350	U74140DL2012PTC232675	OFFICE CARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
656	G30042485	U67120DL2010PTC208206	OJASWA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
657	G28036358	U35990DL2016PTC292125	OK PLAY E VEHICLES PRIVATE LIMITED
658	G27961911	U45201DL2005PTC133011	OM OXY REALTORS PRIVATE LIMITED
659	G29967619	U63000DL2015PTC286112	OMKARA COURIER AND CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED
660	G24192254	U51109DL1999PTC099922	ONS TRADING PRIVATE LIMITED
661	G18192880	U93000DL2010PTC205717	OODLES CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
662	G14160980	U74900DL2012PTC246797	ORA UNIVERSAL SERVICES PRIVATE LIMITED
663	G27842806	U22100DL2012PTC241054	ORANGE CINE NEXT PRIVATE LIMITED
664	G18476150	U55109DL2004PTC127234	ORANGE INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
665	G28456267	U51909DL2009PTC189894	ORAYAN ORE PRIVATE LIMITED
666	G30589477	U51397DL2012PTC233746	ORSUS TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
667	G20025318	U33112DL2010PTC210222	ORTHOPLANT MEDICAL PRIVATE LIMITED
668	G27915826	U51909DL1986PTC023192	OSLO OVERSEAS PRIVATE LIMITED
669	G04457842	U74899DL1993PTC055628	OSP PACKAGING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
670	G20266318	U72200HR2015OPC055042	LOUD RESEARCH TECHNET OPC PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
671	G29104213	U55101DL2009PTC194004	P AND E HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
672	G16785305	U29199DL2006PTC144903	P.D.A. ENGINEERING PRIVATE LIMITED
673	G25320805	U72100DL2014PTC268834	P3P TECHNOLOGICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
674	G13853296	U51909DL2004PLC131023	PAMSKI OVERSEAS TRADE LIMITED
675	G20558136	U74140DL2013PTC250512	PANIKA FINE ART COMPANY PRIVATE LIMITED
676	G05995865	U51505DL1992PTC048988	PARADISE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
677	G16627309	U70200DL2012PTC233274	PARV INFRASOLUTION PRIVATE LIMITED
678	G16763575	U51909DL2013PTC256961	PATROL RETAIL PRIVATE LIMITED
679	G18907584	U74899DL1981PTC011921	PAWAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
680	G19941152	U55101DL2011PTC217622	PC HOTELS PRIVATE LIMITED
681	G30330286	U72900DL2013PTC250045	PC RESOLVES PRIVATE LIMITED
682	G11038239	U45400DL2008PTC172170	PCG ESTATE HOLDINGS PRIVATE LIMITED
683	G16598898	U45200DL2010PTC205331	PE INFRATECH PRIVATE LIMITED
684	G15761646	U15400DL2011PTC214511	PEACOCK FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
685	G17361635	U51909DL2013PTC254050	PERFECT HOME LOAN SERVICES PRIVATE LIMITED
686	G18959841	U74899DL1988PTC032695	PERFECT LATEX PVT LTD
687	G19656230	U80301DL2013PTC252407	PERFECT MY ENGLISH TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
688	G16740540	U22100DL2011PTC216211	PERFECT PROMOTION PRINT HOUSE PRIVATE LIMITED
689	G29691979	U92111DL1998PTC097458	PERSPECTIVE FILMS PRIVATE LIMITED
690	G11075793	U24232DL2005PTC133778	PETAL LABORATORIES PRIVATE LIMITED
691	G29206687	U74999DL2013PTC252126	PIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
692	G21498738	U55101DL2012PTC233089	PICCADILY HOTELS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
693	G30273866	U72900HR2015PTC057416	PIKADEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
694	G20248712	U24129DL2012PTC236540	PINNACLE AGRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
695	G28102341	U74140DL2011PTC213771	PINNACLE ELEVATORS PRIVATE LIMITED
696	G28776136	U74999DL2012PTC241671	PIOLINE BIOTECH PRIVATE LIMITED
697	G22252712	U51909DL2011PTC219434	PIONEER GLOBAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
698	G14137582	U92490DL2013PTC258958	PIONEER MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
699	G10217388	U70101HR2013PTC049953	PIONEER URBANTECH HOMESTEAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
700	G10217909	U70101HR2013PTC049971	PIONEER URBANTECH HOUSING DEVELOPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
701	G22268494	U18109DL2014PTC264575	PIOUSPICK FASHIONS PRIVATE LIMITED
702	G29484763	U22110DL2009PTC193292	PITAMBRA PAPER & BOARD CONVERTERS PRIVATE LIMITED
703	G23985039	U63000HR2013PTC056826	PLANETARY WAVE TRAVEL & LEISURE CENTRE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
704	G19684281	U72900DL2012PTC230222	PLANETWAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
705	G21225552	U74920DL2012PTC243790	PLUS91 SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
706	G23948789	U74140HR2013PTC048841	PLUTUS REALCON PRIVATE LIMITED
707	G19608678	U50500DL2011PTC228209	POOJA CNG MASTERS PRIVATE LIMITED
708	G20541207	U74140DL2013PTC256655	POOJA FORGINGS PRIVATE LIMITED
709	G31506579	U51909DL2004PTC128701	POPULAR IMPEX PRIVATE LIMITED
710	G29311313	U51101DL2009PTC196672	POWER AGENCIES PRIVATE LIMITED
711	G24587321	U51101DL2005PTC143508	PPR COMMODITIES PRIVATE LIMITED
712	G30527964	U74899DL2005PTC143702	PRAGAUN SECURTIES PVT. LTD.
713	G21196605	U67120DL2010PTC198370	PRAM SECURITIES PRIVATE LIMITED
714	G28624310	U72200DL2012PTC231425	PREEMINENT SMART SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
715	G29318508	U15132DL2010PTC205617	PREETI MILK FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
716	G21849104	U67120DL2011PTC227107	PREMDAYA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
717	G19963032	U31401DL2013PTC247357	PRIDE MEP SERVICES PRIVATE LIMITED
718	G28528420	U74899DL1994PTC061134	PRIMA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
719	G30855779	U70100DL2012PTC235245	PRINCECO STRUCTURES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
720	G17157306	U74900DL2013PTC258453	PRINTCLUES PRIVATE LIMITED
721	G23032261	U70100DL2012PTC245867	PRISTINA PROSPERITY INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
722	G19777028	U22100DL2011PTC217451	PRISTINE COUNCILORS MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
723	G19753235	U51909DL2011PTC217426	PRISTINE COUNCILORS TRADEX PRIVATE LIMITED
724	G19765817	U40109DL2011PTC217429	PRISTINE COUNCILORS URJA PRIVATE LIMITED
725	G19501014	U72200DL2009PTC191647	PRO INFOTECH PRIVATE LIMITED
726	G21740154	U45201DL2012PTC237768	PROGRESSIVE INFRACON PRIVATE LIMITED
727	G29467487	U70102DL2013PTC254175	PROPERTY BUILDCON PRIVATE LIMITED
728	G27786854	U40108DL2012PTC234159	PROXIMATE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
729	G28604312	U74999DL2012PTC246012	PRS GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
730	G30172571	U93000DL2013PTC260839	PUPILS CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED
731	G16735748	U74999DL2009PTC193128	PURCHASING MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
732	G28990091	U01407DL2013PTC248469	PURE GUAR INDIA PRIVATE LIMITED
733	G19015536	U33111DL1998PTC094207	PUSHPANJALI IMAGING PRIVATE LIMITED
734	G22521660	U74140DL2008PTC185290	PWR CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
735	G18133967	U72200HR2013PTC048594	PYRAMID TECHNET PRIVATE LIMITED
736	G20701157	U74899DL1994PTC061275	R C AND SONS PRIVATE LIMITED
737	G14147490	U15139DL2010PTC209756	R R S AGRO PRIVATE LIMITED
738	G20149969	U45200DL2007PTC159373	R S A INFRATECH PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
739	G22096697	U74140DL2013PTC259486	R S HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED
740	C76492883	U74992HR2006PTC036417	R. C. N. CHITS PRIVATE LIMITED
741	G23712987	U52100DL2013PTC255925	RACCOON INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
742	G19705680	U74140DL2013PTC251830	RADIANT ASCENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
743	G15696461	U51505DL2014PTC273529	RADY ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
744	G29255981	U74140DL2008PTC185403	RAHAT RISK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
745	G24822991	U45400DL2008PTC184893	RAINFOREST DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
746	G19488295	U45400DL2007PTC164596	RAJ GARG BUILDERS PRIVATE LIMITED
747	G18933242	U55101DL2010PTC207170	RAJASTHAN HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
748	G30701148	U85100DL2008PTC179314	RAJDARBAR VISION PRIVATE LIMITED
749	G22216642	U18101DL2004PTC131710	RAJEEV GARMENTS PRIVATE LIMITED
750	G19787761	U51909DL2013PTC257158	RAK EXIM INDIA PRIVATE LIMITED
751	G28927978	U74999DL2012PTC245792	RAMANAND KRISHAN DEV SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
752	G20005427	U72300DL2006PTC146005	RAMANEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
753	G20001525	U92199DL2006PTC147267	RAMANEE VISIONS PRIVATE LIMITED
754	G29257185	U65993DL1995PTC073293	RAMEET INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
755	G18172460	U67190DL2011PTC223891	RAMESHWARAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
756	G21934765	U45300DL2012PTC236067	RAMESHWARAM INFRACON PRIVATE LIMITED
757	G29939964	U55101DL2015PTC277542	RANGE TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED
758	G29842671	U74999HR2011PTC042683	RAS RESOURCES ACCESS SERVICES PRIVATE LIMITED
759	G22275069	U72200DL2010PTC201697	RD SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
760	G23389182	U63040DL2010PTC210426	REGAL EXPEDITIONS PRIVATE LIMITED
761	G28755700	U36911DL2010PTC204962	REGALBRILLIANCE JEWELS PRIVATE LIMITED
762	G18913657	U50400HR2012PTC045981	REINCARNATION AUTO SERVICES PRIVATE LIMITED
763	G30361604	U72200DL2013PTC255601	REKOMEND MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
764	G29110905	U32109HR2008PTC037566	RELIABLE APPLIANCES MAINTENANCE PRIVATE LIMITED
765	G29406063	U40101DL2013PTC256090	RENOVABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
766	G29693918	U73100DL2012PTC244015	RESALYSIS CONSULTING PRIVATE LIMITED
767	G19860352	U72900DL2011PTC215950	RESILIENCE SOLUTIONZ PRIVATE LIMITED
768	G15263668	U52335DL1998PTC096099	RESP OVERSEAS PRIVATE LIMITED
769	G25324468	U74140DL2013PTC251814	REYA CAPITAL PRIVATE LIMITED
770	G19442839	U74999DL2013PTC261288	REYNOLDS AIR SERVICES PRIVATE LIMITED
771	G28616332	U63040DL2010PTC197936	RICHE RICH HOLIDAYS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
772	G30489306	U45400DL2007PTC163905	RIDHI REALTECH PRIVATE LIMITED
773	G18933812	U52300DL2011PTC214839	RIGHT INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
774	G27698265	U74140DL2012PTC238967	RIGHTCONNECTIONS SERVICES PRIVATE LIMITED
775	G23670037	U72200DL2010PTC206340	RIGIL KENT SOFTECH PRIVATE LIMITED
776	G29028321	U36930DL2011PTC229511	RISSALA POLO PRIVATE LIMITED
777	G20665840	U70102DL2008PTC184911	RITVASANT ESTATE PRIVATE LIMITED
778	G24839938	U13209DL2013PTC250707	RIVERSDALE MINES PRIVATE LIMITED
779	G23554496	U45202DL2006PTC155974	RMS BUILDCON PRIVATE LIMITED
780	G19185354	U60231DL2010PTC200163	RNL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
781	G13369434	U22100HR2013PTC051325	ROBINSON PUBLICATION PRIVATE LIMITED
782	G21335435	U93000DL2013PTC248559	ROCK CITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
783	G29438306	U72300DL2007PTC163844	ROCK DENSE NETWORK PRIVATE LIMITED
784	G28864528	U74999DL1998PTC097246	ROSHIKA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
785	G29858354	U72900DL2008PTC185984	ROWHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
786	G28747624	U74900DL2013PTC247913	RRR BUSINESS PROMOTION PRIVATE LIMITED
787	G22790646	U51101DL2014PTC270044	RSC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
788	G19817543	U45400DL2012PTC246383	RSS BUILDCON PRIVATE LIMITED
789	G29782539	U74140DL2015PTC275501	RST PRODUCTS PRIVATE LIMITED
790	G28228062	U24232DL2010PTC198942	RTG HERBALS PRIVATE LIMITED
791	G23132194	U74140DL2012PTC246094	RUBICON MUKESH ART PROJECT PRIVATE LIMITED
792	G20887758	U15419DL2013PTC254414	RUNZ CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
793	G21620760	U70102HR2013PTC048961	S&G INFRADEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
794	G29445665	U70100HR2010PTC040901	S. S. ENVIRO INFRA PRIVATE LIMITED
795	G31098031	U70200HR2011PTC044671	S.R. REALTY SERVICES PRIVATE LIMITED
796	G19573716	U70101DL2010PTC200877	S.S.S.V. INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
797	G22862031	U67190HR2011PTC043476	SAAKAR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
798	G15699531	U74910DL2004PTC126686	SAB RECRUITERS PRIVATE LIMITED.
799	G30646715	U70102DL2012PTC237085	SABHYA INFRA TECH PRIVATE LIMITED
800	G13228044	U15311HR1986PTC025020	SACHDEVA AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
801	G30561591	U74140DL2011PTC224862	SACHIKA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
802	G20892642	U74140DL2015PTC278837	SADVA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
803	G30024350	U55101DL2010PTC204210	SAFAR HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
804	G19102631	U74920DL2012PTC242823	SAFE ZONE DETECTIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
805	G23031834	U74899DL1983PTC016365	SAHIB CHITS (DELHI) PRIVATE LIMITED
806	G31158686	U70100DL2012PTC235598	SAIKIRPA REALBUILD PRIVATE LIMITED
807	G20326047	U74899DL1983PTC073649	SALUJA CEMENTS PRIVATE LIMITED TFR.CO.FROM KANPURU.P. TO DEL

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
808	G20395133	U63000DL2012PTC239240	SALVAGE SERVICES PRIVATE LIMITED
809	G29281763	U15132DL2010PTC203574	SAMBHAWANA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
810	G29586864	U51909DL2007PTC163237	SAMPANN SOURCING PRIVATE LIMITED
811	G21010129	U70102DL2013PTC249042	SAMRAGI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
812	G17959107	U51909DL2005PTC142711	SAMSON PRESS PRIVATE LIMITED
813	G20894119	U72200DL2011PTC213202	SANDROCK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
814	G28163723	U74140DL2014PTC271228	SANTACART RETAIL PRIVATE LIMITED
815	G30217558	U45200DL2008PTC176559	SARABH REALITY PRIVATE LIMITED
816	G17880055	U40101DL2008PTC180448	SARITA ENERGY PRIVATE LIMITED
817	G16889727	U93000DL2013PTC248298	SARTHAK SURVEYING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
818	G20879342	U70200DL2014PTC263946	SARVASHUDDHI BUILDCON PRIVATE LIMITED
819	G28721504	U74999DL2012PTC235805	SAS ESOLTRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
820	G22791214	U67190DL2015PTC283605	SAT PARKASH JINDAL & SONS FINANCE PRIVATE LIMITED
821	G30343933	U70200DL2015OPC281593	SAT PARKASH JINDAL & SONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
822	G19732957	U45400DL2007PTC162428	SATORI HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
823	G27601780	U93000HR2013PTC048769	SATVICA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
824	G29128832	U51909HR2001PTC035558	SAUBHAGYA EXIM TRADERS PRIVATE LIMITED
825	G29195112	U18101HR2000PTC035554	SAUBHAGYA HANDICRAFTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
826	G21637681	U51909DL1997PTC085973	SAVANT EDUCATION PRIVATE LIMITED
827	G14102115	U52590HR2014PTC051769	SAVI MARKETING PRIVATE LIMITED
828	G15809742	U74140DL2004PTC125793	SCANDIA ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
829	G30506885	U74899DL1951PTC002006	SCREEN EXCHANGE PRIVATE LIMITED
830	G30346571	U72900DL2007PTC171600	SCS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
831	G30235592	U51900DL2012PTC234163	SCUBE ERETAIL PRIVATE LIMITED
832	G20395703	U55101DL2010PTC203904	SD GOURMET HOUSE PRIVATE LIMITED
833	G20395414	U55101DL2008PTC175218	SD HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
834	G22158570	U74140DL2012PTC244283	SDK WORTH REFORMATION PRIVATE LIMITED
835	G17309873	U72300DL2008PTC172669	SEAQS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
836	G27575273	U72900DL2016PTC290236	SELFYCART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
837	G20769436	U70109DL2013PTC256228	SERPENTINE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
838	G28662377	U72200DL2012PTC246774	SERVENET LINKS PRIVATE LIMITED
839	G29790516	U74999DL2012PTC237357	SEWAK MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
840	G20124673	U85120DL2000PTC105325	SHAH DENTAL LAB PRIVATE LIMITED
841	G20376893	U18101DL2012PTC230373	SHALES RETAIL VENTURE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
842	G22185177	U85195DL2007PTC163968	SHAMBHAVI DEVELOPERS & DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
843	G17999111	U51909DL2012PTC240390	SHANKAR GENSET PRIVATE LIMITED
844	G25372269	U19110DL2012PTC231957	SHAUN DESIGN PRIVATE LIMITED
845	G30443048	U72200DL2012PTC239077	SHAURYA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
846	G17003641	U85121DL2006PTC152061	SHAYOKA MEDI SERVICES PRIVATE LIMITED.
847	G27912435	U74900DL2011PTC229502	SHAZIA REHMAN DESIGN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
848	G23291826	U15139DL2009PTC196046	SHEF FOODS PRIVATE LIMITED
849	G26092262	U27101DL2011PTC223227	SHERMAN ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
850	G20314761	U63040DL2012PTC240009	SHIRDI TRAVELS PRIVATE LIMITED
851	G24991283	U70102DL2012PTC232574	SHIV RADHA PETROLIUM PRIVATE LIMITED
852	G24935314	U55101DL2013PTC249697	SHIV VATIKA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
853	G30315063	U74899DL1999PTC101383	SHIVA CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED
854	G24228975	U11101DL2011PTC228673	SHIVALIK PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
855	G19963982	U17115HR1992PTC031675	SHIVAM WOOLTEX PRIVATE LIMITED
856	G29800943	U70102DL2014PLC263490	SHIVANI INFRABUILD LIMITED
857	G29971488	U22219DL2014PTC266075	SHIVANI MEDIA PRIVATE LIMITED
858	G17229816	U21011DL1996PTC076820	SHORABH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
859	G27893551	U35990DL2009PTC197476	SHREE SOBER AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
860	G29506771	U45200HR2007PTC036877	SHREYANSH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
861	G19640440	U70200DL2012PTC246709	SHRI EKAKSHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
862	G20736021	U24232DL2011PTC215050	SHRI SAI AYURVEDA PRIVATE LIMITED
863	G11935038	U74999DL2011PTC219179	SHRI SAI TREXIM PRIVATE LIMITED
864	G24258758	U24211DL2008PTC182300	SHRISONS CROP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
865	G21577135	U55101DL2013PTC256281	SHROCONS VENTURES PRIVATE LIMITED
866	C77315364	U70200DL2013PTC247155	SHUBH I PROPERTY SOLUTION PRIVATE LIMITED
867	G28308229	U65100DL2009PTC192261	SHUMASIK NIVESH PRIVATE LIMITED
868	G22328009	U72200DL2008PTC182301	SHYAM TELECOM & IT SERVICES PRIVATE LIMITED
869	G17058009	U55101HR2010PTC041056	SHYLA FOODS PRIVATE LIMITED
870	G30241855	U72200DL2012PTC237284	SIDDHARSH NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
871	G19261148	U32109HR2012PTC047799	SIDDHI TELECOM PRIVATE LIMITED
872	G27995695	U80904DL2014PTC263165	SIDDHI VINAYAK INSTITUTE OF SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
873	G30589378	U22200DL2010PTC200294	SILVER OAK MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
874	G16643686	U65191DL2015PTC285595	SIMPLE ADVISORS PRIVATE LIMITED
875	G17279209	U93000DL2013PTC247691	SIMRAN SAI DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
876	G29003860	U15122DL2015PTC278509	SINAMON PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
877	G17208216	U72200DL2013PTC256223	SINGLE POINT DATA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
878	G30444251	U41000DL2014PTC271831	SIS HYDRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
879	G23588809	U72200DL2012PTC238358	SIT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
880	G20725685	U80301DL2013PTC257157	SITA DEVI MEMORIAL EDUCATION PRIVATE LIMITED
881	G19829647	U70101DL2006PTC148712	SITAC PROJECT DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
882	G19257906	U51909DL2012PTC244601	SIVANA MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
883	G29516887	U74999DL2013PTC248930	SIYA BIO ENERGY PRIVATE LIMITED
884	G30588222	U45201DL2005PTC138071	SKG BUILDTECH PRIVATE LIMITED
885	G14517650	U85100DL2011PTC228646	SKIN PLUS CLINICS PRIVATE LIMITED
886	G20838231	U51225DL2013PTC254625	SKS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
887	G29568557	U70101HR2013PTC050089	SKY RICH INFRA PRIVATE LIMITED
888	G29886595	U72900DL2012PTC240821	SKYGLOBAL INFOSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
889	G19308824	U74140DL2011PTC220593	SKYLAB SECURITY & SERVICES PRIVATE LIMITED
890	G20141438	U52341DL2013PTC250166	SL DISCOVERI STUDIO PRIVATE LIMITED
891	G29941994	U70102DL2015PTC276486	SLICE REAL ESTATE INDIA PRIVATE LIMITED
892	G22898878	U72900DL2013PTC256395	SMARTNEO SOFTEC PRIVATE LIMITED
893	G30286108	U50102DL2006PTC156442	SMD AUTO COMPONENT PRIVATE LIMITED
894	G20208286	U70109DL2006PTC150828	SOFT CORNER ESTATES PRIVATE LIMITED.
895	G30665996	U72200HR2014PTC052674	SOFT MIND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
896	G24633414	U45200DL2008PTC176507	SOHUM BUILDCON PRIVATE LIMITED
897	G19902535	U80904DL2007PTC159180	SOIL EDUCATION INDIA PRIVATE LIMITED
898	G29017399	U70101DL2005PTC140762	SOPAN BUILDWELL PRIVATE LIMITED
899	G14399893	U70102DL2014PTC273839	SPEC INFRATECH PRIVATE LIMITED
900	G28394690	U74200DL2008PTC177126	SPECTRO WELD INSTITUTE PRIVATE LIMITED
901	G30196976	U22190DL2011PTC225181	SPIRIT CABLE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
902	G23112816	U70109HR2012PTC046404	SPLR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
903	G19869890	U74990DL2011PTC218687	SPORTS ARENA MEDIA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
904	G23667579	U15400DL2013PTC247597	SPR FOODS PRIVATE LIMITED
905	G26530246	U45200DL2008PTC173515	SPRING INFRABUILD PRIVATE LIMITED
906	G21597331	U24122DL2005PTC137481	SQM AGRO INDIA PRIVATE LIMITED
907	G20610614	U70101DL2009PTC195214	SREYAS LUDHIANA ESTATE PRIVATE LIMITED
908	G28650349	U45200DL2009PTC193419	SRI SHIVAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
909	G29212339	U29295DL2013PTC251569	SS METAL FORMERS PRIVATE LIMITED
910	G27836790	U70200DL2011PTC227741	SSR ESTATE PRIVATE LIMITED
911	G27838705	U63040DL2013PTC256203	SSR TOUR & TRAVELS PRIVATE LIMITED
912	G29320603	U70200DL2013PTC249732	ST REALCON PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
913	G21214325	U93000DL2009PTC188091	STANFORD DISTILLERY PRIVATE LIMITED
914	G20307443	U51909DL2011PTC222159	STAR FISH MARCOM PRIVATE LIMITED
915	G16623209	U15430DL2012PTC240022	STELLAR FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
916	G22803936	U74999DL2009PTC191666	STERLING WEALTH AND CAPITAL ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED
917	G23760630	U74900DL2016PTC291614	STORMHARDWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
918	G29339074	U74140DL2014PTC266930	STRATMatics CONSULTING PRIVATE LIMITED
919	G22116404	U72900DL2013PTC255486	STRATTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
920	G17540063	U74899DL2005PLC141838	SUBBA POWER LIMITED
921	G19652817	U35122DL2007PTC166959	SUKU PRESS-SHOP AUTOMATION PRIVATE LIMITED
922	G23756034	U31908DL2013PTC254178	SUN FAME (INDIA) PRIVATE LIMITED
923	G21033758	U29253DL2009PTC194140	SUN GREEN RENEWABLE RESOURCES PRIVATE LIMITED
924	G20626214	U28990DL2012PTC233791	SUNAM HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
925	G21013933	U63040DL2012PTC230883	SUPER TRAVENTURE PRIVATE LIMITED
926	G30781470	U72200DL2011PTC214694	SUPPORTXPERTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
927	G20653887	U24233DL2008PTC173251	SURE MEDIPHARM PRIVATE LIMITED
928	G20076568	U74920DL2011PTC216590	SURMAYA SECURITY PRIVATE LIMITED
929	G18160564	U72300DL2014PTC265237	SURMONTE INFOGEN PRIVATE LIMITED
930	G30656045	U32204DL2013PTC248109	SURYA MOBILITY PRIVATE LIMITED
931	G23493018	U01110DL2012PTC242737	SUSTENANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
932	G29391570	U22100DL2011PTC212752	SYNDICATE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
933	G16722217	U85191DL2007PTC163296	TAJARO PHARMA PRIVATE LIMITED
934	C80977127	U74300DL2010PTC205501	TANGENT COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
935	G27963644	U51909DL2012PTC236719	TAPANYA IMPEX PRIVATE LIMITED
936	G28065225	U33110DL2013PTC249371	TAPANYA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
937	G20424727	U72900DL2012PTC234264	TATHASTU ONLINE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
938	G14072169	U74900DL2008PTC185584	TAURUS FABRICS PRIVATE LIMITED
939	G20138319	U15122DL2013PTC260786	TEASTA BREW PRIVATE LIMITED
940	G17927963	U74140DL2015PTC283493	TECHNO SAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
941	G21983135	U32109DL2011PTC226152	TEKSTAR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
942	G23861040	U64202DL1997PTC086841	TELE COMPETENCE INDIA PRIVATE LIMITED
943	G15567209	U65921DL1991PTC045994	TEMPO FINANCE (NORTH) PRIVATE LIMITED
944	G12220760	U63040DL2016OPC291664	TERRE INDIA JOURNEYS (OPC) PRIVATE LIMITED
945	G20553533	U72200DL2012PTC240870	TETRAMOVILE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
946	G28194934	U74999DL2014PTC267885	TGT VENTURE PRIVATE LIMITED
947	G20882718	U29113HR2013PTC051160	THAKURAL POWERTECH PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
948	G28381507	U80302DL2005PTC136375	THAMES VALLEY TECHNICAL EDUCATIONAL POINT PRIVATE LIMITED
949	G28440519	U74130DL2012PTC236877	THAT'S THE SPIRIT RESEARCH PRIVATE LIMITED
950	G30047492	U74900HR2013PTC049414	THE SERENE SWAN STUDIO PRIVATE LIMITED
951	G28089019	U72200DL2011PTC227048	THOUGHTWAVER I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
952	G19926880	U45201DL2005PTC141867	TIRUSHREE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
953	G22158075	U74140DL2015PTC277675	TISMASTU INTERIOR DECORATOR & CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
954	G17539214	U52320DL2013PTC246906	TORBA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
955	G18128207	U29150DL2012PTC243287	TOREN HEIGHT ELEVATORS PRIVATE LIMITED
956	G30643167	U74140DL2015PTC287296	TQS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
957	G23740319	U55101DL2003PTC123505	TRANQUILITY HOTELS PRIVATE LIMITED
958	G30300487	U92410DL2012PTC237581	TRANSFORMATION GYM & SPA PRIVATE LIMITED
959	G16247959	U51909HR2002PTC034966	TRICON IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
960	G17332107	U26940DL2013PTC255197	TRIDENT CEMENTS PRIVATE LIMITED
961	G21767983	U74300DL1997PTC084224	TRILINGS TRADE PRIVATE LIMITED
962	G24021479	U51909DL2005PTC143208	TRISS EXIM PRIVATE LIMITED
963	G22020770	U74900DL2011PTC214053	TRISTAR RELOCATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
964	G31122252	U80302DL1999PTC098653	TRIX AVIATION, ENGINEERING AND TQM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
965	G21365085	U72900DL2012PTC238742	TRUZECH TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
966	G28727097	U29253HR2011PTC043591	TUSHAR WEIGHT PACK PRIVATE LIMITED
967	G20456927	U93000DL2011PTC227243	U N ME EVENTS PRIVATE LIMITED
968	G30155568	U24120HR2012PTC047114	UJJAWAL BIOCHEM AND ORGANICS PRIVATE LIMITED
969	G29158375	U63030DL2011PTC223360	ULKA AVIATION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
970	G22735542	U26941DL2008PTC179569	ULTRAWHITE CEMENT PRIVATE LIMITED
971	G29307428	U15490DL2004PTC130136	UMESH FOODS PRIVATE LIMITED
972	G27962398	U36999DL2011PTC223840	UNIQUE ACCESS FLOORS PRIVATE LIMITED
973	G22088884	U51909DL2005PTC138908	UNIQUE TRADEX PRIVATE LIMITED
974	G16444101	U72200DL2012PTC240915	UNISYS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
975	G29066511	U74950HR2001PTC034771	UNITED SPIRAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
976	G21177373	U74899DL1993PTC051891	UNIORTH FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
977	G05089206	U21014HR2010PTC041587	UNO PACK PRIVATE LIMITED
978	G28536738	U74140DL2008PTC179643	US SOFTWARE PRIVATE LIMITED
979	G19905819	U74999DL2011PTC223283	UTL CARGO AND COURIER PRIVATE LIMITED
980	G29660446	U52300DL2010PTC197677	V & S TRADEX INDIA PRIVATE LIMITED
981	G28037588	U45400DL2016PTC290887	V. V. ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
982	G19565134	U74999DL2007PTC161371	V.P. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
983	G30211536	U67120DL2010PTC207757	VAIMITRA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
984	G06177950	U19115DL2013PTC246991	VAISHNAVI DESIGNS PRIVATE LIMITED
985	G28305878	U74899DL1984PTC017903	VALLEY INTERNATIONAL PVT. LTD.
986	G23457831	U45400DL2007PTC171288	VANI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
987	G24440653	U74999DL2013PTC256715	VANSHRAJ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
988	G28656320	U70200DL2012PTC243864	VARDAAN INFRABUILD PRIVATE LIMITED
989	G25183054	U70101DL2005PTC142964	VARDHMAN BHARAT TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
990	G14551642	U72200HR1996PTC033178	VARUN INFOTECH PVT LTD
991	G28534998	U60200DL2012PTC245080	VASUDEV AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
992	G29600707	U72200HR2010PTC040584	VATS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
993	G30242523	U74899DL1995PTC066826	VED MATA MARKETING PRIVATE LIMITED
994	G28459998	U74900DL2013PTC261276	VEDIC AMRIT PRIVATE LIMITED
995	G12696100	U74140DL2015PTC283485	VELVET PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
996	G09020066	U18109DL2012PLC231519	VENUS KNITFAB LIMITED
997	G17864794	U45207DL2008PTC180849	VERIN POWER PRIVATE LIMITED
998	G21572128	U80302DL1996PTC083484	VERONICA COMPUTER INSTITUTE PRIVATE LIMITED
999	G17867599	U45207DL2008PTC181362	VERSA POWER PRIVATE LIMITED
1000	G18833491	U70200DL2007PTC167000	VERTEX INFRABUILD PRIVATE LIMITED
1001	G23518582	U51909DL2010PTC209810	VGS IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
1002	G30078802	U51909DL2016PTC303127	VIBRANT IDEAS PRIVATE LIMITED
1003	G20374419	U52590DL2009PTC190291	VICTOR PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
1004	G21129754	U80221DL2011PTC212135	VIDEN LEARNING PRIVATE LIMITED
1005	G30670129	U80904HR2012PTC047408	VIKALP SERVICES PRIVATE LIMITED
1006	G00555565	U74140DL2006PTC144643	VIMS TECHNO CONSULTANT PRIVATE LIMITED
1007	G20641882	U24211DL2005PTC139494	VINAYAK AGRICHEM PRIVATE LIMITED
1008	G28871259	U45200DL2006PTC155130	VINIT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1009	G29459757	U74899DL1992PLC051455	VIRAT APPLIANCES LIMITED
1010	G12370714	U45207DL2001PTC110838	VISHAL SHIVGANGA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1011	G21550009	U52190DL2013PTC247946	VISHI ELEGANCE DEZIGNS PRIVATE LIMITED
1012	G29619285	U64200DL2005PTC265761	VISUAL MOBILE PRIVATE LIMITED
1013	G19146604	U72900DL2012PTC246340	VISUAL TECHSOFT PRIVATE LIMITED
1014	G19907385	U72900DL2007PTC165561	VIVA TECHNEEV EDUSOFT PRIVATE LIMITED
1015	G29999042	U15122DL2007PTC166319	VKG FOODS PRIVATE LIMITED
1016	G30323455	U74140DL2003PTC121337	VKG MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1017	G06759633	U51909DL2011PTC220186	VMC TRADELINK PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
1018	G23006182	U72900DL2013PTC254584	VNEE INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1019	G30853097	U74140DL2008PTC177411	VNV LOAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1020	G17872672	U70109DL2012PTC230018	VOICE PROPERTY PRIVATE LIMITED
1021	G30456594	U45400DL2010PTC210036	VRIKSH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1022	G18326983	U55101HR2013PTC048378	VSSS HOTELS PRIVATE LIMITED
1023	G13888839	U55101DL2008PTC183055	VY LODGING PRIVATE LIMITED
1024	G16091415	U74999DL1998PTC095950	WARWICK NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1025	G29693132	U45200DL2010PTC209776	WAVE INFRADEVELOPERS (LAXMI GANJ) PRIVATE LIMITED
1026	G19442078	U45200DL2010PTC209775	WAVE INFRADEVELOPERS (NAWABGANJ) PRIVATE LIMITED
1027	G19443183	U45200DL2010PTC209777	WAVE INFRADEVELOPERS (RAMKOLA) PRIVATE LIMITED
1028	G19444074	U45400DL2010PTC208891	WAVE INFRADEVELOPERS (RAMPUR) PRIVATE LIMITED
1029	G19440882	U45200DL2010PTC208893	WAVE INFRADEVELOPERS (SHAHGANJ) PRIVATE LIMITED
1030	G20899142	U18109HR2015PTC056523	WEARSOCIAL APPARELS PRIVATE LIMITED
1031	G28266740	U72200DL2013PTC251685	WEBFIRE INFOTECH PRIVATE LIMITED
1032	B80456486	U52300DL2011PTC217368	WEBMART RETAILS PRIVATE LIMITED
1033	G21177449	U92120DL2008PTC183605	WEEKEND FILM CITY PRIVATE LIMITED
1034	G28400992	U22190DL2012PTC242124	WHIZ DIGICOM PRIVATE LIMITED
1035	G21339957	U74999DL2013PTC251100	WIND ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1036	C76999952	U67120DL2012PTC236865	WISHFUL REALTECH PRIVATE LIMITED
1037	G18352799	U72501DL2007PTC171366	WONDERSTYX INTERNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1038	G28437093	U36912DL2009PTC196675	WOODPECKERS DECOR INDIA PRIVATE LIMITED
1039	G30348031	U52390DL2013PTC257915	WORLDDEAL TRADELINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1040	G21724737	U51101DL2007PTC165230	WOW MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1041	G20089231	U72200DL2012PTC244903	WOWZER SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1042	G14018907	U24110DL2007PTC159404	XANTHINE CHEM PRIVATE LIMITED
1043	G30764005	U74999HR2016PTC058393	XICEPTA SCIENCES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1044	G27831965	U72400DL2008PTC183602	XPRT STUDIO PRIVATE LIMITED
1045	G29668845	U74920DL2006PTC144766	XTREME SURAKSHA PRIVATE LIMITED
1046	G22020267	U74899DL1988PTC030429	Y S KAPADIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1047	G20522140	U74140HR2011PTC044526	YAGNIK MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1048	G19975499	U93000DL2009PTC190424	YAKSH MEDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	SRN (FTE)	CIN	Company Name
1049	G30213763	U67120DL2010PTC208201	YAMANGIKA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
1050	G16440059	U70109DL2014PTC271324	YATI ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED
1051	G18824391	U72200DL2005PTC143783	YOUNG ENGINEER COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
1052	G28921393	U74140DL2013PTC256264	YOUR CARE NEXT DOOR PRIVATE LIMITED
1053	G30818215	U13203DL2007PTC164764	YP MULTI MINERALS PRIVATE LIMITED
1054	G18822700	U93000HR2010FTC039992	YSI ENVIRONMENTAL SOUTH ASIA PRIVATE LIMITED
1055	G28259141	U55101DL2011PTC227788	YT HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
1056	G19789379	U52321DL1999PTC100776	YUG TRADERS PRIVATE LIMITED
1057	G22481220	U74140DL2015PTC278644	Z&N SPORTS AND HEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1058	G30635791	U93030DL2007PTC164762	ZENITH COPPER MINES PRIVATE LIMITED
1059	G27653641	U15310DL2012PTC235343	ZERO DEGREE HEALTHY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1060	G21577234	U15122DL2008PTC180784	ZEUS FOODS PRIVATE LIMITED.
1061	G13786199	U51909DL2013PTC250091	ZHAKFAR TRADING PRIVATE LIMITED
1062	G29644085	U65992DL1985PTC021406	ZODIAC CHIT FUND PRIVATE LTD.
1063	G23376023	U52300HR2011PTC042351	ZROX MARKETING PRIVATE LIMITED

PRAHLAD MEENA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

No. ROC/Sec.248/2017/123—

FORM NO. STK – 5

a

[Pursuant to Sub-Section (1) and Sub-Section (4) of Section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference :

In the matter of striking off of the companies under Section 248 (1) of the Companies Act, 2013

Cuttack-753014, the 31st March 2017

Public Notice No. 01/2017—Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that –

- (i) The following companies have not commenced business within one year of their incorporation.
- (ii) The following companies have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately proceeding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under Section 455.

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
1	RAJDEEP MINING AND MINERAL PRIVATE LIMITED	660	B C DAGARA AND SONS PVT LTD
2	MITTCO STEEL AND CASTINGS PVT LTD	661	KUNDU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
3	AUSTEN AND HADFIELDENGINEERING INDIA PVT LTD	662	SUBHAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
4	SATYAM POWER AND MACHINERY PRIVATE LIMITED	663	KLIN-DEAL PROJECTS PRIVATE LIMITED
5	BISWAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	664	AMCO CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
6	BHAGABATI LABS PRIVATE LIMITED	665	DHANVI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
7	MAMATA AGRO PRIVATE LIMITED	666	AJEETS MANAGEMENT CONTRACTING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
8	THE WORLD BIOTECH PRIVATE LIMITED	667	OM ASHIANA PRIVATE LIMITED
9	GREENHOUSE ENTERPRISES (INDIA) LIMITED	668	AP TRANS PRIVATE LIMITED
10	PALAK AGRICULTURE PRIVATE LIMITED	669	POWERKING ESTATE AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
11	TRANS OCEANIC AGROTECH LTD.	670	CITI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
12	TANISI NUTRI FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	671	HELPMAN SERVICES PRIVATE LIMITED
13	SHREE KRISHNA MUSHROOMS PRIVATE LIMITED	672	FUTURE HI-TECH PROJECTS PRIVATE LIMITED
14	SHREE SAI PURUSOTTAM FARMTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	673	JPRS POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
15	ORISSA AGRO TECH LIMITED	674	ALFA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
16	ORISSA PROMISING HORTICULTURE PRIVATE LIMITED	675	REDCON PROJECTS (INDIA) LIMITED
17	SRIMA AGRO PRIVATE LIMITED	676	MECON STRUCTURAL PRIVATE LIMITED
18	INNOVATE AGRO AND INFOTECH PRIVATE LIMITED	677	LAND INDIA ASSETS LIMITED
19	RAY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	678	HIRAKUD MOTORS PRIVATE LIMITED
20	SWAYAMSHIS AGRO INDUSTRY PRIVATE LIMITED	679	P J MOTORS PRIVATE LIMITED
21	KRUSHAKRAJ AGROTECH LIMITED	680	MAHAVIR AUTO RIDERS PRIVATE LIMITED
22	AGRO PRODUCTS PVT LTD	681	DINANATH AGENCIES PVT LTD
23	SAMBRUDHI PROJECTS PRIVATE LIMITED	682	INNOVATIVES AGRICULTURE AND BEVERAGE PRIVATE LIMITED
24	GREEN AGE AGROPRODUCTS PRIVATE LIMITED	683	ANNAPURNA AGRO BIO-TECH INDIA PRIVATE LIMITED
25	SUNTAKE AGRICULTURE INDIA PRIVATE LIMITED	684	BABA LOKANATH VARASA TRADELINKS PRIVATE LIMITED
26	RELIGOD ODISHA LIMITED	685	ODYSSA EXIM HOUSE PRIVATE LIMITED
27	SUVSATYA AGRO INDIA LIMITED	686	KOUSTUV MINING AND SMELTING PRIVATE LIMITED
28	UNIQUE BIRDS PVT LTD	687	ELOEE (I) INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
29	KALINGA FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	688	VISA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
30	PANCHAVATI FOODS PVT LTD	689	ROYAL SHARES AND SECURITIES LIMITED
31	EASTERN LIVE STOCK PVT LTD	690	INTENSITY FITNESSPRO PRIVATE LIMITED
32	NIDHIS BUSINESS SOLUTION PRIVATE LIMITED	691	GUPTA MULTI TRADERS PRIVATE LIMITED
33	MAA TARENI POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	692	BERHAMPUR INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
34	KHUSUBU POULTRY PRIVATE LIMITED	693	FUTURE FARMING MARKETING PRIVATE LIMITED
35	GREENBERRY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	694	M S BUSINESS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
36	UNIMAX EAST FEEDS PRIVATE LIMITED	695	PHOENIX FINANCIAL CARE PRIVATE LIMITED
37	M S GROWERS PRIVATE LIMITED	696	ACHIVER SOLUTIONS AND BUSINESS PRIVATE LIMITED
38	KALKI ANUGRAHA FARMS PRIVATE LIMITED	697	SWIVEL MARKETING PRIVATE LIMITED
39	SWASTIK AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	698	A ONE MERCANTILE PRIVATE LIMITED
40	BHAARATHI AGRO VENTURES INDIA LIMITED	699	CIFLORE EXPORT PRIVATE LIMITED
41	KISSAN SHAKTI AGRO BIOTECH PRIVATE LIMITED	700	SUNSHINE STOCK AND INSURANCE SOLUTION PRIVATE LIMITED
42	SHAKTY INDIA AGRO ESTATE PRIVATE LIMITED	701	SRI SAI HOME NEED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
43	ISLAND AGROFRESH INDIA PRIVATE LIMITED	702	GREEN (I) TRADING & CONSULATANCY LIMITED
44	TRUPTI AGROTECH PRIVATE LIMITED	703	ROYALFOCUS MULTI SERVICES LIMITED
45	NANDINIKALINGA DAIRY LIMITED	704	JKF CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
46	DHANA SURAKHYA AGRO LIMITED	705	SANKALP INNOVATIVE MEGA SERVICES PRIVATE LIMITED
47	CHITRA KRUSHI NIVESH LIMITED	706	BRIGHT LIFE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
48	KRUTIBIBHA BIOPRODUCTS LIMITED	707	SECURE LIFE FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	REALVISION AGRO SERVICES LIMITED	708	SANCHAYA LIFE MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
50	REAL VALUE TRADE LINK PRIVATE LIMITED	709	SHREE PATITPABAN MULTI TRADE PRIVATE LIMITED
51	KRUTIBIBHA EMU FARMINDIA PRIVATE LIMITED	710	RISHIKULYA MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
52	GAYATRI RELIABLE PRODUCER COMPANY LIMITED	711	SUNSHINE MARKETPLUS LIMITED
53	SUCCESS INDIA AGRI PROJECTS LIMITED	712	NETSCAPE MARKETING LIMITED
54	BIKASH DHARA FOODS INDIA LIMITED	713	CAREER RESEARCH MULTITRADE PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
55	SADBHAVNA INTERNATIONAL LIMITED	714	NEW AGE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
56	DYNAMIC MULTI-PRODUCTS PRIVATE LIMITED	715	KALINGA TRADING & EXPORTS PRIVATE LIMITED
57	PRAGATI AGRI BUSINESS PRIVATE LIMITED	716	SHAKTI INFRA MARKETING PRIVATE LIMITED
58	RUDRAKSH AGRO VENTURES PRIVATE LIMITED	717	PANDA SPICES PVT LTD
59	SHREE HEAVE AGRO REALCON PRODUCTIVE INDIA PRIVATE LIMITEDDD	718	EMERALD COMMEX IMPEX PRIVATE LIMITED
60	MIDEAST AGRIFOODS PRIVATE LIMITED	719	SWAD GOLD SPICES PRIVATE LIMITED
61	PRATIGYAN GOAT & AGRO FARMING INDIA PRIVATE LIMITED	720	MY TEA PRIVATE LIMITED
62	NILACHAKRA AGRICULTURE AND SPICES PRIVATE LIMITED	721	CARAFESON MARKETING PRIVATE LIMITED
63	RAKSHAK AGRO PROJECTS LIMITED	722	AMOX HOME APPLIANCE PRIVATE LIMITED
64	RELICARE AGRI CORP CO LIMITED	723	MAKEWAY MARKETING PRIVATE LIMITED
65	INDONIAGARA DEVELOPMENTS INDIA LIMITED	724	APNAA SOLUTION MULTITRADE PRIVATE LIMITED
66	VARASA SERVICES INDIA LIMITED	725	RG CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED
67	AGRAGAMI AGRI PROJECTS (INDIA) LIMITED	726	EASTERN INDIA HOMECARE PRIVATE LIMITED
68	REAL DIVINE AGRO LIMITED	727	ODISHA BAZAR PRIVATE LIMITED
69	GAYATRI AGRIORGANICLIMITED	728	NEW RAY MARKETING PRIVATE LIMITED
70	SAPTARISHI AGRITECH PRIVATE LIMITED	729	ODYSSY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71	SHOGUN AGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED	730	JAVA POINT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
72	VISVAASA AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	731	ANAND BIOMED PRIVATE LIMITED
73	AMOX AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	732	AARON BIOTECH PRIVATE LIMITED
74	SIVASHAKTI AGROVET PRIVATE LIMITED	733	FUTURE SECURE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
75	GREEN BRUKSHYA PLANTATION PRIVATE LIMITED	734	LYOMMED BIOGENETICS PRIVATE LIMITED
76	DIVINE AGRO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	735	INDU METALIKS PRIVATE LIMITED
77	BHOIRAJ AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	736	SEMTEX TRADERS LIMITED
78	MISSION INDIA AGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED	737	ASVINS TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
79	PRAKRUTI AGRIVENTURE PRIVATE LIMITED	738	JAY JAGANNATH MULTITRADE PRIVATE LIMITED
80	SARAS DAIRY AND AGRO PRIVATE LIMITED	739	BALDEV TRANSMOVERS PRIVATE LIMITED
81	DEVSHAKTI AGRIVET PRIVATE LIMITED	740	BELL MOUNTAINS OVERSEAS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
82	GET AGRO RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED	741	ALLIANCE NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
83	SWYAAM AGRI PROJECTS PRIVATE LIMITED	742	RADHA RAMAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
84	MAITRI AGROPRODUCTS INDIA LIMITED	743	SWASTIK CHROMES PRIVATE LIMITED
85	ICON EMPIRE AGRO PROJECT LIMITED	744	VEDVYAS AGENCIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
86	DYNAMIC AQUA & AGRI PRIVATE LIMITED	745	P & P MINERALS TRADING PRIVATE LIMITED
87	DEUS AGRO PRIVATE LIMITED	746	MYN METAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
88	SIDDHI BINAYAK AGRO LIMITED	747	MAHABALI MINERALS PRIVATE LIMITED
89	SPARTAN CULTIVA LIMITED	748	ARYAN GOUTTAM ENTERPRISERS PRIVATE LIMITED
90	SUVARNA BHOOMI AGRO INDIA LIMITED	749	GOUDA OVERSEAS TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
91	ACORN AGROTECH LIMITED	750	SPACE RESOURCES PRIVATE LIMITED
92	AMASS MULTI AGRO INDUSTRIES LIMITED	751	SSR COMMERCIAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
93	SAFE INDIA AGRO PRIVATE LIMITED	752	SAMRIDHI SYNDICATE PRIVATE LIMITED
94	WONDERGREEN AGRO & MINERALS PRIVATE LIMITED	753	SANJAY SAHANI TRANSPORT AGENCY PRIVATE LIMITED
95	VARASA NTFP PRODUCER COMPANY LIMITED	754	SHAGUN COMMERCE ANDTRADE PRIVATE LIMITED
96	BAIBHABI AGRO INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	755	DEO TRADERS PRIVATE LIMITED
97	AGRI MART INDIA PRODUCER COMPANY LIMITED	756	TECON ENTERPRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
98	JAYSASWAT INDIA MULTI MARKETING PRIVATE LIMITED	757	MANIRAJ IMPEX PRIVATE LIMITED
99	GREEN OCEAN AGRO FARMA PRIVATE LIMITED	758	JAY KRISHNA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
100	SURYA AGRI-SYSTEM PRIVATE LIMITED	759	KATAK CHANDI COAL & MINERALS PRIVATE LIMITED
101	SAMUDRAM TRADING FISHER WOMEN COLLECTIVE PRODUCER COMPANY LIMITED	760	DHABALESWAR METALICS PRIVATE LIMITED
102	SEALAND FISHERIES PRIVATE LIMITED	761	BAABJI FAKHRI TRADECOM PRIVATE LIMITED
103	SEA VICTOR PVT LTD	762	OM MAA AGENCY AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
104	GOLDEN AQUA FIRM PRIVATE LIMITED.	763	MAA TARINI INFRA AGENCY PRIVATE LIMITED
105	SAGAR PRAWN PRIVATE LIMITED	764	J D BANIJYA PRIVATE LIMITED
106	ZENITH MARITIME PRIVATE LIMITED,	765	DIVINE SUPREME TEXTILE (INDIA) PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
107	SUAAD LIVESTOCK PRIVATE LIMITED	766	JAJODIA TRADING & EXPORTS PRIVATE LIMITED
108	DD AQUATICS PRIVATE LIMITED	767	DURJA COMPANY PRIVATE LIMITED
109	NAMA MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED	768	VENIRE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
110	ODISHA COKES AND COAL SYNDICATE PRIVATE LIMITED	769	SONU ELECTRICALS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
111	NUAGAON COAL COMPANY LIMITED	770	SAISHAKTI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
112	KALINGA COAL MINING PRIVATE LIMITED	771	BRILLIANT HOME APPLIANCE MARKETING PRIVATE LIMITED
113	MANDAKINI-B COAL CORPORATION LIMITED	772	ORIBOSE DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
114	SN OXYGEN PRIVATE LIMITED	773	KEVIN SOLAR POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
115	SPARK INDIA PRIVATE LIMITED	774	ASHA KIRAN VENTURES LIMITED
116	MAA SARALA MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED	775	SAMRUDDHA PARIVAR MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
117	ALMIGHTY MINING DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	776	MIRRA TRADERS PRIVATE LIMITED
118	EMERALD MINING PRIVATE LIMITED	777	STUNNING TECHNO TRADE PRIVATE LIMITED
119	ARC MOVERS AND MINERALS PRIVATE LIMITED	778	SPAJ IMPEX PRIVATE LIMITED
120	KOUSTUV METALS PRIVATE LIMITED	779	SAIPRABHU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
121	TOPSUN RIM IRON ORE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	780	SMART DREAMS MARKETING PRIVATE LIMITED
122	CRACKERS INDIA MINING PRIVATE LIMITED	781	M CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED
123	BRAJABANDHU MINERALS&METALS PRIVATE LIMITED	782	SAISHREE RESOURCES PRIVATE LIMITED
124	AXIOM NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	783	SHRI VIGSONS AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
125	AZTEC MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED.	784	DREAM TRENDS PRIVATE LIMITED
126	ABHISEK MINERALS PRIVATE LIMITED	785	KALINGACAPS RETAIL BAZAR PRIVATE LIMITED
127	PSS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	786	SSS MEGAMART PRIVATE LIMITED
128	JEHAN ORES PRIVATE LIMITED	787	REAL BUSINESS PROMOTION PRIVATE LIMITED
129	ACHYUT METALS & MINERALS PRIVATE LIMITED	788	RETAIL ENTERPRISE DOMAIN INDIA LIMITED
130	SHYAMA COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	789	SILVAN TRADEX SYSTEMS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
131	KOLAB MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	790	KONARK CASHEW EXPORTERS AND IMPORTERS PRIVATE LIMITED
132	SRICHANDANA MINERALS PRIVATE LIMITED	791	SCOTT INDIA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
133	INDUS MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED	792	SUNDER JEEVAN TRADEMART PRIVATE LIMITED
134	DIVYA JYOTI MINERALS CO PRIVATE LIMITED	793	EMOTIONS RETAIL (INDIA) PRIVATE LIMITED
135	SPAS MINERALS PRIVATE LIMITED	794	MAX VANIJYA PRIVATE LIMITED
136	AMS INFRATRADE PRIVATE LIMITED	795	DREAMBIZ EMPIRE MARKETING PRIVATE LIMITED
137	TRIAKSH RAJ ALUMINA PRIVATE LIMITED	796	KRISH ELECTRONICS LTD
138	MICRO ISPAT PRIVATE LIMITED	797	PYRAMID COMFORT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
139	SHREEBHUMI MINES & MINERALS LIMITED	798	MDS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
140	ABDUL SATTAR MINERAL AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	799	ROYAL ARISTO MARKETING PRIVATE LIMITED
141	NANDHA MINING PRIVATE LIMITED	800	ADVENT DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED
142	SOUTH WEST ORISSA BAUXITE MINING PRIVATE LIMITED	801	WISHBRUSH ART VENTURES PRIVATE LIMITED
143	SCP MINERALS PRIVATE LIMITED	802	NIRMALYA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
144	MACRO MINING PRIVATE LIMITED	803	DALAI RETAIL PRIVATE LIMITED
145	UTSAV MINERALS PRIVATE LIMITED	804	FREEDOM INDIA TRADERS PRIVATE LIMITED
146	TS MINING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	805	M POWER TRADELINK PRIVATE LIMITED
147	ULTRA MINERALS & FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED	806	RAJKUMAR CREATIONS PRIVATE LIMITED
148	RADHA MADHAV AGENCIES PRIVATE LIMITED	807	GREEN INDIA RETAILING PRIVATE LIMITED
149	SYED ABDUL HALIM MINES PRIVATE LIMITED	808	MAA TARINI ASHIRBADHOTEL PRIVATE LIMITED
150	ABHIYAN MINERALS PRIVATE LIMITED	809	JAS GROUPS (RESTAURANTS) PRIVATE LIMITED
151	KHUSI GRANITES PRIVATE LIMITED	810	GANAPATI HOTEL PRIVATE LIMITED
152	BALASORE CRUSH STONE PRIVATE LIMITED	811	HOTEL PADMA PRIVATE LIMITED
153	BASUNDHARA CALCINATION PRIVATE LIMITED	812	ZIGMA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
154	PATHAPUR MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED	813	HOTEL TRUPTI PRIVATE LIMITED
155	PARADESWARA PROJECTS PRIVATE LIMITED	814	JASORIA RESORTS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
156	BLUEBERRYS MINING PRIVATE LIMITED	815	MANDIPA INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED
157	SSR JODA MINERALS PRIVATE LIMITED	816	PANCHABATI INN PRIVATE LIMITED
158	SMARS MINING & MENERALS PRIVATE LIMITED	817	SWAGAT INN PRIVATE LIMITED
159	KEONJHAR MINERALS PVT LTD	818	KONARK INN PRIVATE LIMITED
160	GEOSCIENCE PROJECTS PRIVATE LIMITED	819	SHRUTI INN PRIVATE LIMITED
161	SRI SAI MINES AND METALS PRIVATE LIMITED	820	KALINGA INFRACREATIONS PRIVATE LIMITED
162	KALINGA GRAPHITE PRIVATE LIMITED	821	RAAGA RESORTS PRIVATE LIMITED
163	MEGHNA ORGANIC AGROTECH PRIVATE LIMITED	822	SUMMIT BEVERAGES AND FOODS PRIVATE LIMITED
164	BHATTER SOLVENT EXTRACTION UDYOG LIMITED	823	JBC HOTELS PRIVATE LIMITED
165	SURYAMUKHI RESORTS PRIVATE LIMITED	824	DURGA CLASSIC MULTIRESORTS PRIVATE LIMITED
166	TARENI ROLLER FLOURMILL PRIVATE LIMITED	825	ADITYA MOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
167	MAA KHANDUALI AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED	826	R.M.REGENCY PRIVATE LIMITED
168	GRUHALAXMI SPICES PRIVATE LIMITED	827	MAHANADI RESORTS PRIVATE LIMITED
169	VAIBHAVI RICE & FOODS PRIVATE LIMITED	828	GREEN INDIA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
170	DHARITRI MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED	829	THE WORLD HOTELS PRIVATE LIMITED
171	KKDIL AGRO FOODS LIMITED	830	MICRO HOTELS PRIVATE LIMITED
172	HSBN AGRO POWER LIMLITED	831	SHOGUN INN & HOTELS PRIVATE LIMITED
173	ORISSA RICE MILL PRIVATE LIMITED	832	KKDIL HOTELS & RESORTS LIMITED
174	TARINEE RICE MILL PRIVATE LIMITED	833	SHREEBHUMI HOTELS & RESORTS LIMITED
175	SHREE RICE PRODUCT PRIVATE LIMITED	834	S&S BROTHERS PRIVATE LIMITED
176	SAIBINAYAK INDUSTRIES LIMITED	835	MANGROVE WILDLIFE RESORTS PRIVATE LIMITED
177	PURUSOTTAM FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	836	IMPERIAL PALACE PRIVATE LIMITED
178	KOSHAL PADDY PROCESSING PRIVATE LIMITED	837	NEXT WAVE HOTELS PRIVATE LIMITED
179	DAWN FOODS AND SPICES LIMITED	838	AAVAAS INTEGRATED LOGISTICS PRIVATE LIMITED
180	FEED LIFE AGROVET PRIVATE LIMITED	839	MICRO ROADWAYS LIMITED
181	SUN SEED AGRO LIMITED	840	BIRAT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
182	GREEN INDIA BEVERAGE AND FOODS PRIVATE LIMITED	841	NOBLE TRANSPORT CARRIERS PRIVATE LIMITED
183	SWARNIMA ORGANICS PRIVATE LIMITED	842	SWAYAM TRANSTRADE PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
184	LA PATISSIER CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED	843	SHREE BALDEVJEW LOGISTICS PRIVATE LIMITED
185	AKANKSHA INDIA MANUFACTURING & MULTITRADE PRIVATE LIMITED	844	NVT PACKERS & MOVERS PRIVATE LIMITED
186	BLT BREWERIES PRIVATE LIMITED	845	DADHICHI LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
187	AQUATICA BREWS PRIVATE LIMITED	846	EMERALD LOGISTICS PRIVATE LIMITED
188	KANSU BEVERAGES PRIVATE LIMITED	847	PANDA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
189	LIFE DROPS FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	848	MAA TARINEE COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
190	LIQUID N MINERAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	849	KANDHAMAL COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
191	DP DIETARY MINERALS PRIVATE LIMITED	850	SWASTIK AGRILOGISTICS PRIVATE LIMITED
192	ABHYOSMITA DRINKS PRIVATE LIMITED	851	SAGARIKA CONTAINER TERMINAL PRIVATE LIMITED
193	SLB PURE DRINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED	852	HARIHAR TRAVEL TRANSPORT AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
194	SHIMLA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	853	SARUNI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
195	EAST INDIA DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	854	KALKI SALES AND SERVICE PRIVATE LIMITED
196	DILIP TEXTILE MILLS PVT LTD	855	KALINGACAPS TOUR AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
197	NIRMALA COTTON MILLS PRIVATE LIMITED	856	EXPRESS HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
198	ORISSA TIMBERS AND ENGINEERING WORKS LTD	857	PAN INDIA LEISURE AND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
199	GENETIC GREEN GOLD PRIVATE LIMITED	858	ORISPACE TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
200	RAJDHANI TIMBER PRODUCTS PVT LTD	859	FLYING COLORS TRAVEL SOLUTION PRIVATE LIMITED
201	CALIBER PAPERS PRIVATE LIMITED	860	RAJ GODSON TOUR & TRAVELS PRIVATE LIMITED
202	SEGAL PACKAGING PRIVATE LIMITED	861	BOOKNMOVE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
203	SOMA PACKAGING PRIVATE LIMITED	862	SKAR RESOURCES PRIVATE LIMITED
204	SHINE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	863	CARRYMYGOODS KALINGA PRIVATE LIMITED
205	AJI MEDIA PRIVATE LIMITED	864	KARISHMA PROJECTS PRIVATE LTD
206	ABCD MEDIA PRIVATE LIMITED	865	STERLING CONCEPTS PRIVATE LIMITED
207	SAGARIKA MASS COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	866	POLYGON INFRA-COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
208	ASHA PRINTERS PRIVATE LIMITED	867	BLUETEL WIRELESS ENGINEERING PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
209	DAINIKA ASHA PUBLICATIONS PVT LTD	868	SAI CORPORATE TECHNO-SOLUTION PRIVATE LIMITED
210	PRIZM CREATION PRIVATE LIMITED	869	SKY TECH TRANSMISSION PRIVATE LIMITED
211	CITY OFFSET PRIVATE LIMITED	870	JIBANDEEP HOUSING FINANCE LTD.
212	HEAVEN ENTERTAINMENT AND MEDIA PRIVATE LIMITED	871	PACIFIC ALLIED SERVICES LIMITED
213	KANSU ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	872	SLB MICROFIN CORPORATION (INDIA) LIMITED
214	SHOGUN MEDIA & PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	873	UNNATI INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
215	EMERALD COKE PLANT PRIVATE LIMITED	874	VIVEKANAND HEALTH FOUNDATION PRIVATE LIMITED
216	ITCOL TECHNO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	875	TIMES SECURITIES LIMITED
217	MAHANTY TAR REFINERIES PVT LTD	876	VARUN TECHNO-INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
218	PETCOKE INDUSTRIES PVT LTD	877	SREE BALAJEE FINANCE LIMITED
219	BSM INDUSTRIAL GASES PRIVATE LIMITED	878	BM WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
220	CEE VEE AGRIENCE PRIVATE LIMITED	879	SAINATHH SECURITIESLIMITED
221	VIGNESH CHEMTECH PVT LTD	880	ODISHA STOCKBROKING PRIVATE LIMITED
222	GAYSON CHEMICAL WORKS PRIVATE LIMITED	881	OMM SREE RESOURCES LIMITED
223	HYPLAST PRIVATE LIMITED	882	SRUSTEE FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
224	BHUMIKA FERTILIZERS PRIVATE LIMITED	883	SANGUINE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
225	KANAK BIOSCIENCE AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	884	SHANTI DHARITRI SECURITIES PRIVATE LIMITED
226	UTKAL REFINERIES PRIVATE LIMITED	885	PNP FUND MANAGEMENT LIMITED
227	MRM POLYMERS PVT LTD	886	VISARGA FINANCIAL SERVICES LIMITED
228	VIGENSH ORGANICS PRIVATE LIMITED	887	DYNAMIC ASSET MANAGEMENT LIMITED
229	XYCON PHARMACEUTICALS LIMITED	888	SHRIVALLIS SECURITIES LIMITED
230	SAIMEERA LIFE SCIENCES (INDIA) PRIVATE LIMITED	889	HELLO FUTURE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
231	SEDIL INDIA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	890	GS FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
232	PRA DRUG PRIVATE LIMITED	891	B M SHARE TRADING &CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
233	ADLIB HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	892	CHAND AGENCY & CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
234	NANO HERB RESEARCH LABORATORY PRIVATE LIMITED	893	NIDAAN SECURITIES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
235	ASHORE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	894	AVIGNA DEVA INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED
236	SHOGUN MEDICARE PRIVATE LIMITED	895	PRITHWIRAJ SECURITIES LIMITED
237	MEGSAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	896	NIRMALYA LIFE ASSETS & SECURITIES LIMITED
238	CENT-QUAT PHARMA LIMITED	897	CYBELE SECURITIES LIMITED
239	SMYTE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	898	NILADRI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
240	SWABALAMBI PRODUCER COMPANY LIMITED	899	NEXTGEN CAPITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
241	RUSHIKULYA AYURVEDIC CLUSTER PRIVATE LIMITED	900	SURYA NIRMAN CAPITAL SOLUTION PRIVATE LIMITED
242	NOBLE PHARMACARE LIMITED.	901	TRESTY SECURITIES LIMITED
243	HAHNEMANN HERBAL LIMITED	902	GALLANT INDIA FUNDSMANAGEMENT LIMITED
244	IDEA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	903	SHREE VISA CAPITAL LIMITED
245	SISIR CHEMICALS PRIVATE LIMITED	904	SHREEBHUMI COMMODITIES & MERCHANDISED LIMITED
246	KALINGA SALT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	905	SWIKRITI MARKETING PRIVATE LIMITED
247	PRITHWIRAJ TRADERS PRIVATE LIMITED	906	ORIPLEX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
248	ADLIB ADVERTISERS PRIVATE LIMITED	907	SHREE LAXMI INFRATECH PRIVATE LIMITED
249	CLASSIC TYRES PRIVATE LIMITED	908	SAISHRADHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
250	CHILKA BELTING PVT LTD	909	SUBHASHREE HOME CREATIONS PRIVATE LIMITED
251	GLAANS POLYMERS PRIVATE LIMITED	910	OCEAN PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
252	SHIV SHANKAR PLASTICS PRIVATE LIMITED	911	EKAMRA ESTATES AND HOUSING PROMOTION COPVT LTD
253	ZILLION RESOURCES PRIVATE LIMITED	912	O. M. BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
254	SSL ENGINEERING SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	913	MAA TARINI ABASIKA TRADERS PRIVATE LIMITED
255	DUROCON PLASTICS PVT LTD	914	TRISAT ESTATES AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
256	FULL MOON PLASTICS PVT LTD	915	SHIBANI ESTATES AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
257	TOXINON CONTAINERS PRIVATE LIMITED	916	SHREE SHREE SAI ESTCON PRIVATE LIMITED
258	RAINBOW POLYMERS (INDIA) PVT.LTD.	917	SURYAPRAVA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
259	R.M & SONS MINERALS PRIVATE LIMITED	918	LAXMINARAYAN ESTATES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
260	MEGA REFRACTORIES PRIVATE LIMITED	919	BISWA BHARATI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
261	OSIS REFRACTORIES PRIVATE LIMITED	920	MANSHA ESTATES AND PROMOTER PRIVATE LIMITED
262	MAD PROJECTS PRIVATE LIMITED	921	RAPAJ ALLIANCE BUILDINGS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
263	BIBHU BRICKS PRIVATE LIMITED	922	ZENITH INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
264	HNV HI-TECH INFRA PRIVATE LIMITED	923	JODH AND TEJ ESTATES PRIVATE LIMITED
265	TIRUPATI CEMENT PRIVATE LIMITED	924	DWELL ESTATE (INDIA) PRIVATE LIMITED
266	RAJA CEMENTS PRIVATE LIMITED	925	SUMAN VENTURES PRIVATE LIMITED
267	R V ENTERPRISERS PRIVATE LIMITED	926	BRIGHT ERECTORS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
268	JAIN AGGREGATES PRIVATE LIMITED	927	SARASWAT MARKETING PRIVATE LIMITED
269	BAYSIDE GLOBAL INFRA PRIVATE LIMITED	928	CHANDRA SEKHAR REALCON PRIVATE LIMITED
270	VEDTRIP PLANNERS PRIVATE LIMITED	929	INDOO REALCON PRIVATE LIMITED
271	SANTHUS MECHATRONICS PRIVATE LIMITED	930	LUMBINI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
272	THE WORLD STEELS LIMITED	931	SWAPNAYANI PROPERTIES & SECURITIES PRIVATE LIMITED
273	MAYOM STEELS LIMITED	932	21ST CENTURY MARKETING & DEVELOPER PRIVATE LIMITED
274	SRI ADITYA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	933	SUBHALAKHMI BUILDCON & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
275	RUKMANI STEEL PRIVATE LIMITED	934	MUDIT REALTY PRIVATE LIMITED
276	SANGAM TUBES & STEELS PRIVATE LIMITED	935	DREAMSPower REALESTATE & MARKETING PRIVATE LIMITED
277	SARADA ISPAT & POWER PRIVATE LIMITED	936	MANIKESWARI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
278	KBC FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED	937	UMAMANI HOME CREATION PRIVATE LIMITED
279	SHIVLY MINERALS & STEELS PRIVATE LIMITED	938	REAL ALLIANCE ESTATES PRIVATE LIMITED
280	SARALA STEELS PRIVATE LIMITED	939	SIDDHIDHATA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
281	SHOGUN STEELS & MINES PRIVATE LIMITED	940	OMM SRIJAGANNATH BUILDERS PRIVATE LIMITED
282	UTKAL MINERAL PROCESSING & FERROPRODUCTS PRIVATE LIMITED	941	YASSMARG INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
283	B.C. INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	942	SUNSHINE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
284	SARANGADHAR MINERALS PRIVATE LIMITED	943	LAND INDIA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
285	PRAVATI STEEL PRIVATE LIMITED	944	ALFA CITYINFRA PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
286	SOFTECH TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	945	SHREE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
287	DATARAM STEEL PRIVATE LIMITED	946	SHINE INFRA-MARKETING PRIVATE LIMITED
288	MRD STEEL & FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED	947	SAI KRUPA HOMES & REALCON PRIVATE LIMITED
289	KAIROS EXPORTS PRIVATE LIMITED	948	DP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
290	PRACHI ENGINEERING PVT LTD	949	SAI SANKAR INFRAVISION PRIVATE LIMITED
291	KONARK CONCAST AND POWER LIMITED	950	ANANTA DURGA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
292	GOUSIA STEELS PRIVATE LIMITED	951	FRIENDS ESTATES MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
293	BARDHAMAN STEELS PRIVATE LIMITED	952	SAI INFRASTRUCTURE AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
294	CASH ALLOYS LIMITED	953	BIRNAM INFRA REAL PRIVATE LIMITED
295	DEB FERRO ALLOYS PVT LTD	954	SAMAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
296	MAHANADI STEEL PRIVATE LIMITED	955	PANCHASAKHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
297	PRATAP INTEGRATED STEEL COMPLEX PRIVATE LIMITED	956	SATYAMROOP ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
298	UTKAL METALIKS AND FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED	957	SWAYAMSHIS BUILDERS PRIVATE LIMITED
299	SIDHANT ALUMINIUM PRIVATE LIMITED	958	SAMPARK REALESTATE PRIVATE LIMITED
300	SILVERIA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	959	ETHICS MARKETING PRIVATE LIMITED
301	MAHANADI MINERALS PRIVATE LIMITED	960	MRD REALCON PRIVATE LIMITED
302	AASTHA ALLOY STEEL PRIVATE LIMITED	961	SHREE GUNDICHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
303	ABHISHEK CASTING PRIVATE LIMITED	962	MECH INFRASTRUCTURE LIMITED
304	AISORYA STEEL AND ALLOYS PVT LTD.	963	SWOSTIK INFRA-PROPERTIES LIMITED
305	SMB METALS PRIVATE LIMITED	964	SUNSHINE INFRAPROPERTIES LIMITED
306	G-TECH METALS PRIVATE LIMITED	965	REAL VISION INTERNATIONAL LIMITED
307	SHAKTI FABTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	966	PRINCE INDIA REAL ESTATE AND MARKETING LIMITED
308	AURO PACKAGE AND CONTAINERS PVT LTD	967	SOUBHAGYA INFRAMANAGEMENT (INDIA) LIMITED
309	KJP PROJECTS PRIVATE LIMITED	968	DIVINE ASSET & PROPERTIES PRIVATE LIMITED
310	EASTERN AGRITECH PRIVATE LIMITED	969	RASHMI PROMOTERS PRIVATE LIMITED
311	FLUID MECHANICS PRIVATE LIMITED	970	RAJ GODSON SERVICES PRIVATE LIMITED
312	MODERN INDUSTRIAL EXECUTORS PRIVATE LIMITED	971	SHYAMA PARIVAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
313	FEDERAL AGRO COMMERCIALS LIMITED	972	MUKTI SAI REALCON PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
314	SIROTECH ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	973	ISHAN INFRACON PRIVATE LIMITED
315	PROTECT POWER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	974	ORISONS WINDOORS INDIA PRIVATE LIMITED
316	INDOTECH SYSTEMS LIMITED	975	SECURE LIFE INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
317	KOSMO TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED	976	RICHINDIA ESTATE PRIVATE LIMITED
318	ESSKAY PURE VOLT PRIVATE LIMITED	977	DWARIKA CREATIONS PRIVATE LIMITED
319	ORITRON MULTITECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED	978	AASTHA INFRATECH PRIVATE LIMITED
320	EXCELLENCE AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	979	NANDIGHOSHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
321	ASHASHAKTI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	980	RADIANCE CREATIONS PRIVATE LIMITED
322	STG CHIPS PRIVATE LIMITED	981	OMM MATRUSHAKTI ESTCON PRIVATE LIMITED
323	AYUSHMAN TELESERVICES PRIVATE LIMITED	982	MAA TARA TARINI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
324	H.P. MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED	983	GROWMAX INFRACON PRIVATE LIMITED
325	IQ PHONE PRIVATE LIMITED	984	REDRICK CONSTRUCTIONS & MARKETING PRIVATE LIMITED
326	SHREE GANAPATI FIBERTECH PRIVATE LIMITED	985	DPS HOMES PRIVATE LIMITED
327	KONARK INNOVATIVE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	986	KASTURI INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
328	J B S AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	987	SYSTEMATICS VILLA AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
329	AEON SPECIAL VEHICLES PRIVATE LIMITED	988	JD INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
330	RAJ PLY PRIVATE LIMITED	989	SANKALP INDIA REALCON LIMITED
331	REAL GREEN TECH PRIVATE LIMITED	990	HEAVEN LIFE REALTY (INDIA) LIMITED
332	NM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	991	FUTURE SECURE INFRALIMITED
333	TANISH DESIGNER PRIVATE LIMITED	992	STB INFRA INDIA LIMITED
334	BISHANDAYAL JEWELLERS CUTTACKWALA PRIVATE LIMITED	993	REAL STAR INFRATECHLIMITED
335	SHREE OMM JEWELLERS PRIVATE LIMITED	994	SNEHA HI-TECH LIMITED
336	SUBHRA RECYCLING AND RECOVERY SYSTEMS PRIVATE LIMITED	995	BHUBANESWAR INFRA TECH PRIVATE LIMITED
337	SRI KRUSHNA RECOUP PRIVATE LIMITED	996	CONCARE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
338	IOLITE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	997	KAALLOOSTHENIC PROJECTS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
339	SHIRIDI SAI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED	998	B2M DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
340	SRI VENKATESWARA ENERGY PVT LTD	999	DWARIKA MAAYEE INFRATECH PRIVATE LIMITED
341	PRAGATHI LAKSHMI POWER PRIVATE LIMITED	1000	KAIBALYA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
342	RASHMEE POWER PRIVATE LIMITED	1001	DREAMSPOWER INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
343	ORISSA SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED	1002	BBC DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
344	ORISSA NATURAL ENERGY PRIVATE LIMITED	1003	ALIVA CREATIONS PRIVATE LIMITED
345	SUNARK SOLAR PRIVATE LIMITED	1004	WONDERLAND CREATION PRIVATE LIMITED
346	FLOW TECH HYDRO ENERGY PRIVATE LIMITED	1005	ASSURANCE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
347	SATYA SAI GREEN BIOPOWER PRIVATE LIMITED	1006	AMAGHAR REAL ESTATE& CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
348	KONARK ENERGY & IMPEX PRIVATE LIMITED	1007	ZUVAN INFRA PRIVATE LIMITED
349	JAYALAKSHMI BIO ENERGY PRIVATE LIMITED	1008	SWOBHUMI INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
350	LORGAN POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED	1009	AASHU INDIA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
351	MARKS INTERNATIONAL LIMITED	1010	DYNAMIC HABITAT PRIVATE LIMITED
352	SWADHIN PROMOTERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED	1011	PT REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
353	RATH ESTATES PRIVATE LIMITED	1012	SPAN ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
354	KRISHNA KOUNTRY VENTURES PRIVATE LIMITED	1013	FR HOUSING PRIVATE LIMITED
355	SAISREE INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1014	GROW INDIA FARM ESTATE PRIVATE LIMITED
356	CEEDA PLANTATION INVESTMENT LTD	1015	MAHAVEER INFRASOLUTION PRIVATE LIMITED
357	APPOLO INFRAPROJECTS LIMITED	1016	BHUMARK ESTATE PRIVATE LIMITED
358	EASTERN BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1017	GREEN LIFE REALCON PRIVATE LIMITED
359	AADHAR ESTATES PRIVATE LIMITED	1018	JAYAGURU INFRASTRUCTURE AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
360	BHAGABAT CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1019	EKAMRA INFRATECH PRIVATE LIMITED
361	TECH MENS CREATIVE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1020	VIEW POINT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
362	B.N.B.DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1021	DREAMS MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
363	SAILASREE BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	1022	FALGUNI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
364	SCION BUILDERS PRIVATE LIMITED	1023	MACRO DREAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
365	SHANTI BUILDTECH PRIVATE LIMITED	1024	SURYADEV HOUSING AND INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
366	AV ERECTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	1025	OM SAI INFRAUDYOG PRIVATE LIMITED
367	FALCON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	1026	SANDALWOOD INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
368	AAVAAS HOUSING DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITEDTE LIMITED	1027	H P INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
369	LEELAC PROMOTERS PRIVATE LIMITED	1028	JM GLOBAL INFRA PRIVATE LIMITED
370	VIEWS AND VISION ESTATES PRIVATE LIMITED	1029	BIZZY BEE CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
371	REALTY PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	1030	PROPERTY ACQUIRE GUARANTEE LIMITED
372	MATRIX BUILDERS PRIVATE LIMITED	1031	SYSTEMATICS INFRAPROJECTS LIMITED
373	PRAMILA CONSTRUCTION AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	1032	BRIGHT FUTURE PROJECTS PRIVATE LIMITED
374	NIRMAN REALCON PRIVATE LIMITED	1033	MAX REALCON PRIVATE LIMITED
375	KHARVELA ESTATE PRIVATE LIMITED	1034	HMSP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
376	INDO CHARTERED CONSTRUCTION ANDDEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1035	BINAY DHANLAXMI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
377	SRI ACHYUTA BUILDERS PRIVATE LIMITED	1036	SWOBHUMI REAL VENTURE PRIVATE LIMITED
378	SHREYA INFRASTRUCTURE SERVICES PRIVATE LIMITED	1037	SHAKTI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
379	REETA DEVELOPERS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	1038	SABETUN CONSTRUCTIONS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
380	SURYADEEP CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1039	EASTERN INDIA INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED
381	BRIGHT ULTRA INFRASTRUCTURE & LANDDEVELOPERS LIMITED	1040	MAAMANGALA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
382	AKME INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1041	UTKAL INFRATECH PRIVATE LIMITED
383	BISAKHA ESTATES AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	1042	STUNTECH MINERALS PRIVATE LIMITED
384	SHREE PRABHUKRUPA CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1043	INTERLINK PRIVATE LIMITED
385	CHITRAKA EARTHMOVERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	1044	ODISHA INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
386	KRUTTIKA ESTATES AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	1045	VASUNDHARA LAND ANDDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
387	PKB DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1046	TEJAS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
388	P. K. BEHERA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1047	ROYAL UNIQUE INFRA PROPERTIES LIMITED
389	EMERALD INFRASTRUCTURE AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	1048	NEW LEAF PROPERTIES PRIVATE LIMITED
390	MONORAMA CONCRETE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	1049	BLUE LIGHT ESTATES PRIVATE LIMITED
391	DEVAM ESTCON PRIVATE LIMITED	1050	ODISHA NIRMAN PROPERTIES AND SERVICES LIMITED
392	SURNAG AND REETA BUILDERS PRIVATE LIMITED	1051	NILACHAKRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
393	AUOMIRA INFRA-TECH PRIVATE LIMITED	1052	NUTANJYOTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
394	DHANUSH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	1053	CHANDRIKA MINERAL PRIVATE LIMITED
395	DEWAN PROMOTERS ANDREAL ESTATE PRIVATE LIMITED	1054	ORIPUS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
396	PREETIUSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1055	AMADORE COMPUTERS AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
397	SEMAX BUILDERS PRIVATE LIMITED	1056	ANUBEL CONSULTING PRIVATE LIMITED
398	BURDS PROJECTS PRIVATE LIMITED	1057	COMPUTER ACTION PRIVATE LIMITED
399	SRUSTI HOUSING AND HERITAGE PRIVATE LIMITED	1058	NEURON CONSULTANTS PVT. LTD
400	WHITEPAPER PROPERTYMANAGEMENT (P) LTD	1059	SQUARE-S INFOTECH PRIVATE LIMITED
401	KALINGA NARMAN FOUNDATIONS (P) LTD	1060	SUM SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
402	TARINI ENTERPRISES (P) LTD	1061	IBF NET PRIVATE LIMITED
403	PKDBK INFRA PROJECT PRIVATE LIMITED	1062	EASTERN INDIA BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
404	HARAPRIYA PROPERTIES PVT LTD	1063	FAST TRACK COMPUTERS AND INFOTECHSYSTEMS PRIVATE LIMITED
405	BHITTI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1064	MCC INFOTECH PRIVATE LIMITED
406	MAA TARA DEVI ORCHARDS AND GARDENS PRIVATE LIMITED	1065	SYSKOM ENTERPRISE SOLUTION PRIVATE LIMITED
407	DIVINE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	1066	SHINE INFOTECH PRIVATE LIMITED
408	BHAGABATI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1067	ABYSS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
409	STRAIGHTLINE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1068	SRM EXPORTS LIMITED
410	ROURKELA BUILDERS PVT LTD	1069	STALCO CONSULTANCY AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
411	APARNA COSMOPOLITAN BUILDERS PRIVATE LIMITED	1070	SWATIK INFOTECH PRIVATE LIMITED
412	MANSON MULTI PROJECTS PRIVATE LIMITED	1071	UNIFORM RELATIONAL LOGIC PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
413	SATABDI BALUNKESWARCONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1072	SANAM SOFTWARE PRIVATE LIMITED
414	CHAUBAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1073	COASTAL UTILITIES PRIVATE LIMITED
415	CAPITAL GOLDEN RESIDENTIAL & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1074	SMILE VENTURES PRIVATE LIMITED
416	SHREE BALADEVJEW ENGINEERS PRIVATE LIMITED	1075	VALUESPACE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
417	SOUL HOUSING PRIVATE LIMITED	1076	KALINGA TECHNOLOGY AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
418	SUVSATYA PROPERTIESAND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1077	MINDCRUX PRIVATE LIMITED
419	PURUSOTTAM INFRATECH PRIVATE LIMITED	1078	WEBRAINS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
420	ALIVA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1079	BSS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
421	SAKAMBARI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1080	WEBOPAC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
422	LANDMARKS INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1081	AARESS SOFTSOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
423	SHREE SANDS CONSTRUCTION LIMITED	1082	STEADFAST TECHNO CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
424	TRIDENT PROPERTIES ORISSA PRIVATE LIMITED	1083	KARMA STRATEGIES PRIVATE LIMITED
425	SHIVA SHAKTI INFRACON PRIVATE LIMITED	1084	TRISHNA SOFTWARE & TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
426	VEDIC MULTIPLEX PRIVATE LIMITED	1085	PRACHI SYSTEMS SOLUTION PRIVATE LIMITED
427	TREND APARTMENT PRIVATE LIMITED	1086	A1 IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
428	AROHAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1087	RACONSYS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
429	CREATIVE INFRA PROJECT PRIVATE LIMITED	1088	SHIRDI PRASHANTI ACADEMY OF COMPUTEREDUCARE PRIVATE LIMITED
430	ORISUN ENGINEERS ORISSA PRIVATE LIMITED	1089	V NET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
431	CHLOROPHYLL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1090	REGAL INFOWAYS PRIVATE LIMITED
432	MAHADEVA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1091	JPS TECHWEB PRIVATE LIMITED
433	SAI TWINCITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1092	WEBTEK SERVICES PRIVATE LIMITED
434	MIDASTOUCH PROPERTIES MARKETING PRIVATE LIMITED	1093	ADOCS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
435	BABA AKHANDALAMANI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	1094	S A GENEXT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
436	NEELANCHAL MANORAMADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1095	BINISOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
437	ODISHA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1096	BHUMISUTA COMPUTER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
438	SWEET HOME INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	1097	AQS DIGITAL PRIVATE LIMITED
439	SHREE MAA HOME PRIAVTE LIMITED	1098	CONVOLUTIONS INFRASYS PRIVATE LIMITED
440	RUDRAKSHYA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1099	ABISCO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
441	JAISREE HOMES PRIVATE LIMITED	1100	TREZTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
442	OM SAI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	1101	UPBT SYSTEMS SOLUTIONS SERVICES PRIVATE LIMITED
443	MAA KALUASUNI REALCON PRIVATE LIMITED	1102	TEKNIKA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
444	GROWING GLOW REGENCY PRIVATE LIMITED	1103	KANAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
445	UMESH EARTHMOVERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1104	ALTECH SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
446	REKTOR INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTIONS LIMITED	1105	SILVERDALE INFOTECH PRIVATE LIMITED
447	SPECIMENS REALTY LIMITED	1106	GS INFOCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
448	INNOVATIVES HOMES &INFRASTRUCTURES LIMITED	1107	THINKIDEA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
449	SOHO ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1108	AMMA BHAGAVAN NETWORK SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
450	ORITECH INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED	1109	ELEGANT INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
451	R.C.S ENGINEERING &CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1110	3D WIZARDS PRIVATE LIMITED
452	OM ADIDEV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1111	SHEETAL TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
453	PRADHAN REALCON PRIVATE LIMITED	1112	COASTAL BELT SERVICES PRIVATE LIMITED
454	GHAR BAHAR ESTATES PRIVATE LIMITED	1113	KANAK SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
455	BABAMANI ESTATE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1114	MRKAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
456	ORISSA MULTIPLEX INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1115	APPLIED BINARY PRIVATE LIMITED
457	JASODHARA INFRASECURITY PRIVATE LIMITED	1116	MASTERBRAIN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
458	SIDHESWAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1117	NEKTONE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
459	GANAPATI EASTCON PRIVATE LIMITED	1118	RADIUS TECHNOSYSTEMS & SERVICES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
460	DS INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	1119	I-SOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
461	S S REALCON (INDIA) PRIVATE LIMITED	1120	CHAMELEON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
462	DWARKAMAI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1121	INNOVADORS LAB PRIVATE LIMITED
463	DADRIWALA ESTCON PRIVATE LIMITED	1122	WEBFUZON CONSULTANCY & SERVICES PRIVATE LIMITED
464	ARUNDHATI INFRATECH PRIVATE LIMITED	1123	FUTURE-GEN INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
465	VAISHNO MATA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1124	CAPTIVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
466	BINODINI PROJECTS LIMITED	1125	ITERATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
467	UTKAL BHARATI REALCON LIMITED	1126	ADIBAS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
468	PARICHA INFRACON LIMITED	1127	BLUEBERRY INFORMATION & TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
469	SAISRADHA BUILD-TECH INTERNATIONAL LIMITED	1128	IDD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
470	SHINE INFRAVENTURES LIMITED	1129	PEOPLEWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
471	SBSS DEVELOPERS LIMITED	1130	PAM WEB INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
472	BASUNDHARA INFRA REALITY LIMITED	1131	IDEA INFO BEST PRIVATE LIMITED
473	VAISHNODEVI PROJECTS PRIVATE LIMITED	1132	SHINE INTELLIGENCE PRIVATE LIMITED
474	SAMLESWARI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1133	SAHU EDU-COMPUTECH & ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
475	RELIANT INFRACON PRIVATE LIMITED	1134	A5 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
476	SURYA NIRMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED	1135	VOTRA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
477	SILVAN DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED	1136	SOLOCON SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
478	PANCHASAKHA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1137	HUGESYS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
479	PS INFRA CREATION INDIA PRIVATE LIMITED	1138	FIDDLEWOOD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
480	PHALGUNI INFRATECH PRIVATE LIMITED	1139	TEKMANTIC CONSULTING PRIVATE LIMITED
481	SIDHI SAI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1140	SOFT XPRESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
482	MIDLAND INFRA PRIVATE LIMITED	1141	IRENE DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
483	GURUSWAMI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1142	CHANGERS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
484	ORISSA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1143	TECH AID INDIA INFO SERVICES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
485	SIBASAKTI ESTCON PRIVATE LIMITED	1144	PROTOGENIST INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
486	OM SRI SHYAMA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1145	ALBUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
487	GREEN PARADISE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1146	INTELIGENCE VERTICALS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
488	SHREE KRISHNA HABITATS PRIVATE LIMITED	1147	SWIFTLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
489	NAVA INFRATECH PRIVATE LIMITED	1148	THE WORLD SOFTWARE PRIVATE LIMITED
490	EVOCON INFRATECH PRIVATE LIMITED	1149	NANDINI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
491	MAHIMA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1150	JBC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
492	P G INFRATECH PRIVATE LIMITED	1151	UBORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
493	SHP CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1152	IVY SCRIBE MEDICAL TRANSCRIPTION PRIVATE LIMITED
494	LAKSHYA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1153	MAMMON INFOTECH INDIA PRIVATE LIMITED
495	S D R CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1154	S SS BIOTIC PRIVATE LIMITED
496	SRIKHETRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1155	JUAN BIOTECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
497	MICRO CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1156	GO GREEN ENVIRONMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
498	ASN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1157	KALINGA PROJECTS PRIVATE LIMITED
499	APNA SAPNA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	1158	AMAZON TRANS MARCONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
500	SAI KISHORE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1159	CHOUDHURY MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
501	TARAKALYANI HOMES PRIVATE LIMITED	1160	DAAD RESEARCH AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
502	PURE LAND INFRA & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	1161	TQM CONSULTANCY SERVICES (ORISSA) PRIVATE LIMITED
503	NIRVAN MULTI-PROJECTS PRIVATE LIMITED	1162	UNITED PROJECTS PRIVATE LIMITED
504	PRECIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED	1163	SMS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
505	OCTAGON NIRMAN PRIVATE LIMITED	1164	GREYCELLS MARKETING PRIVATE LIMITED
506	SUBARNA INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED	1165	TIMELINE CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
507	MATA DI INFRASTRUCTURE AND HOUSING PRIVATE LIMITED	1166	INNOVATIVE SOLUTIONEXPERTS PRIVATE LIMITED
508	BANADURGA INFRASTRUCTURES SYSTEMS PRIVATE LIMITED	1167	MAKEWAY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
509	MALIMO BANADURGA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1168	FINCON ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
510	PRABHU PRASAD INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1169	REM AND MYAG CONSULTING PRIVATE LIMITED
511	ODISHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1170	MISSION INDIA PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
512	GT INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED	1171	WISEMEN CONSULTANCY AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
513	REACH HOMES & MARKETING PRIVATE LIMITED	1172	S M CONGLOMERATE PRIVATE LIMITED
514	SANKAR BUILDERS PRIVATE LIMITED	1173	BAJARANGI CONSULTING (P) LTD
515	WONDER INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1174	KUMAR MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
516	MIRACLE HOMES INFRA PRIVATE LIMITED	1175	OMM IMAC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
517	LAXMI NRUSINGHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1176	A B ONLINE PRIVATE LIMITED
518	SAI NATH INFRATECH PRIVATE LIMITED	1177	SPARSH CARE RESOURCES PRIVATE LIMITED
519	LAXMIDHAR MOHANTY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1178	DECCAN CAREERLINKS PRIVATE LIMITED
520	SARALA INFRA-PROJECTS PRIVATE LIMITED	1179	PRITAM KUMARI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
521	GR8 PROJECTS PRIVATE LIMITED	1180	ROYAL CORPOJET SOLUTIONS LIMITED
522	VAROSA NIRMAN & INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	1181	SASTRI SECURITIES AND MANAGEMENT LIMITED
523	GEO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1182	SR MULTIFACETS PRIVATE LIMITED
524	KATHORI NIRMAN PRIVATE LIMITED	1183	SUMAN PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
525	SAKHI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1184	SCRIMP CAPITAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
526	JAI SANTOSHI MAA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1185	LEEON MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
527	SAI SHREE DESIGNERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1186	NLF CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
528	BHAROSA BUILDERS PRIVATE LIMITED	1187	BHUVANESWAR CONSULTANCY & SERVICES PRIVATE LIMITED
529	VERVE INFRATECH PRIVATE LIMITED	1188	MAA SARALA FINANCIAL & MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
530	PRATIKSHYA ENTERPRISERS AND PROMOTER PRIVATE LIMITED	1189	BINODINI MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
531	AROHAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1190	FINCON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
532	BN INFRASERVICES PRIVATE LIMITED	1191	NAGEN HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
533	CHROME ESTATES PRIVATE LIMITED	1192	5 ELEMENTS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
534	TWINCITY PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1193	AVINAB FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
535	PRACHURYA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED	1194	JOSH INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
536	SASS INFRACON LIMITED	1195	SURAKSHA BIKASH INDIA FINANCIAL SOLUTION LIMITED
537	SAMBRUDHI INFRA PROPERTIES LIMITED	1196	SOS SECURITIES PRIVATE LIMITED
538	EFL INFRA LIMITED	1197	UTKAL FINANCIAL ANDCONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
539	SAHAJEE UDYOG LIMITED	1198	ARTI DEVELOPMENT CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
540	KRUTIBIBHA CORPORATION LIMITED	1199	GREEN INDIA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
541	OSCAR INFRADEVELOPMENT LIMITED	1200	CREDENCE WEALTH SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
542	SUBHAJYOTI REALCON SERVICES LIMITED	1201	ABOVEDAYS CONSULTANT PRIVATE LIMITED
543	MIDEAST INFRASTRUCTURE LIMITED	1202	ENTIRE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
544	SUNFLOWER VENTURES LIMITED	1203	NIFTY RESEARCH TRAINING & CONSULTING PRIVATE LIMITED
545	SALASAR INFRA DEVELOPERS LIMITED	1204	BUTTERFLY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
546	SPRINT INFRA LIMITED	1205	QIDA TECHNOLOGY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
547	KKDIL PROJECTS LIMITED	1206	ZENITH FACILITATOR PRIVATE LIMITED
548	REAL VISION COMMERCIAL CORPORATION LIMITED	1207	U-MAX SOLUTION PRIVATE LIMITED
549	ARGAVE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1208	AUROBINDA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
550	S P RESORTS PRIVATE LIMITED	1209	BRIGHT INDIA MULTISOLUTIONS LIMITED
551	JAYAGURU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1210	VISION COUNTRY WIDESERVICES LIMITED
552	PATITAPABAN REALCON PRIVATE LIMITED	1211	GREEN MOUNTAIN FUNDMANAGEMENT LIMITED
553	AVIGNA DEVA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1212	LIVEL MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
554	BIRAJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	1213	SAI AMARTYA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
555	BARI REAL ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1214	TRANSTEC RESOURCES PRIVATE LIMITED
556	PADMAKESHARI ESTCON PRIVATE LIMITED	1215	TOSH CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
557	MARTINE INFRA TECH PRIVATE LIMITED	1216	GOODWILL SURVEYORS & LOSS ASSESSORS PRIVATE LIMITED
558	DAS BUILDCON PRIVATE LIMITED	1217	SHANTI JEEVAN SEVA PRIVATE LIMITED
559	ARUPAMA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1218	PREMIUM CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
560	SAI MANSIONS PRIVATE LIMITED	1219	SASWAT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
561	ODYSIS INFRA-DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1220	SAIKRISHNA MANAGEMENT & DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
562	BHAROSA INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED	1221	C NEXT INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
563	INNOVATIVE INFRA-PROMOTERS PRIVATE LIMITED	1222	FLORENCE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
564	P CUBE BUILDERS PRIVATE LIMITED	1223	SAMANTARAY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
565	GROWING GLOW INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1224	GOLIFE CONCEPTS PRIVATE LIMITED
566	SAI SIMRAN INFRATECH PRIVATE LIMITED	1225	APEX REALTY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
567	SRS INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1226	GEMS FUNDS MANAGEMENT LIMITED
568	OPACITY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1227	NEWGEN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
569	SMRUTI HOMES PRIVATE LIMITED	1228	ORIARCH PVT LTD
570	LORDS HOUSING PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1229	ALLIANCE CONSULTING ENGINEERS PVT LTD
571	KARTTINE HOLDINGS PRIVATE LIMITED	1230	S.B. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
572	EASTERN INDIA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1231	TRIPower ENGINEERING PRIVATE LIMITED
573	ADIBIKASH CREATIVE PRIVATE LIMITED	1232	UTKAL NIRMAN PRIVATE LIMITED
574	UNICORE REALCON PRIVATE LIMITED	1233	INDCON INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
575	NABADURGA BUILDERS PRIVATE LIMITED	1234	ZEROMM PROJECTS PRIVATE LIMITED
576	MUDRAANK INFRATECH & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	1235	MANORAMA NDT SERVICES PRIVATE LIMITED
577	SURYASUBHA INFRA PRIVATE LIMITED	1236	ADDLIFE EVENT AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
578	RDSP INFRATECH PRIVATE LIMITED	1237	AD MAKERS AND PUBLICITY PRIVATE LIMITED
579	SAISHYAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1238	G S MEDIA PRIVATE LIMITED
580	LAXMINARAYAN INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1239	141 AVENUES AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
581	BHITTIBHUMI INFRATECH PRIVATE LIMITED	1240	SAINAGE ON STREET SERVICES PRIVATE LIMITED
582	S S P L INFRA PRIVATE LIMITED	1241	EXCOGITATE ADV HOUSE PRIVATE LIMITED
583	SHREE RAGHUVeer INFRAPROJECTS & ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	1242	BIGYAAPAN ADSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
584	IGLOWIN INFRACONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	1243	SHRADDHA SABURI CREATIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
585	ARUNIKA INFRATECH PRIVATE LIMITED	1244	OFOS SERVICES PRIVATE LIMITED
586	ASPIRE INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1245	MAANART RESOURCES PRIVATE LIMITED
587	SINEW ASSETS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1246	BONSAI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
588	ALPHA INFRAMATICS PRIVATE LIMITED	1247	KAREER KRAFT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
589	BHUBANESWARI INFRASTRUCTURE ANDDEVELOPER PRIVATE LIMITED	1248	HIGH PROFILE SECURITY AND FIRE SERVICES PRIVATE LIMITED
590	ADA CONSULTANCY ANDDEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1249	MAKEFIT (INDIA) SERVICES PRIVATE LIMITED
591	GALAXY INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	1250	WARY SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES PRIVATE LIMITED
592	GANAPATI INFRA HOMES PRIVATE LIMITED	1251	OOMPH SECURITY & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
593	SAGE VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED	1252	SAHOO AND SAI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
594	BAGALAMUKHI RESOURCES PRIVATE LIMITED	1253	SATYA SAI CORPORATEEXPERTS PRIVATE LIMITED
595	ACHYUTA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	1254	ASHIMA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
596	GREEN ARCH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1255	DIBYANSHI SENTINEL SERVICES PRIVATE LIMITED
597	BHUBANESWARI ESTATES PRIVATE LIMITED	1256	GENIUS CARRIER CALLCENTRE PRIVATE LIMITED
598	SHIKHA WORKS AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	1257	MIDDLEAST TRAINING & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
599	SHREE INFRAHOMES PRIVATE LIMITED	1258	MEGATREND COMPUTERS PRIVATE LIMITED
600	SAI KISHOR HABITAS PRIVATE LIMITED	1259	LORD SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
601	ARMAAN INFRACON PRIVATE LIMITED	1260	NISHA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
602	GRISHNESH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1261	BRISTOL CONSULTING AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
603	ROYAL HINDUSTAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1262	QUANTUM ALLIED SECURITIES PRIVATE LIMITED
604	SAMBHABAMI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1263	DOGS N DETECTIVES PRIVATE LIMITED
605	MAXX UNITECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1264	PARAMVIR INTELIGENCE SECURITY PRIVATE LIMITED
606	TEMPLECITY INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED	1265	RESOLUTE SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
607	SATABDHI MULTY PROJECTS PRIVATE LIMITED	1266	SAISRI INTELLIGENCESECURITY & ALLIEDSERVICES PRIVATE LIMITED
608	RISAV ESTCON PRIVATE LIMITED	1267	ACTION INTELLIGENCE & SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
609	JSS PROJECTS PRIVATE LIMITED	1268	PRADHAN DIVING SERVICES PRIVATE LIMITED
610	S S REALINFRA PRIVATE LIMITED	1269	SUNSHINE MULTI SERVICES LIMITED
611	OMMSHREE INFRASOLUTIONS PRIVATE LIMITED	1270	KG & SONS PRIVATE LIMITED
612	ARADHYA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1271	KNOWLEDGE INFINITY PRIVATE LIMITED
613	OMM DESIGNERS & INFRA PRIVATE LIMITED	1272	WHITE MISSION MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
614	JN INFRA-HOME PRIVATE LIMITED	1273	LIFETOUCH CONCEPT PRIVATE LIMITED
615	GREEN RETURN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1274	TECHNO SOFT EDUCATION PRIVATE LIMITED
616	LORD JAGANNATH INFRA-HOME PRIVATE LIMITED	1275	ELAN INDIA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED
617	BALABHADRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1276	LEARNEXT EDUCATION PRIVATE LIMITED
618	MIDAS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1277	JBC SCHOOL PRIVATE LIMITED
619	AKSHARA INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED	1278	AZEOX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
620	LEAR INFRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	1279	RAJ INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES PRIVATE LIMITED
621	MAHIMA LANDMARK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1280	EXPERT CHILD INSTITUTE INDIA PRIVATE LIMITED
622	UDAYADITYA EPC PRIVATE LIMITED	1281	POSITIVE A CAREER ACADEMY PRIVATE LIMITED
623	BHOORAJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1282	INNOVATIVE KNOWLEDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
624	GAUTAM INFRACON PRIVATE LIMITED	1283	A PULSE CLASSES PRIVATE LIMITED
625	MICRO HOUSING DEVELOPMENT LIMITED	1284	GLOWINGKIDS EDUCATION PRIVATE LIMITED
626	SAI SAMRUDDHI UDYOGINDIA LIMITED	1285	AEON HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
627	SAMPARK PROMOTERS LIMITED	1286	BGR MEDICAL RESEARCH CENTRE AND HOSPITAL PRIVATE LIMITED
628	PURNIMA INFRATECH LIMITED	1287	ROURKELA CITY HOSPITAL AND DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
629	ASTHA INTERIOR & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1288	PANDA NURSING HOME PRIVATE LIMITED
630	SOUDAMINI ESTATES PRIVATE LIMITED	1289	POPULAR HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
631	SHOVAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1290	HEALTHPRO MEDICAL CONSULTANCY PVT. LTD.
632	GS METROPOLIS PRIVATE LIMITED	1291	PADMAJA HOSPITALS LIMITED
633	KUBALAYAM ESTATE PRIVATE LIMITED	1292	MICRO HOSPITALS PRIVATE LIMITED
634	MANORAMA ENGINEERS PRIVATE LIMITED	1293	SHREE JAGANNATH PHARMA AND HEALTH CARE PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
635	TERRACE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	1294	DELTA SCAN & RESEARCH PRIVATE LIMITED
636	EXCELLENT ESTCON PRIVATE LIMITED	1295	GALAXY SAVE NATURE PRIVATE LIMITED
637	SUBHA LABHA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	1296	STUDIO VOICE MASTER PRIVATE LIMITED
638	SAMMEN INFRATECH PRIVATE LIMITED	1297	ANYANT PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
639	SAMPURNA F2R METROPOLIS PRIVATE LIMITED	1298	PRATEEK CINE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
640	S.K.D INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1299	DREAMS-DARUBRAMHA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
641	SREECON HOMES PRIVATE LIMITED	1300	MICRO FILMS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
642	RAYYAN CONSTRUCTION AND DESIGN PRIVATE LIMITED	1301	GREEN INDIA MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
643	GS INFRAPROPERTIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	1302	DARUBRAMHA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
644	CRT CREATIONS PRIVATE LIMITED	1303	B R CREATIVE EYES PRIVATE LIMITED
645	GOVINDA CHOUDHURY AND COMPANY PRIVATE LIMITED	1304	ANGEL BEE MEDIAS PRIVATE LIMITED
646	JP CONSTRUCTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	1305	INNOVATIVES TELE ENTERTAINMENT & MEDIA PRIVATE LIMITED
647	H K P CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	1306	APURVA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
648	PREMIER ASSETS PRIVATE LIMITED	1307	VOX VISUALS PVT LTD
649	RAY INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED	1308	SLB MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
650	SCS REALCON PRIVATE LIMITED	1309	T. SHOURIE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
651	DK HOMES PRIVATE LIMITED	1310	ODISHA EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
652	METIER BUILDCON PRIVATE LIMITED	1311	KONARK TALKIES PVT LTD
653	RAGHU VENTURES PRIVATE LIMITED	1312	KALINGA GANANATYA PRIVATE LIMITED
654	SAHAJEE INFRASTRUCTURE AND MULTIPROJECT LIMITED	1313	SABARA SRIKSHETRA MEDIA SERVICE PRIVATE LIMITED
655	SOVAMECH INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED	1314	SIDDHI MEDIA (P) LTD
656	MARWAH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1315	GOLAP INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
657	MANOR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1316	SAMALESWARI SPORTING PRIVATE LIMITED
658	MOHANTY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	1317	THIRD EYE INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
659	BHAGAWATI PROJECTS PRIVATE LIMITED	1318	ELEGAANT INNOVATORS PRIVATE LIMITED

SL. NO.	COMPANY NAME	SL. NO.	COMPANY NAME
		1319	CLIFORUX STRATEGIES PRIVATE LIMITED
		1320	PALLIANCE MARKETING LIMITED
		1321	PHYSIOFIT PRIVATE LIMITED
		1322	MODENT ANTINA PRIVATE LIMITED
		1323	HOTEL NANDIGHOSH PRIVATE LIMITED
		1324	UMESH HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED

And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of this notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Odisha

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of Section 248 of the Companies Act, 2013 and Rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Shillong-793001, the 7th March 2017

In the matter of striking off of Companies under Section 248 (1) of the Companies Act, 2013

Public Notice No. 01/108—1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that—

- (i) The Following companies have not commenced business within one year of their incorporation,
-NIL.
- (ii) The following companies have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455.
List of the 331 number of Companies enclosed

And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause to the contrary, within thirty days from the date of this notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the Companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
1	U51909AS2012PTC011177	A F SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2	U26941AS2008PTC008773	A.G.CEMENT PRIVATE LIMITED
3	U45201AS2008PTC008890	AAMRIT ABHILAS INFRATECH PRIVATE LIMITED
4	U85110AS2009PTC009023	AASHRAY HOSPITAL PRIVATE LIMITED
5	U01132AS1980PTC001859	ABHOYPUR TEA ESTATE PVT LTD
6	U01403AS2010PLC010334	ABONARI AGROTECH LIMITED
7	U01132AS2010PTC009837	ACE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
8	U22130ML2012PTC008516	ACHIK MEDIA PUBLISHING AND BROADCASTING PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
9	U51103AS2012PTC011157	ADALRICO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
10	U45201AS2011PTC010430	AGAPE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
11	U70100TR2011PTC008329	AGARTALA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
12	U45201AS2012PTC011196	AIMEE BARUAH MULTITRADE PRIVATE LIMITED
13	U40109AS2011PTC010688	AI-SAM ENERGY AND NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
14	U01400AR2010PTC008291	AJIT TRADECON PRIVATE LIMITED
15	U01132AS2001PTC006425	AKANSHA TEA PLANTATION AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
16	U51909AS2007PLC008350	AKOTA COMMERCIAL LIMITED
17	U24233AS2010PTC010179	ALEN J G CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
18	U93000AR2010PTC008311	ALPINE ASSOCIATE PRIVATE LIMITED
19	U51909AS2002PTC006988	AMBIKA SUPPLY & SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U55101AS1987PTC002669	AMRIT HOTELS UDYOG PRIVATE LIMITED
21	U40101AS2007PLC008429	AMRIT PROJECTS (N.E.) LIMITED
22	U31503AS1998PTC005416	ANANTA CONSTRUCTION PVT LTD
23	U24119ML2000PTC006129	ANDERSON BIOTECH PRIVATE LIMITED
24	U15142AS1983PLC002034	ASSAM VEGITABLE ANDOIL PRODUCTS LTD
25	U70100AS2009PTC008932	AVIVI REALATORS COMPANY PRIVATE LIMITED
26	U72900AS2011PTC010672	B. M. D. SOFTECH PRIVATE LIMITED
27	U24242ML2003PTC007035	BALAJI CANDLES PRIVATE LIMITED
28	U52100AS2011PTC010814	BALAJI TRADELINKS PRIVATE LIMITED
29	U70101AS1986PTC002483	BASUDEO HOLDINGS PVT LTD
30	U20296AS2012PTC011027	BASUMATARY BAMBOO MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
31	U15490AS2012PLC011225	BEST BUOY PROJECTS LIMITED
32	U72200AS2000PTC006230	BHABANI PRESS & PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
33	U45209AS2010PTC010230	BHAGWATI INFRATECH PRIVATE LIMITED
34	U45202AS2008PTC008697	BHRIGU ENGINEERS PRIVATE LIMITED
35	U01132AS2006PTC008081	BHURA TEA COMPANY PRIVATE LIMITED
36	U45201AS2007PTC008544	BHUYAN PROJECTS PRIVATE LIMITED
37	U45209MN2012PTC008308	BIJOY & SONS' ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
38	U74140AS2009PTC009496	BIKASH ADVISORS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
39	U74140AS1995PTC004602	BIOSC TECHNOLOGY MANAGEMENT CENTRE PVT LTD
40	U51909AS2010PTC010133	BISON ENTRADE PRIVATE LIMITED
41	U70101AS2009PLC009267	BISON REAL ESTATES & CONSTRUCTIONS LIMITED
42	U45201AS2010PTC009819	BL INFRACON PRIVATE LIMITED
43	U93090AS2011PTC010630	BLACK CAT FORCE PRIVATE LIMITED
44	U60231AS2012PTC011236	BLACKCAT CARS PRIVATE LIMITED
45	U72200AS2011PTC010463	BODHI TREE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
46	U45202AS2007PTC008448	BONOSREE PROJECTS PRIVATE LIMITED
47	U40101NL2011PTC008294	BOOST POWER AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
48	U01132AS2000PTC006149	BORNEWRIA TEA COMPANY PRIVATE LIMITED
49	U64203AS2011PTC010682	BROADBAND NETSERVICES PRIVATE LIMITED
50	U70102AS1998PTC005592	BUDS CREATION PRIVATE LIMITED
51	U70101AS2002PTC006735	BUILDMAX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
52	U51909AS2011PTC010625	CHANDA COMMERCIAL COMPANY PRIVATE LIMITED
53	U70101AS1989PTC003232	CHING-LAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
54	U65929MN1998PTC005544	CITY COMMERCIAL INVESTMENT CO PVT LTD
55	U74900AS2011PTC010703	CLEARWIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
56	U74140AS1986PTC002598	CONTEMPORARY CONSULTANTS PVT LTD
57	U15490TR2008PTC008252	COOKWELL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
58	U72200AS2012PTC011190	CORPORATE CAFE VENTURES PRIVATE LIMITED
59	U51109AS1994PTC004126	D J AND ASSOCIATES PVT LTD
60	U74300AS2011PTC010493	D MEDIA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
61	U45201AS2010PTC010031	D.BRAHMA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
62	U22121AS1988PTC003016	DAINIK ASSAM PVT LTD
63	U50102AS2011PTC010409	DART MOTORS PRIVATE LIMITED
64	U11100AS2012PTC011161	DDR ENERGY PRIVATE LIMITED
65	U13200ML2011PTC008472	DEBDOOT MINERALS PRIVATE LIMITED
66	U15137AS2010PTC010201	DEY IMPEX PRIVATE LIMITED
67	U15491AS1993PTC004011	DHANSHREE AGRO AND LIVE STOCK CO PVT LTD
68	U85100AS2012PTC010984	DR. HAZARIKA & GOSWAMI'S CLINIC PRIVATE LIMITED
69	U01132AS2000PTC006367	DUARAH TEA AND COMPANY PRIVATE LIMITED
70	U15137AS2012PTC011029	DUBORI FOODS PRIVATE LIMITED
71	U70101AS2004PTC007582	DUKEDEE REAL ESTATECOMPANY PRIVATE LIMITED
72	U55101AS1997PTC005122	EASTERN BUSINESS PRIVATE LIMITED
73	U10100ML2010PTC008435	EASTERN CARBON & ALLIED MINERALS PRIVATE LIMITED
74	U14200AS2012PTC011040	EASTERN HILLS GRANITE PRIVATE LIMITED
75	U22121AS2007PTC008388	ECLECTIC MEDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
76	U22110AS2009PTC009038	ELEMENTAL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
77	U85110ML2010PTC008401	EMERENCIA KIEM PYNGROPE MEMORIAL HOSPITAL PRIVATE LIMITED
78	U85110MN2009PTC008246	ESCENT DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
79	U64201AS1988PTC002857	EX SERVICEMEN ASSOCIATES PVT LTD
80	U40109AS2012PTC011199	EXCELLENCY ECO RESOURCES PRIVATE LIMITED
81	U63090AS2010PTC010034	EXOTIC TRIP BOOKING PRIVATE LIMITED
82	U74910AS2003PTC007105	EX-SERVICEMEN TRAINING & SERVICES PRIVATE LIMITED
83	U55101AS2010PTC010219	F & B INFRATECH PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
84	U45400AS2009PTC009259	FACILITATE INDIA PROJECTS PRIVATE LIMITED
85	U85110ML2012PTC008518	FALKON NURSING HOME AND DIAGNOSTIC PRIVATE LIMITED
86	U01122AS1994PTC004291	FAREAST FLORAL VALLEY HERBARIUM PVT LTD.
87	U55101TR2010PTC008303	FELICITAS HOSPITALITY AND RESTAURANT PRIVATE LIMITED
88	U51909AS2012PTC011211	FUZAIL MULTI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
89	U74140AS2012PTC011219	G.I.S GENUINE INSURANCE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
90	U45201TR2012PLC008360	G.K.S. KINSHIP PROJECTS AND CONSTRUCTION LIMITED
91	U15490AS2010PTC009708	G.T. FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
92	U70101AS2012PTC011198	GBSA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
93	U45400AS2009PLC009155	GENERAL PROJECTS AND ENGINEERS LIMITED
94	U74210AS1990PTC003393	GEO TECH PVT LTD
95	U74210AS2005PTC007739	GEOTECH & CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
96	U80301AS2006PTC008276	GIT INSTITUTES PRIVATE LIMITED
97	U51909AS2012PTC011167	GLITZ COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
98	U51909AS2012PTC011049	GLOBAL PRODUCT MARKETING PRIVATE LIMITED
99	U92140AS2004PTC007580	GLORIA FUN ZONE PRIVATE LIMITED
100	U01100TR2011PTC008327	GOMATI AGRI PRODUCER PRIVATE LIMITED
101	U01132AS1994PTC004149	GOODRICH TEA CO PVT LTD
102	U72200ML2012PTC008513	GO'S AS-SAMAD IT PRIVATE LIMITED
103	U01132AS2000PTC006294	GREEN ASSAM TEA ESTATE PRIVATE LIMITED
104	U45201AS2009PTC008994	GREEN INDIA CONSTRUCTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
105	U63040AS2012PTC011188	GREEN PLANET TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
106	U27107AS2010PTC010076	HC KAURA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
107	U30007NL1998PTC005483	HI TECH V PVT LTD
108	U65921MN1988PTC003076	HIGH TECH AUTO FINANCE PVT LTD
109	U74999NL2011PTC008301	HN BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
110	U45201AS2009PTC009071	HOLY STAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
111	U70109TR2010PTC008316	HOMETOWN PROJECTS & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
112	U52590MZ2010PTC008257	HONEYCOMB AGENCIES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
113	U70109AS2009PLC008964	HONEYCOMB INFRACON LIMITED
114	U55101TR2000PTC006334	HOTEL SIMRAN PRIVATE LIMITED
115	U74992AS2012PTC011038	HRD COMMERCIAL & INDUSTRIAL SECURITYFORCE PRIVATE LIMITED
116	U45202AS2006PTC008285	IMAGE ENGINEERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
117	U74140AS2012PTC011234	INTEGRO MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
118	U13209ML2010PLC008427	ITCOL HYDROCARBON LIMITED
119	U13209ML2010PLC008423	ITCOL MINERALS LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
120	U45201AR2012PTC008370	J. SONAM CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
121	U70101AS2009PLC009217	JANA RAKSHA REAL ESTATE LIMITED
122	U36912AS2012PTC010992	JANASAROTHI BULLIONS PRIVATE LIMITED
123	U70101AS2010PTC010239	JANASAROTHI REAL ESTATES & PROPERTIES PRIVATE LIMITED
124	U51909AS2010PTC010246	JANASAROTHI TRADING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
125	U70101AS2011PLC010821	JANSHAKTI REAL ESTATE & AGRO FARMS LIMITED
126	U67190AS2010PTC010322	JASODA MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED
127	U01132AS1992PTC003687	JASPER TEA PRIVATE LIMITED
128	U70101AS2011PTC010515	JAYASHREEG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
129	U51109AS2002PTC006860	JAYSHREE ENTRADE PRIVATE LIMITED
130	U14200AS2008PLC008752	JEEVAN DHARA GEOMINE LIMITED
131	U51109AS2007PTC008336	JEEVAN SANCHAY SERVICES PRIVATE LIMITED
132	U45201AR2010PTC008320	JERMIN INFRATECH PRIVATE LIMITED
133	U45209AR2012PTC008368	JIGOM HIRI & ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
134	U45201AS2010PLC009595	JIVAN PARIVARTAN REAL MARK LIMITED
135	U63000AS2011PTC010435	JUSTYATRA HOLIDAYS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
136	U51109AS2000PTC006264	K D MARKETINGS & WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
137	U45201AS2010PTC010281	K.K.S. VENTURES PRIVATE LIMITED
138	U55101MN2012PTC008309	KAI SERVICES PRIVATE LIMITED
139	U45203AR2012PTC008358	KAKUM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
140	U15400AS2012PTC011209	KALPADROOM FOODS PRIVATE LIMITED
141	U40101NL2010PTC008273	KAP CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
142	U45203AS2010PTC010184	KARSANG CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
143	U01132AS1986PTC002511	KAZIRANGA TEA AND GENERAL INDUSTRIES PVT LTD
144	U52590AS2011PTC010439	KDT TRADINGS PRIVATE LIMITED
145	U14200ML2011PTC008488	KHAWKYLLA MINERALS PRIVATE LIMITED
146	U45201MN2011PTC008282	KHUMAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
147	U72200MN2012PTC008299	KOK SAM LAI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
148	U01132AS1992PTC003827	KPC PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
149	U72100ML2006PTC008087	KUBER POLYMERS PRIVATE LIMITED
150	U51101AS2012PTC011186	LAI TRADING PRIVATE LIMITED
151	U92412ML2010PTC008448	LANGSNING SPORTS CLUB PRIVATE LIMITED
152	U17290AS2008PTC008766	LAXMI TEXTFABS PRIVATE LIMITED
153	U01403TR2010PTC008290	LEGACY ENTRADE PRIVATE LIMITED
154	U50103AS2010PTC010010	LEON WHEELS INDIA PRIVATE LIMITED
155	U65921MZ2007PLC008236	LERSIA FORTUNE FINANCE COMPANY LIMITED
156	U70100AS2011PTC010547	LIFE CARE REALTORS PRIVATE LIMITED
157	U70101AS2012PLC011165	LIFESURAKSHA REALTY INDIA LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
158	U51223AS2003PTC007123	LOHIT MARKETING PRIVATE LIMITED
159	U20296TR2012PTC008341	LONGTRAI HACHUK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
160	U51909MN2011PTC008275	LOOK EAST EXPORT AND IMPORT PRIVATE LIMITED
161	U85110AS2005PTC007967	LUMINOUS LIFE CARE PRIVATE LIMITED
162	U50102AS2012PTC011222	M G T MOTORS (AUTOMOBILES) PRIVATE LIMITED
163	U45202AS2010PTC009961	M R INFRASOURCE PRIVATE LIMITED
164	U45201AS2009PTC009122	M. T. BUILDERS PRIVATE LIMITED
165	U52100AS2011PTC010779	MAA KAMAKHYA COAL TRADING PRIVATE LIMITED
166	U41000AS2012PTC011226	MADESHIYA AQUA AND FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
167	U92100AS2010PTC009828	MADHUPUR MEDIA PRIVATE LIMITED
168	U55101ML2008PLC008330	MAI HOTELS LIMITED
169	U45400AR2012PTC008350	MAJ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
170	U15500ML2010PTC008400	MAKHAN BHOG VENTURES PRIVATE LIMITED
171	U01132AS1996PTC004774	MALABARIE TEA CO PVT LTD
172	U75112MN1995ULL004418	MANIPUR STATE WOMENS DEVELOPMENT CORPORATION LTD
173	U55101ML2008PTC008338	MARBLE ARCH HOTEL PRIVATE LIMITED
174	U51109AS2007PTC017456	MARUBHUMI AGENCY PRIVATE LIMITED.
175	U74900AS2010PTC009914	MAZEL INFRATECH PRIVATE LIMITED
176	U51909AR2003ULT007236	MEENA ENTRADE AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
177	U45201AS2010PTC010271	MEERA INFRACON PRIVATE LIMITED
178	U74140AS2010PTC010205	MEGH LEX SERVICES PRIVATE LIMITED
179	U01403ML2011PLC008455	MEGHA SHINE AGRO COMPANY LIMITED
180	U28999ML2005PTC007955	MEGHALAYA PIPES PRIVATE LIMITED
181	U14200ML2011PTC008478	MEGHALAYA RESOURCES PRIVATE LIMITED
182	U45202AS2010PTC009860	MEKONG ENGINEERING & INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
183	U72200AS2011PTC010535	MERRYLOOK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
184	U70101AS2012PTC011031	MH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
185	U51900AS2012PTC011204	MICROVAULT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
186	U74999AS2012PTC011139	MINDS EYE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
187	U45209AS2010PLC010200	MONITOR PROJECTS LIMITED
188	U45201AS2012PTC011173	MOON LIGHT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
189	U92141AS1994PTC004131	MOONLIGHT CIRCUS COPVT LTD
190	U28930AS2010PLC010204	MOONLIGHT UTENSILS LIMITED
191	U70101AS2012PTC010955	MPR INFRATECH PRIVATE LIMITED
192	U45201AS2010PTC009875	NABAKRIST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
193	U70101AS2012PTC011050	NAMERI INFRASTRUCTURES & BUILDERS PRIVATE LIMITED
194	U24233AS2002PTC006877	NATURAL PHARMA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
195	U45201AS1993PTC003914	NEAC ASSAM PVT LTD
196	U60210AS1995PTC004335	NEF TRADE AND COMMERCE PVT LTD
197	U55101AS2012PTC011200	NETWORK LODGES PRIVATE LIMITED
198	U25209AS2012PTC010909	NEW ERA POLY-TECH PRIVATE LIMITED
199	U52399AS2012PTC011241	NOMOLIGHAR TRADERS PRIVATE LIMITED
200	U27100AS2010PTC010241	NORTH BENGAL ALLOYS PRIVATE LIMITED
201	U51909AS2011PTC010675	NORTH EAST ENTREPRENEURS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
202	U66000TR2009PTC008266	NORTH EAST INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED
203	U74900NL2011PTC008293	NORTH EAST NAGA TRADERS PRIVATE LIMITED
204	U63040AS2011PTC010443	NORTH EAST NATURE TOURISM PRIVATE LIMITED
205	U72200AS2012PTC010998	NORTH EAST TECHNOLOGY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
206	U24232AS2010PTC009746	NOVALIFE BIOTECH PRIVATE LIMITED
207	U80903AS2010PTC010109	NRDS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
208	U85110NL1993PTC003998	OKING HOSPITAL AND RESEARCH CLINIC PVT LTD
209	U51909AS2011PTC010379	OKKAS MARKETING PRIVATE LIMITED
210	U80903AS2012PTC011155	OLYMPUS EDUCATION & RESEARCH PRIVATE LIMITED
211	U45203AS2012PTC011220	OMSHREE GANESH BUILDCON PRIVATE LIMITED
212	U14107ML2001PTC006458	OPTOMAX CALCIUM CALCINATE PRIVATE LIMITED
213	U01403AR2009PTC008286	P. APUM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
214	U45201AS2011PTC010740	PADMANAVA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
215	U70101AS1986PTC002486	PANNA PROPERTIES PVT LTD
216	U74920AS2008PTC008841	PARK INDUSTRIAL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
217	U14200AS2012PTC011152	PHAISAR NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
218	U70101AR2012PTC008372	PINELAND REAL ESTATE DEVELOPERS & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
219	U45209AR2011PTC008344	PINEMOUNT REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
220	U45209AS2012PTC011210	PINGUSH REALCON PRIVATE LIMITED
221	U51101ML2012PLC008514	PLUTUS SYSVEST LIMITED
222	U24292ML2008PTC008324	PODDAR EXPLO-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
223	U01121AS2007PLC008366	POLAR KRISHI-VIKASH LIMITED
224	U01119ML2012PTC008502	POTENTIAL AGRI VENTURES PRIVATE LIMITED
225	U01132AS2012PTC011081	PPS ESQUIRE TEA ESTATES PRIVATE LIMITED
226	U45201AS2009PTC009106	PRABHAKAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
227	U92419AS2010PTC010095	PRAG JYOTI ENTERTAINMENT NETWORK PRIVATE LIMITED
228	U55101AS2010PTC010138	PRANN FEED AND HOTEL PRIVATE LIMITED
229	U51909AS2010PTC009587	PRASASTI MARKETING PRIVATE LIMITED
230	U63090AS2012PTC010925	PRATIK MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
231	U70101TR2012PTC008355	PRERONA EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
232	U52100AS1995PTC004511	PRIYA SUPPLIERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
233	U74900AS2010PTC010227	PURNIMA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
234	U45201AS2011PTC010614	R D N M INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
235	U75200MN2011PTC008285	R R VIGIL SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LIMITED
236	U05004AS2003PTC007216	R&K FISHING AND AGRO-BASED PRIVATE LIMITED
237	U24100AS2012PTC010973	R.S. TRADE AND COMMERCE PRIVATE LIMITED
238	U01132AS1972PTC001390	RAFIULLA TEA & INDUSTRIES PVT LTD
239	U40101AR2010PTC008297	RAHUL ENERGY & INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
240	U51909AS2012PTC010915	RAJ TECH AGENCY PRIVATE LIMITED
241	U26959ML2007PLC008283	RATONG CEMENTS LIMITED
242	U70101NL2012PLC008324	REALISSM DEVCON PROJECT INDIA LIMITED
243	U70101AS2012PTC010962	REALTY HOUSING PRIVATE LIMITED
244	U51103AR2012PTC008369	REALZEZ TRADING PRIVATE LIMITED
245	U85100AS2010PTC010174	REI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
246	U70101AS2012PLC011208	REVERIE REALCON INDIA LIMITED
247	U72200AS2005PTC007949	RHINO INFOTECH PRIVATE LIMITED
248	U51909ML2003PTC007049	RI BHOI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
249	U01400TR2010PTC008311	RIGALIA ECO AGRO PRIVATE LIMITED
250	U74120AS2010PTC009840	RISTAH POINT SOLUTION PRIVATE LIMITED
251	U55101AS2009PTC009426	RIVIERA RETREAT PRIVATE LIMITED
252	U70101AS2012PTC011169	RUDRAKSHA PROJECTS PRIVATE LIMITED
253	U51909AS2012PLC011181	RUPOSHI MARKETING LIMITED
254	U74140AS2012PTC011229	RVG SOLUTIONS & SERVICES PRIVATE LIMITED
255	U45201TR2010PTC008299	S B M INFRA PRIVATE LIMITED
256	U15490NL2011PTC008296	S.D. INFRA MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
257	U15541AS2012PTC010995	S.N. FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
258	U50102AS2012PTC011159	S.R.LAXMI MOTORS PRIVATE LIMITED
259	U66000AS2011PTC010507	SAFEX UNIQUE INSURANCE MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
260	U14200ML2012PTC008519	SAKHIAT MINING PRIVATE LIMITED
261	U63023ML2003PTC007138	SALASAR BUSINESS PRIVATE LIMITED
262	U74900AS2010PTC010172	SAMRIDHI PROFESSIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
263	U51395AS1985PTC002459	SANGEETA MUSIC PVT LTD
264	U70101AS2011PTC010470	SANJIB DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
265	U01132AS1988PTC003019	SANTI TEA PRIVATE LIMITED
266	U45209AS2011PTC010372	SARADHA REAL-ACCOMMODATION PRIVATE LIMITED
267	U55101AS1986PTC002623	SARNAZ AND COMPANY PVT LTD
268	U15141AS1982PLC001967	SATI OIL UDYOG LTD

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
269	U65991AS2012PLC011244	SEA STONE MUTUAL BENEFIT INDIA LIMITED
270	U51909AS2008PTC008683	SEEMA COMMERCIALS PRIVATE LIMITED
271	U01403AS2009PTC009150	SEUJI AGRO PROCESSING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
272	U85110AS2003PTC007091	SEVEN SISTERS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
273	U72300AS2012PTC011221	SHAANSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
274	U93090AS2005PTC007718	SHANGRILA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
275	U17122AS2011PLC010353	SHANTI SILK & CRAFTLIMITED
276	U51909AS2010PTC009583	SHARP AND SHINE MERCANTILE PRIVATE LIMITED
277	U15541AS2012PTC011187	SHEELY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
278	U70101MN2011PTC008277	SHIJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
279	U45309AS1997PTC005198	SHREE BHARAT BUILDERS PRIVATE LIMITED
280	U27101AS2008PTC008778	SHREE PUNRASAR FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED.
281	U01132AS1999PTC005847	SHREE SAI TEA ESTATE PRIVATE LIMITED
282	U51909AS2007PTC008436	SHRI KRISHNA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
283	U74140ML2009PTC008364	SHUK ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
284	U60231AS2003PTC007143	SIBA ALLIED COMMERCIALS PRIVATE LIMITED
285	U65929AS1996PTC004887	SIDDHA STEEL AND APPLIANCES PVT LTD
286	U63000AS2008PTC008898	SMARTWAY SERVICES PRIVATE LIMITED
287	U70200AS1993PTC003896	SOMAN MARKETING COMPLEX PVT LTD
288	U51101AS2012PTC011054	SPARKLINK INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
289	U66000AS2009PTC009534	SPEED RISE MERCHANDISING PRIVATE LIMITED
290	U51900AS2012PTC010899	SPN MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED
291	U45201AS2008PTC008851	SRISHTI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
292	U51109AS2002PTC006784	SUAVE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
293	U45203AS2011PTC010459	SUKAFA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
294	U55100AS2012PTC011166	SUPRATIK PRIVATE LIMITED
295	U70101AS1994PTC004284	SUSRITA HOLDINGS PVT LTD
296	U26942ML2007PLC008264	SUTNGA CEMENTS LIMITED
297	U10100ML2007PLC008254	SUTNGA MINERALS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
298	U72900AS2011PTC010414	TARANG WIFY PRIVATE LIMITED
299	U74210NL2011PTC008306	TECH'S VISION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
300	U52399AS2012PTC011180	THOUSAND MILES BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED
301	U52590AS2010PTC010343	THREE PEAK TRADE COMM PRIVATE LIMITED
302	U72900AS2010PTC010292	TIGMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
303	U01132AR1998PTC005619	TINGKHATRA PLANTATION PRIVATE LIMITED
304	U14200ML2010PTC008433	TIRUPATI MEGHA MINERALS PRIVATE LIMITED
305	U70100TR2011PTC008323	TIWARY BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED
306	U63090TR2008PTC008247	TIWARY LOGISTICS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	NAME OF COMPANIES
307	U52208AS2012PTC011164	TOWN WINES PRIVATE LIMITED
308	U01409AR2010PTC008306	TOWSIK TRADECON PRIVATE LIMITED
309	U13200ML2010PTC008411	TRANSWORLD STEELS & MINES PRIVATE LIMITED
310	U13100ML2011PTC008489	TREASURY IRON MINES PRIVATE LIMITED
311	U15137TR2009PLC008265	TRIPURA INDUSTRIES LIMITED
312	U20296TR2010PLC008291	TRIPURA NATURAL FIBRES AND BAMBOO LIMITED
313	U51909TR2010PTC008289	TRIPURA PRODUCTS MARKETING PRIVATE LIMITED
314	U70101AS2012PTC011242	UDAYACHAL ESTATE PRIVATE LIMITED
315	U51909MN2002PLC006831	UNITED AROMA COMMERCIAL COMPANY LIMITED
316	U51909TR2011PTC008334	USHA DEY MARKETING PTIVATE LIMITED
317	U22210AS2010PTC009836	USHAV PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
318	U40101ML2008PLC008308	V M POWERS LIMITED
319	U15543AS2012PTC010953	VASTAB AQUA PRIVATE LIMITED
320	U64202MZ2008PTC008237	VEES COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
321	U52399AS2010PTC009821	VERSATUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
322	U64100AS2010PTC009937	VIEW IMAGE INFRATECH PRIVATE LIMITED
323	U24100AS2011PTC010673	VINAYAK FERTICHEM PRIVATE LIMITED
324	U15122AS2012PTC011160	VINAYAK HYGIENE PRIVATE LIMITED
325	U70101NL1999PTC005796	VRINDAVAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
326	U72300AS2012PTC011178	XEBEC INFOMATIX PRIVATE LIMITED
327	U74140AS2009PTC009037	YAQEEEN SERVICES LIMITED
328	U22300NL2011PTC008307	YMEDIA PRIVATE LIMITED
329	U45202AS2011PLC010717	YUBARAJ DYNASTY CONSTRUCTION & MINING LIMITED
330	U70109AS2010PTC010269	YUBRAJ DYNASTY REALESTATES PRIVATE LIMITED
331	U45201AS2008PTC008636	YUVRAJ REALTORS PRIVATE LIMITED

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar of Companies
North East Region, Meghalaya

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

BANSHI DHAR DUBEY

Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.04.22 11:32:15 +05'30'